
सामीअ वेद सुणाया...
लछमण परसराम हर्दवाणी

ॐ

सामीअ वेद सुणाया ...

वेदान्त - दर्शन जो परिचय ऐं सामीअ जे १०० सलोकनि जी समुझाणी

• लेखक •

प्रो. लछमण परसराम हर्दवाणी

सामीअ वेंद सुणाया ...

- **लेखक** © : प्रो. लछमण परसराम हर्दवाणी
  कविता, प्रोफसर कॉलनी
  सावेडी, अहमदनगर – ४१४ ००३.
  E-mail - lphardwani@yahoo.com Mo. 098906 93931

- **छापो पहिरियों** : २०१०
- **कापियूं** : २०००

- **अखर सजावट** : श्री. संजय कोरपे, फॅन्टा–सी कॉम्प्युटर्स, अ.नगर
  मो. ९४२२२ २००७६

- **कवर पेज** : सामी साहिब जो चित्रु :
  श्री. मेघराज तलरेजा, मुंबई

- **कवर पेज कोलाज** : प्रो. लछमण हर्दवाणी ऐं श्री. संजय कोरपे

- **मुद्रक / छापींदड़ु** : श्री. मनीष झंवर, ममता ऑफसेट, अहमदनगर
  मो. ९८२३२ ७१७१६

- **प्रकाशक** : सेठ भजनलाल रोहरा चैरिटेबल ट्रस्ट
  दौलत नगर, बोरीवली (पूर्व) मुंबई – ४०० ०६६

- **मुल्हु** : श्रध्दा ऐं प्रेम

प्रेरणास्रोत

ब्रह्मलीन सद्‌गुरु १००८ **साईं परमानंद साहिब**

श्री परमानंद भण्डार, खार (मुंबई) – कनखल (हरिद्वार) तथा

शिवपदवासी पिताश्री श्री. भजनलाल राधाकिशनदास रोहरा

श्रद्धा सुमन

पूजनीय ब्रह्मलीन **साईं हरिॐलाल जी**

पावन स्मृतीअ में समर्पित

प्रकाशक

सेठ श्री भजनलाल रोहरा चॅरिटेबल ट्रस्ट

मुंबई

क्रम (सिलसिलो)

१ प्रकाशक पारां... पृष्ठ 1

२ ब अखर 3

३ महाकवी सामी 6

४ वेदान्त - दर्शन 11 - 37

५ सामीअ जा १०० सलोक (अर्थ सां) १ - १००

१. अजाइब कुदिरत
२. अण हूंदो संसारु
३. अथी महांगो
४. अबिनासीअ जो नासु
५. अविद्या जो अहंकारु
६. अविद्या जो संतु
७. अविद्या जो दरियाहु
८. अविद्या बंदि किया
९. आतम रसु मिठो
१०. आदि वियादि उपादि
११. आयो नागर नटु
१२. आशिक़ कीन लिकनि
१३. अंधा कनि अभिमानु
१४. करियां कहिड़ो हालु
१५. करे नाचु नटी
१६. करे भाउ भगति
१७. केडी वडाई गणियां, पुरिख
१८. केडी वडाई गणियां, सापुरसनि
१९. केतिरी गणियां, महिमा
२०. गुरमुखु कीन छपे
२१. घर में रामु रहे
२२. घुरें कोहु घणी
२३. चङा से चइजनि
२४. चंचल चोर चुग़िल
२५. छह अठारहं चारि
२६. जगु में वसनि ठगु
२७. जिएं कंवल खिली
२८. जीअं सूरु सती
२९. जीएं हर्यो दरिख़तु
३०. जीएं हिरिखी हीर
३१. जेको दुखाए
३२. जेको पियो किरी
३३. जोगी सन्यासी बैरागी
३४. जंहिंखे परम परिसु
३५. जंहिं समुझो सूतु
३६. ठाकुरु विकाणो
३७. डिसी जीउ ठरे
३८. तंहिंजा सभि पिर्वाणु
३९. दरदवंद दिलिबरु
४०. नकी थीउ विरक्तु
४१. नको आरु न पारु
४२. नारायण जे नाम जो
४३. निरिगुणु ऐं सरिगुणु
४४. पथर पूजा कनि
४५. परिची जंहिं पियासे
४६. पलि पलि कनि पुकार
४७. पूजें कोहु पथर
४८. फुरने मंझि फासी
४९. बिना साधि संगति
५०. बे अंत जो अंतु
५१. बेहदि बेपरिवाह
५२. बधो सभु जहानु
५३. भगति डिनी भगवान
५४. भगति बिना भगवानु
५५. भगति मंझि भगवंतु
५६. भावना करे भगतु
५७. मनु मथुरा
५८. महबत जी मिसिरी
५९. मानुख जो अवतारु
६०. माया मंझि मग़रूरु
६१. मूरख करि न ख़्वारु
६२. मूरख करि न माणु
६३. मूरख कीन डिसनि
६४. मूरखु विञाए थो
६५. मूरखु सो आहे.
६६. रही कीन सघे
६७. रोइनि ज़ारूं ज़ार
६८. वञे कीन कही
६९. वडी वडाई सामी जाणु
७०. विरिली माउ जणे
७१. विरिलो विलोड़े
७२. विसनि विञायो
७३. वेद पुरान पढ़ही
७४. वेदनि जा महावाक
७५. वेदनि जो वखाणु
७६. सजण जी सोभिया
७७. सजण सूर चया
७८. सतिगुर रहमु कयो
७९. सतिगुर वचनु उतो
८०. सदाई वैरागु रखनि
८१. सन्यासी सेई
८२. सभ खे कालु कहारु
८३. सभ खे रुआरे
८४. सभ में सुञाणनि
८५. सभोई संसारु
८६. साध संगति डे पेरु
८७. साधू जनु सुगमु
८८. सामी कीम सडाइ
८९. सामी सभ जो देवु
९०. सारो जगु पचे, थो
९१. सुहागिणि साई
९२. सो नांगो निरबानु
९३. सो प्रेमी पूरनु
९४. सो साधू जनु जाणु
९५. सोई संतु भगतु
९६. संतनि जो दरिसनु
९७. हज़ारनि जी हिक
९८. हरिजन कढी हटु
९९. हीरो जनमु हारे
१००. होरी खेलनि संत

प्रकाशक पारां

अंदरि लालाऊं लाल थी, अंदरि चंडु चड़हे,
अंदरि आब-हयातु थी, अंदरि ठाहु ठहे,
आनंद जे भंडार में, को गूंगी टुबी डे,
गूंगी टुबी डे त अदा तुंहिंजो मोखु थे !

अध्यात्म-विद्या जो मूल रहस्यु (राजु) इहो समुझणु आहे त जंहिं वस्तूअ खे बाहिर गोल्हींदे इन्सानु हैरानु ऐं परेशानु थी रहियो आहे, उहो को परे कोन्हे; उहो त असां जे अंदर में ई आहे, ठीक अहिड़ीअ तरह जीअं हरण जे अंदरि खस्तूरी ! इहा सचाई बार बार बुधण खां पोइ बि गाल्हि समुझ में कान थी अचे ऐं न ई असीं पंहिंजे अंदर में स्थिरता क़ाइमु था करे सघूं. तंहिंकरे मूल गाल्हि जो राजु या अर्थु समुझी सघण खां असीं महरूमु था रहिजी वञूं.

जीअं केले जे वण निस्बति चयो वियो आहे, ‘ज्यों केले के पात पर, पात पात पर पात’, तीअं संतनि जी गाल्हि गाल्हि में गाल्हि हूंदी आहे. तंहिंकरे संत - सत्पुरुष जेका बि हक़ीक़त या ततु समुझाइण जी कोशिश कंदा आहिनि, उन लाइ ख़ास ध्यानु डियण ऐं सूख्यामता जी ज़रूरत हूंदी आहे. छो त महापुरुषनि जे वचननि या कविता वग़ेरह जो सिर्फ़ु लफ़्ज़ी अर्थु समुझण सां कुझु हासिल कोन थी संघंदो. उन सां गडु लाक्षणिक अर्थु ऐं पोइ व्यंजित अर्थु (लिकल, गुझी मानॉ) पिणु समुझणु ज़रूरी हूंदो आहे. भाव ऐं वीचार त अहमियत रखंदा आहिनि. संतनि जे सुख़ननि या संदनि कविता जो भाव-ग्रहण करणु अध्यात्मिकता (रूहानियत) जे लिहाज़ खां बेहदि ज़रूरी आहे.

सभु कुझु त असांजे अंदर में, मन में ई समायलु आहे. जंहिं सुख-संतोष-समाधान या आनंद जी तलाश असीं बाहिर करे रहिया आहियूं, उहो त असां जे अंदरि ई आहे. परम पूज्य ब्रह्मलीन १००८ साईं परमानंद साहिब पंहिंजे मथिएं श्लोक ‘गूंगी टुबी’अ में इहो ई समुझाइण जो जतनु कयो आहे त ज़रूरत आहे हिकु भेरो एकाग्रता सां पंहिंजे मन-महराण में टुबी डियण जी, अंतरात्मा रूपी मोती तलाशण जी. अंतरात्मा खे सुञातोसीं मानॉ असीं मालामालु थी वियासीं ! सत्गुर देव भगवान चवनि था,

प्रेम में पियो ‘परमानंद’ चउ, सचनि सुखनि ते सोघो रहु ।
अंदर जा गुझ तूं गोल्हे लहु, जंहिं में अथी अण-मुल्ही माया ।।

अंदर में त ग़ैबी ख़ज़ानो भरियो पियो आहे, सिर्फ़ु टुबी डियणी आहे, लोभ

सामी साहिब पिणु पंहिंजे हिक सलोक में चवनि था त,

छह अठारहं चारि, ग॒ाल्हि चवनि था हिकिड़ी,
दरि दरि देवाननि जां, नाहक्कु कीम निहारि,
गुरगम पांहिंजे घर में, ग़ैबी ग़ोता मारि,

हिन कलिजुग॒ में संतनि महात्म॒ुनि जा वचन आसानीअ सां पड़हण ऐं ब॒ुधण जो मोक्ओ मिले थो. मगर कलिजुग॒ जी हिक अजीब बीमारी पिणु असां खे लग॒ी वई आहे, जेका **'कैंसर'** खां बि वड॒ी आहे, ऐं उहा आहे **'वेसरि'** जी बीमारी ! हाणे ब॒ुधोसीं, वरी ब॒िए पलि विसारे छड॒ियोसीं ! न अंदर में उतारियोसीं ऐं न ई चिंतनु - मननु करणु जी कोशिश ई कईसीं. पोइ कीअं सुञाणे सघंदासीं पंहिंजे 'आत्म - स्वरूप' खे ? तंहिंकरे बार - बार पड़हण, दुहिराइण ऐं हंडाइण जी गालहि चई वेई आहे, जीअं असीं 'वेसरि' खां मुक्ती पाए सघूं. छो त परमार्थ जी राह बेहदि सूख्यम हूंदी आहे,

सूखम खों सूखम, अथी राह अजीब जी,
खणे साणु ख़ुशीअ जी, कलिपत रीअ .कदमु
त आतम मदु अगमु, सामी लहें सुथिरो

इन सचाईअ खे समुझी सघण जे इरादे सां सामी साहिब जा १०० सलोक अर्थ सां हिक पुस्तक जे रूप में तयारु करण जो कुझु कठिन कमु अहमदनगर निवासी भाउ लछमणदास हर्दवाणीअ काफ़ी महिनत सां रासि कयो आहे. सिंधी ब॒ोली ऐं देवनागरी लिपीअ लाइ बेहदि प्यारु ऐं आस्था रखंदड़ हिन भाउ जे मन में सिंधी संत - साहित्य लाइ तमामु घणी श्रध्दा आहे. ख़ास करे महाकवी सामी साहिब लाइ अथाहु आदरु आहे. इन क़िस्म जो हीउ पहिरियों किताबु आहे, जंहिं में १०० सलोकनि जी मानॉ ऐं भूमिका विस्तार सां समुझाई वेई आहे.

असां में पंहिंजे सत्गुरनि परम पूज्य ब्रह्मलीन १००८ श्री परमानंद साहिब जे आशीर्वाद तथा शिवपदवासी पूज्य पिताश्री श्री भज॒नलाल जी रोहरा जे संस्कारनि जे कारण सामी साहिब जे सलोकनि निस्बत काफ़ी लग॒ावु रहियो आहे. हाणे हीउ सार्थ सलोकनि वारो पुस्तकु पड़ही करे पाठक परम अर्थ जो लाभु प्रापति कनि, बस इहा ई प्रभूअ जे चरणनि में प्रार्थना आहे.

दैलत नगर,
बोरीवली (पूर्व)
मुंबई - ४०० ०६६

कृपाकांक्षी,
श्याम रोहरा
ट्रस्टी, सेठ भज॒नलाला रोहरा चैरिटेबल ट्रस्ट

ब॒ अखर

जिते सत्गुरु, उते ज्ञानु
जिते ज्ञानु, उते आत्मज्ञानु,
जिते आत्मज्ञानु, उते समाधानु
जिते समाधानु, उते कल्याणु.

वेद सिंधू नदीअ जे किनारे ते (सप्त-सिंधू नदियुनि जे किनारनि ते) हज़ारें साल अगु॒ रचिया विया. सिंधी महाकवी सामीअ उहे वद १८ सदीअ में सुणाया. जीअं संस्कृत में रचियल श्रीमद्‌भग॒वतगीता सवा सत सौ साल पहिरीं संत ज्ञानेश्वर पंहिंजे वक़्त वारी मरहिटी बो॒लीअ में 'ज्ञानेश्वरी'अ जे रूप में सुणाई, तीअं सामी साहिब मध्ययुग/मध्यकाल में संस्कृत में रचियल वेदनि जी वाणी सिंधी बो॒लीअ में सुणाई. इन करे मां सामी साहिब खे हिकु महान कवी थो समुझां, जंहिंजी कविता ज्ञान, भगि॒ती ऐं कर्म जी कविता आहे, प्रेम, भगि॒ती-रस ऐं शांत-रस जी कविता आहे. सामीअ जो काव्यु इन करे बि महान आहे, जो इहो मनुष जातीअ खे ऊंचो बणाइण ऐं मोख जो मार्गु डे॒खारींदड़ु काव्यु आहे. वेद, वेदान्त ऐं भारतीय संस्कृतीअ जी समुझाणी हजारें सलोकनि में डीं॒दड़ु सामी सिंधी साहित जो पहिरियों ऐं आख़रीन कवी आहे.

अथाह सागर जे किनारे ते बीही करे उफ़क़ सां आलिंगन कंदड़ बेअंत लहरुनि जो दर्शनु करण जियां, आकास मां धरती माता जी अद्‌भुत सूंहं पसण जियां, सिंधू नदीअ जो दिव्य दर्शनु करण जियां या प्रभाति ऐं संझा जे सुहिणे समय में सिज जे किरणनि जे पसारे जी सुंदरता पसण जियां सामीअ जा सवें हज़ारें सलोक पड़हण-बु॒धण सां हिक अद्‌भुत ऐं अलोकिक आनंद जी जेका अनुभूती प्रापति थिए थी, तंहिंजो बयानु करे सघण वक़्ति लफ़्ज़ लंगिड़ा था बणिजी पवनि, ऐं बाक़ी बचे थो इहो अहसासु, इहा बू॒झ त सामीअ जा सलोक त पंहिंजे अंतर्जग॒त में, हिर्दे में अनुभव करण या माणण जा आहिनि. जीअं संत नामदेव 'ज्ञानेश्वरी' ग्रंथ लाइ चयो आहे त,

'नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी । एक तरी ओवी अनुभवावी ।।'

तीअ सामीअ जे सलोकनि निस्बति पिणु चई सघिजे थो त,

सामी हिकु वापारी हूंदे बि ईश्वर-भक्तु ऐं ज्ञानी कवी हो. भगिती संदसि कविता जो स्थायी भावु आहे. सामीअ पंहिंजा हज़ारें श्लोक पंहिंजीअ ई संस्कृतीअ सां वास्तेदार पंहिंजीअ ई सिंधी बोलीअ में ऐं पंहिंजीअ ई लिपीअ में, गुरुमुखी लिपीअ में (जा देवनागरी लिपीअ जो ई हिकुरूपु आहे) लिखिया. कविता लाइ पंहिंजो ई भारतीय छंदु श्लोक (सलोक) अपनायाईं सिंधीअ में अवतार बणिजी आयल वेदनि जी ज्ञानवाणी सुणाइण लाइ मां सामीअ जे इन 'स्वत्व' खे प्रणामु थो करियां.

वेदान्ती कवी सामीअ खे हिन्दु-सिन्धु जे किनि विद्वाननि सूफ़ी संतनि जी सिफ़ में विहारण जी कोशिश कई आहे. दर असल सामीअ खे सूफ़ी कवी नथो चई सघिजे. सामी पाण वेदान्ती पंडित स्वामी मेंघराज जो शिषु हो. सामीअ पंहिंजे गुरूअ जे सन्निध्य में वेद विद्या जो संपूरन अध्ययनु/अभ्यासु कयो हो. संदसि मुख मां वेद-वेदान्त जा ई वीचार प्रवाहित थिया आहिनि. सामी पिणु पाण खे वेदनि जो भाष्यकारु (शरह लिखंदड़ु) थो सडाए. संदसि काव्य जे मूल भाव, वीचार या ततनि ऐं मक़्सद ते ध्यान सां नज़रसानी करण सां ध्यान में ईंदो त सामीअ खे वैदिक परंपरा वारो देसी, पंहिंजीअ ई भूमीअ वारो तत्त्वचिंतक चवणु ई मुनासिब थींदो. सूफ़ियुनि जूं के ख़ासियतूं सामीअ जे सलोकनि में डेखारण जी कोशिश कई वेई आहे. मगर अहिड़ियूं ख़सियतूं सामीअ में चाहे सूफ़ियुनि जे काव्य में वैदिक असर (प्रभाव) जे करे ई आयल आहिनि. तंहिंकरे इहो चवणु ई सच ऐं साबितीअ वारो थींदो त सामी वैदिक परंपरा वारो शुद्ध वेदान्ती सिंधी कवी हो.

हिन पुस्तक में सामीअ खे समुझण जी कोशिश कई वेई आहे. सलोक समुझी सघण जे लिहाज़ खां पहिरीं 'वेदान्त-दर्शन' डिनो वियो आहे, जंहिंजे पड़हण ऐं समुझण सां सामीअ जा सलोक सवलाईअ सां समुझी सघण में सहायता थी सघंदी. छो त वेदान्त-दर्शन जी जाण खां सवाइ सामी पूरीअ तरह समुझी कोन सघिबो. सिंधी साहित्य में पहिरियों भेरो देवनागरी लिपीअ में १०० सलोकनि जी समुझाणी विस्तार सां डिनी वेई आहे. हूंअं, सामीअ जे हिक हिक श्लोक ते वडो प्रवचनु कर सघिजे थो. सामीअ जा सलोक जीअं मूं समुझा, तीअं उन्हनि जो अर्थु डियण जी हीअ मुंहिंजी कोशिश आहे, जा सलोकनि जे अभ्यास ऐं चिंतन जी हिक दिशा बणिजी सघे थी.

हीउ अनोखो पुस्तकु मूं जहिड़े हिक साधारण सिंधी - भाषा - प्रेमीअ खां मुंहिंजे सत्गुर **प.पू. अण्णा महाराज** मूंते कृपा करे लिखाराए वरितो आहे, जिनि जी आसीस सां मां 'ज्ञानेश्वरी' ऐं दासबोध' जहिड़ा उत्तम ग्रंथ सिंधीअ में आणे चुको आहियां.

खे साष्टांग नमस्कार थो करियां. वेदान्त-दर्शन समुझण लाइ मां पंहिंजे गुरूअ समान अध्यापक डॉ. देवीप्रसाद खरवंडीकर, प्रा. हेमंत गोखले, परम मित्र डॉ. रत्नाकर बा. मंचरकर ऐं गुरुबन्धू श्री विलास चिपळूणकर वग़ेरह सजणनि जो बेहद थोराइतो आहियां. आभारी आहियां स्व. प्रो. ह.श्री. शेणोलीकर जो, जंहिंजे 'मराठी संत-तत्त्वज्ञान संज्ञा कोश' ऐं डॉ. अनुराधा कुलकर्णी जो,जंहिंजे ग्रंथ 'पारमार्थिक शब्दकोश' इन दिशा में मुंहिंजी रहबरी कई.

मां बेहद थोराइतो आहियां सामी - प्रेमी आदरणीय श्री श्यामलाल रोहरा ऐं संदनि संस्था तथा भाउरनि जो, जिनि हिन सां अगु 'सामीअ जा सलोक' किताब जूं ३००० कापियूं छपाराए आम प्रेमी-पाठकनि लाइ देवनागरी लिपीअ में सामी मयसर करे डिनो ऐं हाणे हिन सुहिणे किताब जे छपाईअ जी सजी जवाबदारी खणी सिंधी बोली, साहित ऐं समाज सां वडा वड़ कया आहिनि.

हीउ पुस्तकु 'फॅन्टा-सी कॉम्प्युटर्स' वारनि टाईप सेट कयो आहे, जिनि जी मातृभाषा सिंधी न हूंदे बि सिंधी देवनागरी लिपी आसानीअ सां टाइप करे सघिया आहिनि. इन लाइ मां श्री. संजय कोरपे खे धन्यवाद थो डिया. हमेशह जियां मुंहिंजे सिंधी किताबनि जी सुहिणी छपाई करे डींदड़ ममता प्रेस जे श्री. मनीष झंवर खे धन्यवाद !

जीवन जे पछाड़ीअ वारे अध्याय में अध्यात्म (रूहानियत) जो अध्ययनु

सामी! मां न कवी को, न ई प्रवचनकार
डाति न मूं में आहि का, नाहियां टीकाकार
सामी ! तुहिंजा सलोक रूहानी सभि प्रकार,
शल थिए स्वीकार, समुझाणी सिंधी लोक में !

'कविता', प्रोफ़ेसर कॉलनी
सावेडी, अहमदनगर - ४१४ ००३

लछमण परसराम हर्दवाणी

महाकवी सामी

१८ सदीअ वारी सिंधी भगि॒ती-काव्य धारा जी टिमूर्ती शाह लतीफ़ (१६८६-१७५२), सचल सरमस्तु (१७३६-१८२६ ऐं सामी (१७४३-१८५०) सिंधी साहित्य-संसार जा ३ अमुल्ह रतन आहिनि, जिनि जी अमर कविता ते सिंधी साहित्य ऐं समाज खे फ़ख़ुरु आहे. सामी हिक महा जागि॒रतीअ जे दौर जो पोयों संत-कवी मञियो वेंदो आहे. जंहिं पंहिंजे गुरूअ जे ग्यान, किर्पा ऐं वेदांत जे अभ्यास दुआरां पाण त आत्मज्ञानु पातो ई साणु साणु उन जो रसु सिंधी समाज खे बि चखायो.

।। मुख़्तसिर जीवन-चरित्रु ।।

महाकवी सामी साहिब जो पूरो नालो चैनराइ बचूमल (या मुरलीधर) दतारामाणी हो. हू शिकारपुर सिंधु जे मशहूर लुंड खानदान में ज॒ावा हुआ. अगि॒ते हली हू 'सामी' उपनाम सां मशहूरु थिया. संदनि भगि॒ती-कविता इन ई नाले सां लिखियल आहे. सामी साहिब जो जनमु शिकारपुर सिंधु में ई. स. १७४३ में थियो ऐं देहांतु ई. स. १८५० में थियो. इन हिसाब सां हुननि हिक सौ सालनि खां व॒डी हयाती माणी हुई. पंहिंजे घर जे गुज़र लाइ हू शिकारपुर जे सेठि टिंडरमलाणीअ जे पेढीअ ते कमु कंदा हुआ, जंहिंजा ईरान ऐं खुरासान सां वापारी नाता हुआ. भाई चइनराइ (सामी) हुननि वटि दलालीअ जो या कपिड़े जे कमीशन एजंट जो कमु कंदा हुआ. सज॒ी उमिरि हुननि इहो कपिड़े जो ई धंधो कयो. शिकारपुर ऐं अमृतसर संदनि कम धंधे जा मुख्य केंद्र हुआ. हू इन्हनि बिन्ही शहरनि में ईंदा वेंदा हुआ.

टीहनि सालनि जे उमिरि में हू स्वामी मेंघराज नाले महात्मा जे सम्पर्क में आया. स्वामी मेंघराज वेदांत ऐं संस्कृत काव्य जो व॒डो पंडतु हो. हुन सां गडु॒ रही भाई चइनराइ वेदांत ऐं संस्कृत कविता में माहिर बणिजी विया. पंहिंजे नमूने गुरूअ खे इज़त ड॒ियण जे लिहाज़ खां भाई चैनराइ जेके सलोक (श्लोक) लिखिया, उन्हनि में सामी उपनामु/तख़लुस धारणु कयो. ड॒ह साल खनु सलोक लिखण जो अभ्यासु करण खां पोइ हुननि पाण सलोक लिखणु शुरू कया. सलोक शिकारपुर ऐं अमृतसर में लिखियाऊं. चालीह सालनि जे उमिरि खां वठी हयातीअ जे पछाड़ीअ ताईं सामी साहिब सलोक लिखंदा रहिया.

।। सामीअ जा सलोक ।।

महाकवी पैसे, पद ऐं प्रतिष्ठा खां त परे हूंदा आहिनि पर पंहिंजे साहित्य बाबत पुणि

बेपरिवाह हूंदा आहिनि. सामी साहिब खे बि पैसे ऐं जस जी परिवाह कान हुई. हू मशहूरीअ जे मर्ज़ खां दूरि हुआ. हू पंहिंजा सलोक काग़र या काठ जे नंढिड़नि टुकरनि ते गुरुमुखीअ में लिखी मटिके में विझंदा वेंदा हुआ, जंहिंजो कोई हिसाबु कोन हूंदो हो. अपार सलोकनि जो उहो भंडारु संदनि मृत्यूअ खां पोइ समाज जे सामुहूं आयो. कुदिरत सामीअ जे सलोकनि सां वॾो वडु कयो, जो हिक ॿिए पुठियां मशहूरु सिंधी विद्वाननि उन्हनि सलोकनि खे गॾु करे अभ्यासु कयो ऐं आत्मिक आनंद जो बि अनुभवु कयो.

उन दौर जे चइनि सिंधी विद्वाननि त सामीअ जे सलोकनि ते नूरु निचोयो. दीवान कौड़ोमल खिलनाणी साहिब उन्हनि सलोकनि खे मंदरनि ऐं टिकाणनि में रखियल पोथियुनि मां कढी रोशिनीअ में आंदो. हिन साहिब ॿिनि हज़ारनि खां मथे सलोक हथि कया ऐं छंडछाण करे अरबी सिंधी लिपीअ में उतारे मानॉ ऐं समुझाणीअ समेति छपाए पधिरा कया. अहिड़े नमूने दुनिया खे सामी साहिब जे सलोकनि जी पहिचान थी. दीवान ॾयाराम गिदूमल उन्हनि सलोकनि जो सारु ॾींदे सिंधी नसर (गद्य, प्रोज़) खे औज ते पहुचायो. श्री वाधूमल मूलचंद साहिब उन्हनि सलोकनि जी चूंड कंदे विषय वारि तरितीब कई ऐं सलोकनि जे टुकर टुकर जो अर्थु बि ॾिनो. प्रोफ़ेसर कल्याण आॾवाणी साहिब घणी महिनत करे सामीअ ते हिकु जुदा पुस्तकु लिखियो, जंहिंखे पड़हण सां सामीअ जे सलोकनि लाइ पड़हंदड़नि जे मन में उकीर ऐं उत्साहु पैदा थिए थो. प्रोफ़ेसर भोज़राज होतचंद नागराणी साहिब न फ़क़ति महिनत करे सामीअ जा सलोक हथि कया, बल्कि उहे २३२७ सलोक टिनि छापनि में छपाराए इहो बि ॾेखारण जी कोशशि कई त कहिड़ा सलोक सामी साहिब पंहिंजे जुवानीअ में लिखिया हुआ ऐं कहिड़ा ॿुढापे में. नागराणी साहिब सलोकनि जी मानॉ ऐं सम्झाणी ॾियण सां गॾु सलोकनि जे सही उचार बि पधिरा कया आहिनि. साणु साणु हिक विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी सिंधीअ में पहिरियों भेरो वेदांत ऐं योग जो आसानु ॿोलीअ में बयानु कयो. इहा भूमिका पड्हण सां सिंधी पाठकु भारतीय संस्कृतीअ जी ज़ाण हासुलु करे सघे थो ऐं समुझी सघे थो त भारतीय वीचार तथा वेसाहु/विश्वासु छा ते ॿधलु आहे. अहिड़े नमूने सामी साहिब जा ४००० खां मथे हूंदड़ सलोक पुस्तक जे रूप में छपाया विया आहिनि.

।। तत्त्वज्ञानु (फ़िलासॉफ़ी) ।।

सामी साहिब वेदांती कवी हुआ. वेदांत जे फ़िलासॉफ़ीअ या तत्त्वज्ञान में हुननि जी श्रद्धा हुई. वेदांत जो सारु हिन रीति आहे - जगतु मिथ्या आहे. माया जे भरम करें ‘मां’ ऐं ‘तूं’ जो फ़रकु थी पियो आहे. अग्यानु जीव खे (इन्सान खे) ग़लति रस्तो ॾेखारे थो. जंहिंजे करे हीउ खिनभंगुरु जग़तु सचो

थो लग॒ो. मनुष जे रूहानी तरक़ीअ जी राह में पंज दुश्मन आहिनि - कामु, क्रोधु, लोभु, मोहु ऐं अहंकारु. इन्हनि विकारनि खे त्याग॒े इन्सानु जड॒हि सचनि साधू-संतनि जे संग में ईंदो, तड॒हिं अविद्या/अग्यान जो पर्दो दूरि थींदो ऐं पोइ संदसि मन मां अलग॒िपणे जी भावना नष्टु थी वेंदी. पोइ इहो बि भरमु दूरि थही वेंदो त आत्मा परमात्मा खां अलग॒ि आहे. याने आत्मा-परमात्मा जी एकता जो अनुभवु थींदो. जीअं रोशिनीअ जो किर्णो रोशिनीअ में ऐं बूंद सागर में समायल हूंदी आहे, तीअं जीवु परमात्मा में विलीनु थी वेंदो आहे.

सलोकनि में वेदांत जी सम्झाणी ड॒ींदड़ सामी साहिब जनि जो चवणु आहे त जीवनु सफलु बणाइण लाइ सिर्फ़ु साधू-संतनि जो संगु करणु काफ़ी नाहे. असांखे पाण आत्मग्यानु हसिलु करे परमेश्वर जे प्राप्तीअ जा जतनु करणु घुरिजे. इन्सान खे ममता-मोह जो त्याग॒ु करणु घुरिजे. परमात्मा सां सचो प्रेमु करणु घुरिजे. भग॒वान जो दासु या शेवकु बणिजण में जीवन जी सार्थकता आहे.

सामी सिंधी भग॒िती-काव्य धारा जो ग्यान-मार्गी कवी हो, जंहिं खे वेदिक रिषियुनि जियां आत्मज्ञानु प्रापति थियलु हो. सामी साहिब ते संत कबीर ऐं गुरू नानिक साहिब जे काव्य जो बि असरु ड॒िसण में अचे थो. सामीअ जा केतिराई सलोक महाराष्ट्र जे मशहूर संत-कवी तुकाराम जे अभंग नाले छंदनि सां ऐं श्री समर्थ रामदास स्वामीअ जे 'दासबोध' ग्रंथ जे अनेक 'ओवी' छंदनि सां हिक जहिड़े भावनि ऐं वीचारनि जे लिहाज़ खां भेट करे सघिजनि था. (ड॒िसो हिन लेखक जो सिंधी पुस्तकु संत तुकाराम जी अभंगवाणी)

।। सलोकनि जा भाव, भाषा ऐं शैली ।।

सामी साहिब जे सलोकनि जो नातो वेदांत जी व्याख्या सां हूंदे बि ब॒ियनि विषयनि जो वर्णनु कयलु मिले थो. माया, अविद्या, अग्यानी, वेसाही, भावना वग़ेरह विषयनि सां गडु॒ साधू-संतनि जी महिमा, सत्संग जी महिमा, प्रेम, भग॒िती महबत, इश्क़ ऐं आशिक़ वग़ेरह विषयनि जो पुणि असराइते नमूने बयानु कयो वियो आहे. अटिकल ४०-५० विषयनि लाइ हज़ारें सलोक लिखणु सामी साहिब जी प्रतिभा जो सबूतु आहे. इहा ग॒ाल्हि अचिरज में विझण जहिड़ी ऐं साराह जोग॒ी आहे त हर हिक विषय ते वरी वरी सलोक लिखंदे बि, विषय जो दुहिराउ थींदे बि, पाठकु किथे बि ककि कोन थो थिए; हू उहो ई रसु वरी वरी पीअंदो रहे थो, आत्मिक आनंदु माणींदो रहे थो. सामी साहिब जो हिकु हिकु सलोकु ताज़गीअ ऐं नंवाणि जी अनूभूती कराईंदडु आहे. अमूर्त ऐं अध्यात्मिक (रूहानी) विषयनि ते हज़ारें सलोक लिखी सामी साहिब पाठकनि खे पाण में मोहे था छड॒िनि, आनंद सां पुरि था करे छड॒िनि, हिक ई लइ में लिंवलीनु था करे छड॒िनि. शाह लतीफ़ या ब॒ियनि कवियुनि जियां सामी साहिबजनि प्रेम जी, शृंगार-रस जी या कल्पना जे उड॒ाम जी कविता कान लिखी आहे. हुननि पंहिंजे

सलोकनि में लड़ाईअ या बेवफ़ाईअ जो बि बयानु कोन कयो आहे. सलोकनि में न नाइक-नाइकाऊं नज़रि थियूं अचनि ऐं न ई सुर्ग-नरक जो निज़ारो. सभिनी सलोकनि में घणे भाङे हिक ई ग़ाल्हि ड़िसण में थी अचे ऐं उहा आहे अंतर्मन में झाती, पंहिंजो पाण खे पसणु, अंतर्मन खे, अंदरि वेठल आत्मा खे सुञाणणु.

वापारु कंदे ऐं प्रपंचु संभालींदे बि सामी साहिब पंहिंजे अंतर्जग़त में तपस्वी हुआ. नाणो ऐं नालो कमाइण जी आस न हुअण करे संदनि कविता में अध्यात्मिक/रूहानी प्रेम ऐं तर्कशुद्धता जो संगमु थियलु मिले थो, जंहिंजे करे संदनि कविता में मधुरु, मिठो संगीतु आहे. सामी साहिब जे कविता जो प्राण-तत्त्वु आहे मधुरता ऐं प्रसाद गुण. संदनि कविता सांति वहंदड़ नदीअ वांगुरु आहे, जंहिं में हिकिड़ी ई लइ ऐं संगीतु आहे, जो पड़हंदड़नि ते दाइमा असरु कंदड़ु आहे, सादगी ऐं पुख़्तगी इन कविता जी वॾी ख़ूबी आहे. पड़्हंदड़नि जो हिर्दो सीतलु कंदड़ इहा ज़णु गुरुनि जी अलोकिक ॿाणी आहे. इहा कविता वेदनि जी वाणी आहे, जा सामीअ जहिड़े सन्त पुरुष जे वाणीअ मां निकिरी सार्थक बणिजी पवे थी.

सामी साहिब आम जनता जा कवी आहिनि. सची लोकशाहीअ जा क़ाइल कवी आहिनि. कंहिं बि क़िस्म जे भेदभाव या छुआ छूति खां परे हूंदड़ सामी साहिब जो सलोक हिक ऊच कोटीअ जे कवीअ जी काव्य-रचना आहे. प्रेममय हिर्दे मां निकितल इन्हनि सलोकनि जो रूपु बिलकुलु सादो आहे. या इएं खणी चइजे ते सादगी सामी साहिब जे सलोकनि जो सुहिणो सुभाउ आहे. सलोकनि जा शब्द सवला पर मधुरु आहिनि. संदनि ॿोली ठेठ शिकारपुरी या उत्तर सिंधु जी ॿोली आहे. इहा वधीक मिठी, सादी ऐं ख़ासि करे स्त्रियुनि खे वणंदड़ ॿोली आहे. ॾेढ-पौणा ॿ सौ साल पहिरीं वारी सिंधी बोलीअ जी सूरत सामी साहिब जे सलोकनि दुआरां अभ्यासण जोग़ी आहे. इन ॿोलीअ खे ड़िसण सां इहा बख़ूबी नज़रि अचे थो त सिंधी ॿोली संस्कृत-प्राकृत सां ई वास्तो रखंदड़ आहे ऐं उन्हनि लफ़्ज़नि सां ई सूहंदड़ आहे. संस्कृत जे तत्सम-तद्भव शब्द सामीअ जे सलोकनि में हर हंधि पखिड़ियल ड़िसण में अचनि था, देवनागरी लिपी में वधीक सूंहनि था ऐं जल्दी समुझ में अचनि था.

अहिड़ीअ तरह सामीअ जी कविता सादी, मिठी ऐं गंभीरु आहे, इहा कविता उदात्त शैलीअ जो मिसालु आहे. वेदांत जी सिख्या जो सारु सामीअ जे सलोकनि मे अची वियो आहे, उहो सारु अगर असीं समुझी सघंदासीं त ईश्वर जो राज़ु समुझी अलोकिक आनंदु माणे सघंदासीं. 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम् ।' जी अनुभूती जंहिंखे करिणी हुजे, उहो शाह ऐं सचल सां गॾु सामी बि पड़ही करे अहिड़ी अनुभूती करे सघे थो.

● लछमण परसराम हर्दवाणी

सामी वंशावली

- भाई चैनराइ दत्तारामाणी (लुंड) 'सामी' (१७४३-१८५०)
  - घनश्यामदास (१७९३-१८८३)
    - बालमुकुंद
      - बदरीदास
        - प्रीतमदास
          - राधाकृष्ण
    - जयरामदास (जन्म १८८३)
      - चेतराम (जन्म १८६०)
        - रामचंद (१८८७-१९६९)
          - रघुनाथ (जन्म १९१६)
          - ख़ज़ानचंद (जन्म १९१८)
            - किशनचंद (ज. १९४१)
              - देवकुमार
                - समीर (ज. १९८९)
              - मुकेश
                - नील (ज. २००१)
            - मुरलीधर (ज. १९४३)
            - गिरधर (ज. १९४५)
            - रमेश (ज. १९४८)
            - भरत (ज. १९५३)
            - सुरेश (ज. १९६३)
              - राजीव (ज. १९७८)
          - नंदलाल
          - दीनानाथ (जन्म १९३३)
            - देवकुमार
            - मुकेश
              - सनी
          - रूपचंद (जन्म १९३७)
            - चेतन
            - गौतम
        - चरणदास
      - मंगनमल

वेदान्त-दर्शन

प्रो. लछमण हर्दवाणी

।। वेद ।।

वेद सप्तसिंधू नदीअ जे किनारे ते रचिया विया आहिनि. भारतीय संस्कृती ऐं धर्म जा मूल आधार मञिया वेंदड़ ग्रंथ वेद आहिनि. वेद असांजी सर्वश्रेष्ठ सम्पती आहे. वेदनि जो चिंतन-मननु करण खांसवाइ भारतवासी राष्ट्र, धर्म ऐं संस्कृतीअ जो वीचारु करे ई नथा सघनि. छो त भारतीय परंपरा वैदिक परंपरा आहे.

वेद संसार जो पहिरियों साहितु आहे. वेद सरस्वतीअ जी वीणा मां ॿाहिर आयलु, पहिरियों सुरु आहे. ऋग्वेदु विश्व जो प्रचीन में प्राचीन ग्रंथु आहे. वेदनि जे पूरन ज्ञानी पुरुषनि जी इहा धारणा आहे त परमेश्वर ई हीअ मनुष-सृष्टी पैदा करण खां पहिरीं वेद निर्माण कया, तंहिंकरे उहे अनादी आहिनि. **'वेद'** लफ्ज़ु 'विद्' धातूअ मां ठहियो आहे, जंहिं सां अर्थु थिए थो 'ॾिसणु'. रिषियुनि खे वेद ॾिसण में आया याने उन्हनि खे वेदनि जो साख्यात्कारु थियो, इन करे उन्हनि खे 'वेद' चयो वञे थो. हूंअं, 'वेद' जू मुलु अर्थ आहे ज्ञानु या विद्या. वेदनि खे 'शब्दब्रह्म' पिणु चयो वेंदो आहे. हिक पीढ़हीअ खां ॿी पीढ़हीअ ताईं बर ज़बान यादि करे/कराए ३००० सालनि खां हिफ़ाज़त रखियो वियलु वेद साहितु हर लिहाज़ खां महान आहे. वेदनि में बुधायो वियो आहे त ब्रह्म (परमेश्वर) जो रूपु सत्, चित् ऐं आनंदु (सच्चिदानंद) आहे. 'वेदान्त' समुझण लाइ पहिरीं वेद समुझणु ज़रूरी आहे. छो त वेद ई वेदान्त जो बुनियादु आहिनि.

वेद कुलु चार आहिनि : १) ऋग्वेद २) यजुर्वेद ३) सामवेद ४) अथर्ववेद. इहे चार नाला अलॻि हूंदे बि मूल वेदु हिकिड़ो ई हुओ, ऐं हिकिड़ो ई रहंदो. छो त वेद-मंत्रनि जे सॼे संग्रह खे ई 'वेद' चयो वियो आहे. हिकिड़े ई माण्हूअ लाइ सॼो वेदु याद करणु ॾाढो कठिनु कमु हुअण करे अॻिते हली माण्हू वेद जो हिकिड़ो हिसो ई याद करे सघनि, लिहाज़ खां वेद रचींदड़ मुनी वेद व्यास हिक ई वेद जा चार हिसा कया. अॻिते हली उन्हनि में काफ़ी

कुझु जुड़ंदो रहियो. हक़ीक़त में वेद अनंत (बेअंत) आहिनि. उपनिषदकार चवनि था त, '**अनंता वै वेदः**' छो त वैदिक मंत्रानि जूं ऐं ज्ञान जूं बेअंत शाख़ाऊं आहिनि. उन्हनि सभिनी वैदिक मंत्रनि जो सारु (ततु) जंहिं ग्रंथ ज द्वारां असांखे हासिल थियो, उहे वेद आहिनि. इन करे वेद खे सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मख़्सूसु ग्रंथु समुझणु न घुरिजे.

इन्सान खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में जसु, कामयाबी वग़ेरह कीअं थी हासिल थिए, इन जो राज़ु या उपाउ वेद ॿुधाइनि था. वेदनि जे महान भाष्यकार (शरह लिखंदड़) सायणाचार्य जे लफ़्ज़नि में -

'**इष्टप्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलैकिकम् उपायम् यो ग्रंथो वेदयति सः वेदः।**'

अर्थात् इष्ट (चाहियल, कामना कयल) पदार्थ जी प्राप्ती थियण ऐं अनिष्ट (अमंगल, अहितकारक) ॻाल्हि नष्ट थी वञण लाइ असांखे रस्तो ॾेखारण वारा जेके उत्तम ग्रंथ आहिनि, उन्हनि खे 'वेद' चवंदा आहिनि.

मनुष जो सारो जीवनु सुखमय करण जी समरथी वेदनि में आहे. वेदनि जा मंत्र असांजे धर्मी जीवन जो मूल आधारु आहिनि. वेदनि में मनुष ऐं क़ुदिरत (नेचर) जो बिल्कुल वेझो ऐं स्नेह जो सन्ॿंधु ज़ाहिर थियलु आहे. वेदनि वारा देवता क़ुदिरत जा ई शख़्सी दिव्य रूप आहिनि. वेद एकेश्वर वादी आहिनि कीन अनेक देववादी? इन जो जवाबु ऋग्वेद में हींअं मिले थो,

'**एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मारतिश्वानम् आहुः।**' (ऋ. १.१६४.४६)

अर्थात् परमेश्वर जो जेको हिकु ई सचो रूपु आहे, उन खे ई रिषी अग्नी, यम, मातरिश्वन (वायुदेव) वग़ेरह नालनि सां सॾियो वेंदो आहे.

चइनि वेदनि जो साहितु चइनि क़िस्मनि जो आहे. या वेदनि जा चार भाङा (हिसा) आहिनि - १) संहिता २) ब्राह्मण ३) आरण्यक ४) उपनिषद. '**संहिता**' मानॉ संग्रहु या कठु. संहिताउनि में प्रार्थना जा मूल मंत्र गॾु कया विया आहिनि. **ब्राह्मण** ग्रंथनि में मूल मंत्रनि जा कथानक ऐं मंत्रनि जो इस्तैमालु करणु ॿुधायो वियो आहे. **आरण्यक** ग्रंथनि में रिषी मुनियुनि जे गंभीर चिंतन आयलु आहे, जेको उन्हनि निर्जन बननि (झंगलनि) में रही कयो हो. **उपनिषदनि** में मनुष जीवन जे आख़रीनि ऐं सभिनी में ऊंचे चिंतन जो

बयानु आहे. भारतीय तत्वज्ञान या फिलासॉफीअ जा इहे अहमु ग्रंथ आहिनि ऐं इहे उपनिषद वैदिक साहित्य जे पछाड़ीअ में अचण करे इन्हनि खे '**वेदान्त**' पिणु चवंदा आहिनि. वेदान्तु वेदनि जो सारु, ततु समुझाइण वारा सिध्दांत आहिनि. गुरुदेव रानडे वेदान्त खे भारतीय चिंतन जो औजु चयो आहे -

Vedant is the culmination of Indian thought.

'वेदान्त' जो लफ़्ज़ी अर्थु आहे वेदनि जो अंतु, वेदनि जो आख़िरीन भाङो. वेदनि जे पछाड़ीअ में उपनिषद ग्रंथ अचनि था. थोरे में चई सघिजे थो त वेदान्त लफ़्ज़ जा ब अर्थ आहिनि. १) जंहिं में सभिनी वेदनि जे सार, आख़रीन राइ (Conclusion) जे रूप में सिध्दांत बुधाया विया आहिनि. २) वेदनि जे पछाड़ीअ में आयल उपनिषदनि में समावेश थियलु तत्वज्ञानु (Philosophy).

'उपनिषद' 'ब्रह्मसूत्र' ऐं 'श्रीमद्‌भगवतगीता' इन्हनि टिन्ही ग्रंथनि खे वेदान्त जी '**प्रस्थानत्रयी**' चयो वेंदो आहे. इन्हनि टिन्ही ग्रंथनि खे या इन्हनि मां कंहिं हिक खे मुख्यु मञी हलंदड़ तत्वज्ञानियुनि जे तत्वज्ञान खे पिणु 'वेदान्त' चयो वेंदो आहे. अजु कल्ह वेदान्त लफ़्ज़ जो इस्तेमालु आम तोर इन ई अर्थ में थींदो आहे. शंकराचार्य, भास्कराचार्य, रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य वग़ेरह वेदान्त दर्शन या '**ब्रह्मसूत्र**' जा मशहूरु भाष्यकार (शरह लिखंदड़) थी गुज़िरिया आहिनि. इन्हनि जे तत्वज्ञान या फ़लसफ़े खे पिणु 'वेदान्त' चयो वञे थो आदि शंकराचार्य जे अद्वैत-मत या तत्वज्ञान खे पिणु वेदांत ई चवंदा आहिनि.

मथे जाणायल सभिनी भाष्यकारनि में काफ़ी मतभेद हूंदे बि इन गाल्हि में सभु सहमत आहिनि त वेदान्त जो मुख्यु सिध्दांतु 'ब्रह्मवाद' आहे, जंहिंजो सुहिणो इज़हारु 'ब्रह्मसूत्र' (वेदान्त-दर्शन) जे पहिरियनि ४ सूत्रनि में थियो आहे - १) '**अथातो ब्रह्मजिज्ञासा**' याने वेदान्तु समुझण लाइ ब्रह्म (परमेश्वर) निस्बति जिग्यासा हुअणु घुरिजे. २) '**जन्माद्‌यस्य यत ः।**' याने ब्रह्मु उहो आहे, जेको जगत जो मूल बुनियादु ऐं आधारु आहे. ३) '**शास्त्रयोनित्वात्**' याने ब्रह्म (परमेश्वर) खे शास्त्रनि द्‌वारा ई, वेद-उपनिषदनि

द्वारा ई जाणी सघिजे थो. ४) **'तत्तु समन्वयात्'** याने वेदान्त जी सिख्या में ई वेद-उपनिषदनि जो समन्वय या एको थिए थो, बिए कंहिं तत्वज्ञान जी सिख्या में न.

उपनिषदनि अनुसार वेदान्त-मत जी रवाजी सूरत थोरे में हिन रीति बुधाए सघिजे थी- सृष्टीअ जे आरंभ में हिकिड़ो ई लासानी आत्म-तत्वु हो. 'स एकाकी न रमेत्' याने उहो अकेलो रमी नथे सघियो. तंहिंकरे हुन हिक खां वधीक थियण जी इच्छा कई. हुन पाण ई बहुविध सृष्टीअ जो रूपु धारणु कयो ऐं उन में जीव जे रूप में प्रवेशु कयो. तंहिंकरे सुभावीक अविद्या जे करे हू पंहिंजे 'शुध्द, बुध्द, मुक्त' स्वभाव खे विसारे 'हीउ मां' 'ऐं हीउ मुंहिंजो' जे आभास करे हू पाण खे कर्ता, भोक्ता ऐं सुखी-दुखी समुझे थो. इन करे संसार जा सभु प्राणी दुखनि खां छोटिकारो पाए सदाईं जो सुखु हासिल करण लाइ फथिकी रहिया आहिनि, कोशिशूं करे रहिया आहिनि. शरीरु दुख भोगे थो तंहिंकरे शरीर ग्रहण करणु - दुख जो कारणु आहे. हीउ शरीरु (देहि) पोंयनि जन्मनि जे पाप - पुञनि करे प्राप्ति थिए थो. प्रेम, आसक्ती ऐं नफ़रत आदी भावनाउनि जे करे भला-बुरा कर्म थियनि था, कया वञनि था.

हक़ीक़त में को बि विषय प्रिय या अप्रिय कोन हूंदो आहे. सिप जे मथां चांदीअ जी चमक भासिजंदी आहे या नोड़ीअ खे नांगु समुझण जो आभासु थींदो आहे, तहिड़ीअ तरह असांजी बुध्दी ई आरोपु या आभासु कंदी आहे. इन ज़रीए इएं चई सघिजे थो त हीउ सारो संसारु विद्यामूलक मिथ्या (कूड़ो) आरोपु या आभासु ई हूंदो आहे. इन मिथ्या संसार मां याने भासमान थींदड़ सुखनि - दुखनि मां छुटण, मुक्त थियण लाइ आत्मज्ञानु ई हिकिड़ो रस्तो आहे. संसार जे सभिनी अनर्थनि लाइ पंहिंजे आत्म-स्वरूप जो अज्ञानु ई मुख्यु कारणु आहे. आत्मा जो सचो ज्ञानु (परोक्षज्ञानु) उपनिषदनि जा वाक्य ई कराए सघनि था. इहो आत्मज्ञानु, परोक्षज्ञानु गुरूअ जे मुख मां बुधण सां ई शुध्दि स्वरूप में मिले थो. श्रवण (बुधण), मनन ऐं निदिध्यासन वग़ेरह द्वारा ई आत्म-साख्यात्कार थिए थो. याने जीवु (मनुषु) पहिरीं विसारे वेठल पंहिंजे रूप खे, शुध्दि बुध्द ऐं मुक्त स्वभाव खे सुञाणे वठे थो ऐं शरीरु नासु थियण ताईं आनंदु माणे थो. शरीरु नष्टु थी वञण खां पोइ, मृत्यूअ खां पोइ हू आत्मस्वरूप में, परमेश्वर में लीनु थी वञे थो ऐं बीहर जनमु वठी हिन

संसार में नथो अचे. मनुषु हिक अहिड़ी ऊंची स्थितीअ में वञी पहुचे थो, जंहिंखे मोखु या मुक्ती चवंदा आहिनि. इन मोख लाइ ई सभिनी उपनिषदनि जी प्रवृत्ती आहे. (संदर्भ : भारतीय दर्शन संग्रह)

वेदान्त-वीचारु को हिकिड़ो नाहे. वेदान्त मत अनेक आहिनि. उन्हनि में हिक बिए जा विरोधी वीचार बि आहिनि. केतिरनि ई आचार्यनि 'प्रस्थानत्रयीअ' ते, भगवतगीता, उपनिषद ऐं ब्रह्मसूत्रनि ते पंहिंजा पंहिंजा भाष्य (शरह, समुझाणी डींदड़ ग्रंथ) लिखिया आहिनि ऐं पंहिंजे मते जा सिध्दान्त दर्जु कया आहिनि. वेदान्त जा मुख्यु आचार्य ऐं उन्हनि जे मतनि जा नाला हिन रीति आहिनि -

१) शंकराचार्य (ई.स. ७८८-८२०) केवलाद्वैतवाद
२) रामानुजाचार्य (ई.स. १०१७-११३७) विशिष्टाद्वैतवाद
३) मध्वाचार्य (ई.स. ११९७-१२७८) द्वैतवाद
४) वल्लभाचार्य (१३ सदी) द्वैताद्वैतवाद, भेदाभेदवाद

अहिड़ा फ़रक़ हूंदे बि सभिनी मतनि में हिक राइ मिले थी त १) जगत जो आधारु चेतन ब्रह्मु ई आहे. जड़ता जगत जो आधारु नाहे. २) मोखु परम पुरुषार्थु आहे. उहो मिलण खां पोइ आत्म-स्वरूप हूंदड़ आनंद जी प्रापती थिए थी. ३) मोखु नितु, सदाईं आहे. ४) इहे सिध्दान्त वेदनि/उपनिषदनि द्वारां ई समुझ में अचनि था. ५) वेद 'अपैरुषेय' ऐं स्वतः प्रमाण आहिनि. अपैरुषेय मानॉ ईश्वरी आहिनि.

हिन्दीअ में शंकराचार्य जे अद्वैत वेदान्त ऐं चइनि वैष्णव वेदांतियुनि (रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क ऐं मध्व) जो प्रभावु डिसण में अचे थो. हिंदीअ जे निर्गुण उपासक संतनि ते अद्वैत वेदान्त जो ई वधीक असरु थियो आहे. स्वामी रामानंद पिणु वेदान्ती हो. 'तत्वमसि', 'सोहमस्मि' 'अहं ब्रह्मस्मि' - वेदान्त जा इहे वाक्य/महावाक्य हिंदीअ जा संत जाणंदा हुआ. 'नेति नेति' जे सिध्दांत जी पिणु खेनि जाण हुई. वेदान्त मत जे लिहाज़ खां हिंदी संतनि सभिनी प्रकारनि जे वैदान्तनि जो मेलापु कयो आहे. इहो मेलापु ज्ञान-भगिती, मायावाद-लीलावाद, सगुण-निर्गुण जे रूप में आहे. सभिनी वेदान्तनि

परिभाषिक शब्दावली (Terminology)

वेद, वेदान्त या उपनिषद वग़ेरह ग्रंथनि में अनेक शब्द (लफ़्ज़) अचनि था, जिनि खे समुझणु बेहदि ज़रूरी आहे. अध्यात्म या रूहानी जगत खे समुझी सघण लाइ इन्हनि शब्दनि जे अर्थ जी जाण हूंदी त भावनाऊं ऐं वीचार समुझी सघण में सहंजाई थी सघंदी. सामी साहिब जे श्लोकनि में त अहिड़ा सवें शब्द वर वर करे अचनि था, जिन खे समुझण सां सामी समुझी सघिजे थो. ब्रह्म, जीव, जगतु, आत्मा-परमात्मा, माया, अविद्‌या आदी अहिड़ा ई शब्द आहिनि, जिनि जी व्याख्या ऐं समुझणी अगिते डिनि वञे थी.

।। ब्रह्म ।।

(परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर)

'बृह' धातूअ जो अर्थु आहे वधणु, वडो थियणु. इन धातूअ मां लफ़्ज़ु ठहियो आहे 'ब्रह्म'. जेको सदाईं वधंदो रहे थो, जंहिंखे का मर्यादा (सीमा) नाहे, जेको सर्वव्यापी ऐं अबिनासी आहे, उन मूल चेतना खे '**ब्रह्म**' नालो डिनो वियो आहे. जगत जो आदी कारणु ऐं आधारु इहो चेतन तत्वु आहे. ब्रह्मु सचु, ज्ञानु ऐं बेअंतु आहे. जंहिंजो रूपु कडहिं बि बदिलिजे नथो, उहो 'सचु' आहे. 'ज्ञानु' लफ़्ज़ु ब़ूझ ऐं चेतन जे अर्थ में त 'बेअंत' लफ़्ज़ु व्यापक जे अर्थ में आयलु आहे. ब्रह्म जी संकल्पना (Concept) जो मुख्यु विकासु उपनिषदनि में थियो आहे. सभई अद्‌वैतवादी वीचारधाराऊं ब्रह्मवादी आहिनि. संतनि जो ब्रह्मवादु, उपनिषदनि जी ई तत्व-दृष्टी आहे. संतनि जे साहित्य में ब्रह्म जो वीचारु सगुण - निर्गुण जे अर्थ में थियलु डिसण में अचे थो.

वेदान्त-मत अनुसार ब्रह्मु सर्वश्रेष्ठ, हिकिड़ो ई लासानी 'सत्' ततु आहे. ब्रह्म, माया ऐं ईश्वर-उन्हनि टिन्ही खे मिलाए 'परमेश्वर' चयो वञे थो, जंहिंखे '**सच्चिदानंद**' पिणु चयो वियो आहे. महानुभाव मत मूजिबु ईश्वर जो रूपु बृहत्तम (सभिनी में वडो) आहे. मगर आम गाल्हइण में 'ब्रह्म' ऐं 'ईश्वर' बिन्ही खे हिकु ई लेखियो वियो आहे. बिन्ही में हिकजहिड़ाई डिसण में ईंदे बि सूख्यम अर्थ वारो फ़रकु पिणु आहे. ब्रह्म जो रूपु नितु निर्गुण

हुअण करे उहो कडहिं बि ज़ाहिर कोन थो थिए, ऐं न ई उहो मापे सघिजे थो. इन करे ई ब्रह्म खे 'अगाध' चयो वियो आहे. साधक खे ब्रह्मु पंहिंजे आनंदु माणणु डींदो आहे, मगर साधक खे पंहिंजी प्राप्तीअ जा साधन कोन डींदो. आहे. 'ज्ञानी' मनुष ब्रह्म जे स्वरूप में पवित्र बणिजी वेंदा आहिनि. 'ईश्वर' जे स्वरूप में भक्त पवित्र थींदा आहिनि. प्रेम जे करे भक्त खे ईश्वर-स्वरूप जी साख्यात प्राप्ती थिए थी त ज्ञानी मनुष खे ज्ञान जे द्वारां ब्रह्म-स्वरूप जी प्राप्ती थिए थी. विश्व जे चेतन - स्वरूप मूल आधार- तत्त्व खे 'ब्रह्म' नालो उपनिषदनि ई डिनो आहे. ब्रह्मु ई हिकिड़ो आख़रीन सचु आहे, विकार रहित तत्त्वु ऐं अमृत आहे.

अद्वैतवाद जो मुख्यु सिध्दांतु हिन रीति आहे - नामरूपात्मक हीअ सृष्टी या हीउ जगतु ब्रह्म जे मथां मड़हियो वियो आहे, आरोपु कयो वियो आहे. ब्रह्म ऐं जगत जो सन्बंधु नोड़ीअ ऐं नांग जहिड़ो आहे. जीअं नोड़ीअ खे डिसी नांग जो आभासु थींदो आहे, तीअं हीउ जगतु ब्रह्म जे मथां कयलु आरोपु, आभासु आहे; इन करे इहो माया आहे. ऐ इन करे ई डिसण में ईंदे बि, प्रतीत थींदे बि जगतु मिथ्या आहे, खोटो आहे. मगर ब्रह्मु सचु आहे -

'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ।'

ब्रह्म जा अनेक नाला बुधाया विया आहिनि. जीअं त अलखु (अलक्ष्य), अगोचर, अनंत, अपार, ज्योतिरूप, सर्वात्मा, जगदीश्वर, ॐ ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, अंतर्यामी, सच्चिदानंद, बेअंत, अनंत, साखी, चैतन्य, शून्य, सिरजणहारु, भगवानु, प्रभू वग़ेरह. तडहिं बि ब्रह्मु 'अनाम' आहे. छो त ब्रह्मु बयानु करण खां परे आहे. याने ब्रह्मु नाम, रूप ऐं गुणनि खां परे हुअण करे संदसि वर्णनु नथो करे सघिजे . श्रुती ग्रंथ ब्रह्म लाइ इन्कारी, नकार्थी लफ़्ज़ु वापराए चवनि था -

'नेति नेति' -न इति न इति (ब्रह्मु इएं नाहे, इएं नाहे.)

वेद, उपनिषद, शास्त्र, दर्शनशास्त्र ब्रह्म खे जाणण जी ख़ूब कोशिश करण खां पोइ सभई चुप करे वेही रहिया ! अहिड़े नमूने ब्रह्म जो हाकारार्थी वर्णनु पिणु कयो विया आहे- **'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'** याने जेको आहे सो सभु ब्रह्मु आहे. 'तत्त्वमसि' महावाक्य द्वारां जीव ऐं ब्रह्म जी एकता बयानु कई वेई आहे. (वेदान्त मत)

ब्रह्मु (परमात्मा) जाणरूपु आहे या सिर्फ़ु ज्ञानरूप आहे. ब्रह्म मानॉ

।। जगत ।।
(ब्रह्मांड, विश्व, संसार, सृष्टी)

जगतु नाम ऐं रूप जो असीम विस्तारु आहे. जगतु मानॉ विश्वु, ब्रह्मांडु या संसारु, सृष्टी. चल अचल सभु पदार्थ याने हीउ जगु. 'ब्रह्मांडु' लफ़्ज़ु सृष्टीअ जे विस्तार जे अर्थ में अचे थो. ब्रह्मांडु मानॉ चराचर सारो जगतु, प्रकृतीअ जो पसारो.

हीउ ब्रह्मांडु या जगतु कंहिं निर्माणु कयो ? कीअं निमाणु थियो? मनुष जी इन जिग्यासा जो जवाबु मनुष ई पंहिंजी पंहिंजी बुध्दीअ अनुसार डियण जी कोशिश करे थो. 'ऋग्वेद' में चयो वियो आहे त सृष्टी-निर्माता (ब्रह्म, परमेश्वर) जे तप जी समरथीअ सां पहिरीं मंगलु ऐं सचु पैदा थिया, पोइ राति निर्माणु थी ऐं पोइ समुंडु पैदा थियो . उन खां पोइ वक़्तु डेखारींदड़ साल/वरिह्यनि जा पैमाना पैदा थिया ऐं पोइ साहवारा (जीव) पैदा करे परमेश्वर राति-डींहं (अठ पहर) ठाहिया. 'मनुस्मृती'अ में बुधायो वियो आहे त पहिरीं हीउ जगतु तेजोमय हो. पोइ स्वयंभू भगवान जे मन में आयो त प्रजा पैदा कई वञे. सो हुन पहिरीं जलु (पाणी) पैदा करे पंहिंजो बिजु उन में विधो उन बिज जो सिज जियां चमकंदड़ु सोन जो अंडो (बेदो) थी पियो. उन मां सभिनी लोकनि जो पितामह ब्रह्मा निर्माणु थियो. हुन अंडे जा ब अध करे छडिया, जंहिं मां सुर्गु ऐं पृथ्वी तयारु थी पेई. पोइ मन, अहंकार, आत्मा, त्रिगुणात्मक सभु पदार्थ वग़ेरह वारी सृष्टी निर्माणु कई.

जगत,ब्रह्मांड जे उत्पतीअ (पैदाइश) जो वर्णनु त पुराण ग्रंथनि जो मुख्यु विषय आहे. हीउ विश्वु सुर्ग, धरती ऐं पाताल जो (त्रिलोक जो) आहे. या हीउ जगतु बिनि हिसनि, भाङनि में ठहियलु आहे जंहिंजे हर हिक हिसे में सत सुर्ग ऐं सत पाताल अची वञनि था. फिलासॉफीअ जा सभु दर्शन ग्रंथ पंहिंजो वीचारु बुधाइनि था. न्याय ऐं वैशोषिक दर्शन में चयो वियो आहे त ईश्वर हीउ जगतु परमाणूअ मां निर्माणु कयो. सांख्य दर्शन अनुसार प्रकृती ऐं पुरुष जे संजोग सां जगत-सृष्टी थी आहे. योग दर्शनु पिणु इहा गाल्हि मञे थो पर इहो बि चवे थो त इहो संजोगु ईश्वर जी इच्छा सां ई थिए थो. पूर्व मीमांसा जगत/ब्रह्मांड खे अनादी-अनंतु मञे थी. वेदान्त दर्शनु जगत खे ब्रह्म-स्वरूप जे मथां थियलु आभासु थो मञे; ईश्वर खे जगत जो निमित्त कारणु ऐं उपादान कारणु थो लेखे. वेदान्त जीव खे परब्रह्मु ई चयो आहे. 'जीवो ब्रह्मैव नापरः।' तंहिंकरे संसार जे सभिनी शयुनि जो वर्णनु करण वक़ति **'आब्रह्मस्तंब'** ताईं चवण जो रवाजु शुरू थियो. याने ब्रह्देव खां वठी 'स्तंब' नाले ख़सीस

कीड़े ताईं सभई जीव ई आहिनि. इन ई अर्थ में 'जीव जंतू' लफ़्ज़ु इस्तेमालु थिए थो. जीव खे 'उपाधी' अ जे करे ई उत्तमु या ओछो रूपु प्रापति थिए थो. परब्रह्मु सो उपाधीअ खां रहित आहे. **वेदान्त** मत अनुसार १) बुध्दी २) बुध्दीअ जो आधारु चेतन-आत्मा ३) उन आत्मा जो बुध्दीअ में अक्सु (आभासु)-इन्हनि टिन्ही जो नालो '**जीव**' आहे. आत्म-दृष्टीअ सां जीव ऐं ब्रह्मु हिकु ई आहिनि.

_______________बुध्दीअ जे उपाधीअ करे बिन्ही मां फ़रकु थिए थो. जीवु चेतनात्मकु हुअण करे उहो परमेश्वर जी उत्तम विभूती आहे (-भगवद्गीता). गीता जीव खे 'क्षेत्रज्ञ' थी चवे. कयल कर्म नि जो फलु भोंगींदड़ु शरीरु 'क्षेत्र' आहे ऐं क्षेत्र जो ज्ञाता 'क्षेत्रज्ञ' आहे. इहो आजन्मा (जन्म रहित), नितु छहनि विकारनि खां रहित आहे.

अविद्या जे उपाधीअ करे जीवु कामनाजन्य कर्मनि में फासी सुख-दुख, मान -अपमान, जनम - मरण जे द्वंद्व में अड़िजी पवे थो. जीवु पंहिंजे मूल स्वरूप खे विसारे पंहिंजे स्थूल शरीर खे ई 'मां' याने आत्मा समुझण लगे थो. अविद्या या अज्ञानु कारण देह आहे. उन मां ईश्वर जो अन्शु हूंदड़ु जीवु जुदा जुदा उपाधियुनि जे करे बेअंत रूप धारणु करे थो.

जीव खे 'पुरुष' पिणु चयो वियो आहे. 'पुरुष' चवण जी इहा कल्पना सांख्य दर्शन ऐं वेदान्त जे मतनि जे मेलाप मां ठही आहे. वेदांतु चवे थो त जीवु परमात्मा - पुरुष

।। माया ।।

'माया' शब्द में ब अखर आहिनि. 'मां' मानॉ मेचणु, मापणु, गणणु या मांइजणु, समाइजणु. जंहिं में सारो विश्वु मांइजी, समाइजी वञे थो, उहा माया आहे. 'मा' जो बियो अर्थु आहे 'न' , 'नाहे'. 'या' जी मानॉ आहे 'जेका'. याने जेका नाहे, जंहिंजो सचो वजूदु नाहे, उहा माया आहे. जगत जे पैदाइश जो वीचारु करण वक़्त माया मञिणी पवंदी आहे. अद्वैत जो बोधु कराइण जे लिहाज़ खां माया जो स्वीकारु कयो वियो आहे. सांख्य दर्शन वारनि जे 'प्रकृती-पुरुष' जियां वेदांतियुनि 'ब्रह्म-माया' जोड़े जी कल्पना कई आहे. वेदान्त मतो अद्वैतवादी आहे. तंहिंकरे ब्रह्म ऐं माया जो जोड़ो बिनि आज़ाद तत्त्वनि जो नाहे. इन जोड़े मां सिर्फु ब्रह्मु ई सत्, सचो आहे. माया आज़ादु तत्त्वु नाहे. इहा ब्रह्म में पैदा थियल भासमान थींदड़ शइ आहे.

ब्रह्म जो अद्वैत क़ाइम रखंदे सृष्टीअ जो निर्माणु ऐं संहारु (संघारु, विनाशु) समुझण लाइ वेदान्ती 'माया' नाले पदार्थ जो इस्तैमालु कनि था. अद्वैत-मत अनुसार हिन सृष्टीअ में अंदरि हिकिड़ो ई आख़रीन तत्त्वु आहे, जो नितु, निर्गुणु ऐं चेतन-स्वरूप आहे. इन खे ई '**परब्रह्मु**' चवंदा आहिनि. सिर्फ़ु इहो ई सत् आहे. श्रुती ग्रंथ पिणु ख़ातिरीअ सां इन हिक तत्त्व लाइ चवनि था - '**एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म**'. हाणे सुवालु थो पैदा थिए त इन हिक मां इन हिक मां ई नाना रूपनि वारी जड़ तथा चेतन स्वरूप जी सृष्टी कीअं निर्माणु थी? जवाब में इन लाइ अद्वैतवादियुनि माया जी कल्पना अगियां रखी. चयाऊं त हिकड़ो ब्रह्मु अकेलो रमिजी न पियो सघे- '**स एकाकी न रमेत**', तंहिंकरे ब्रह्मत्व में '**बहुस्याम प्रजायेय**', हिक खां वधीक बणिजण जी स्फूर्ती पैदा थी, उहा ई मूल माया आहे. 'मां ब्रह्मु आहियां' जी स्फूर्ती ई मूल माया आहे. इन ई सृष्टीअ जे निर्माण जो खेलु आरंभु कयो. इन मूल माया खे ई सांख्य दर्शन वारनि '**प्रकृती**' चयो आहे. महा माया, चिद्शक्ती, शबल ब्रह्मु, प्रकृती वग़ेरह इन जा ई बिया नाला आहिनि.

शंकराचार्य जहिड़नि वेदांतियुनि अलग अलग नामरूपनि ऐं कर्मनि खे 'मिथ्या' (याने खिनभंगुर, कूड़ो न) चई करे अद्वैतु स्थापित करण लाइ आभास-रूप माया जी कल्पना रिथी. जगतु ब्रह्म जे मथां वारो '**विवर्तु**' याने आभासु या भरमु आहे. ऐं इन आभास (भ्रम) खे दूरि करण सां '**ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या**' जो पंहिंजो पाण अनुभवु थिए थो. इन खे 'अध्यासवाद' चवंदा आहिनि. जीअं नोड़ीअ मथां नांग जो आरोपु कजे, तीअं ब्रह्म मथां जगत जो आरोपु थींदो रहे थो. तंहिंकरे शांकर मत मूजिबु वहिंवारी जगत में जेको संसारु सचो थो लगे, उहो परमार्थ जे लिहाज़ खां सचो नाहे. उहो जगतु असत्, अचित् ऐं सुख-दुखमय आहे.

परमेश्वर जे अंदरि बिराजमान इच्छा - शक्ती ई माया आहे. शैवदर्शन मूजिबु, 'माया शिव जी शक्ती आहे ऐं इन जे करे ई हीउ विश्वु भासिजे थो'. सिध्दांतशैव-मत अनुसार माया विश्व जो उपादान कारणु आहे, तंहिंकरे माया ऐं संदसि कार्यु (जड़ जगतु) बई सचा आहिनि. अकेलो महेश्वरु (चिद्वस्तु) पिणु माया खांसवाइ विश्व-निर्माण जो खेलु रचाए नथो सघे. शिव ऐं माया जो मेलापु विश्व जो मूल कारणु आहे. ईश्वर जी शक्ती या इच्छा लीला सां जगत जो निर्माणु थी करे. 'वेदान्तसूर्य' ग्रंथ में श्रीधर पंडित, संत ज्ञानेश्वर जे वीचार

अनुसार, शिव ऐं शक्ती जोड़े जो (पती-पत्नीअ जो) रूपकु ठाहे संदसि प्रेम-क्रीड़ा जे रूप में जग॒त जे उत्पतीअ जो बयानु कयो आहे. ब्रह्म ऐं माया जो जोड़ो अर्धनारीनटेश्वर जहिड़ो एकात्म आहे, जीअं सिजु ऐं संदसि रोशनी गडि॒यल हूंदा आहिनि, पाणी ऐं लहरूं हिक बि॒ए में समायल आहिनि. ब्रह्म-माया जो जोड़ो अनादी आहे ऐं हिरूपु आहे. ब्रह्म जो हुअणु ऐं माया जो करणु हिक बि॒ए खां जुदा करे ई नथा सघिजनि. अहिड़ीअ तरह माया जो हिकु अर्थु थियो 'भग॒वान' जी शक्ती, चिद् शक्ती. भगि॒ती-मार्ग वारनि माया खे '**भग॒वान जी लीला**' इन ई अर्थ सां चयो आहे.

केवल अद्वैत खे सिध्द करण लाइ शंकराचार्य आदी ज्ञानवाननि माया तत्त्व जो आधारु वरितो आहे. ब्रह्म खां सवाइ बि॒यो कुझु बि सचु नाहे, बि॒ए कंहिंजो बि वजूदु नाहे, तंहिंकरे नज़रि ईंदडु॒ जड़ ऐं परिवर्तनशील जग॒तु नोड़ीअ जे मथां कयल नांग जे आरोप वांगुरु आहे. इन में भावरूप सचाई नाहे. इहा गा॒ल्हि समुझाइण लाइ शांकर-मत वारनि नोड़ी-नांग ,सिप-चांदी ऐं आकास-बादल जहिड़नि दृष्टांतनि जो आधारु वरितो आहे. बादलनि जे अचण ऐं वञण सां आकाश जे स्वरूप ते उन्हनि जो कोई असरु नथो थिए. अहिड़ीअ तरह मायारूपी स्त्री हिन ब्रह्मांड में सभिनी क़िस्मनि जा आडंबर रचाइण खां पोइ बि उहो निर्गुण, निर्विकार ब्रह्मु (परमेश्वर) जीअं जो तीअं ई रहे थो.

माया आभासु, भरमु आहे. हक़ीक़त में माया आहे ई कान. तडि॒हिं बि उहा मृगजल (रुञ) जियां लगे॒ थी, भासिजे थी, नोड़ीअ में नांग जियां महसूसु थिए थी. मगर माया खे ब्रह्मरूप चैतन्य जो आधारु हासिल थियलु हूंदो आहे. उन जे ज़ोर ते ई माया न हूंदडु॒ द्वैतु जग॒त जे रूप में डे॒खारे थी. ब्रह्मु पाण शुध्द आहे मगर हुन में इच्छा (माया, कल्पना) निर्माणु थिए थी ऐं पोइ उहा ब्रह्मदेव (ब्रह्मा) खां वठी गाह,कख पननि ताईं सभु रचे थी. परमार्थ, अध्यात्म जे लिहाज़ खां इहो सभु मिथ्या ई हूंदो आहे.

हिन सृष्टीअ में डि॒सणमें ईंदडु॒ सभु कुझु माया जो संसारु आहे. माया सां व्यापियल ब्रह्म खे '**सगुण ब्रह्म**' चवंदा आहिनि, उहो ई सर्वेश्वरु आहे. सांख्य-मत वारनि जी 'प्रकृती' ऐं वेदांत-मत वारनि जी 'माया' सारे ब्रह्मांड (सृष्टी, जग॒त) जी जननी आहे. माया खे को रंगु,रूपु, स्थिती या शाख़्सियत कान हूंदी आहे. उहा अशरीर आहे. वेदांत माया के 'अव्यक्त' चयो आहे. माया वर्णुनु करे सघण खां परे ऐं रुञ (मृगजल) जियां मिथ्या

आहे. 'दासबोध' ग्रंथ में समर्थ रामदास ब्रह्म ऐं माया जो फ़रकु बुधाईंदे चवे थो, 'ब्रह्मु निर्गुण निराकार आहे त माया सगुण साकार. ब्रह्मु निर्मल ऐं निश्चल आहे त माया चंचल. ब्रह्मु डिसण में कोन थो अचे त माया डिसण में अचे ती (संसार जे पदार्थनि जे रूप में). ब्रह्मु अरूपु आहे मगर माया अनेक रूप धारणु कंदी आहे. ब्रह्मु भासिजंदो नाहे पर माया भासमान आहे.'

संत ज्ञानेश्वर हिक रूपक द्वारां माया जो वर्णनु कयो आहे. 'ज्ञानेश्वरी' ग्रंथ में चवे थो त, आम अज्ञानी जीव (मनुष) मायारूपी नदीअ में गोता खाईंदा रहंदा आहिनि. ज्ञानी, योगी ऐं कर्ममार्गी माण्हुनि खे पिणु माया-नदीअ जे भंवर (कुन) में फिरिणो पवे थो. पर पोइ भगवानु ई पंहिंजनि भक्तनि खे बचाए थो. सभिनी जीवनि लाइ माया-नदी तरी पारि पहुचणु डाढो डुखियो आहे. विवेकवान, वैरागी ऐं सत्गुरूअ जी कृपा हासिल कंदड़ ज्ञानी भक्त माया-नदीतरी वञनि था. तंहिंकरे मायारूपी नदीअ में गोता खाइण खां बहतर आहे हिन भरि रही भगिती करणु. संत एकनाथ पिणु कर्मरूपी नदीअ जो वर्णनु कयो आहे. कर्मरूपी नदी तरी पारि पहुचण लाइ मंत्र, तंत्र, सुर्ग-नरक जी लालच न कंदे, उन्हनि में न फासी परमेश्वर जी अनन्य भगिती करण सां कर्म-नदी सुकी वञे थी ऐं जीवु मोखु पाए थो.

थोरे में चई सघिजे थो त माया विश्वात्मक आहे, जा सभिनी इन्साननि खे प्रभावित थी करे. शंकराचार्य इन खे वहिंवारी चयो आहे. इहा डिसण में ईंदे बि मिथ्या आहे. जेको दृश्य आहे ऐं मिथ्या बि आहे, उहा माया आहे. माया खे भगवान जी शक्ती मञियो वियो. कंहिं माया खे स्त्री चयो, त कंहिं ठगिणी. किनि चयो त माया सत् ऐं असत् खां परे आहे, उहा विलक्षण आहे. इन करे माया खे वर्णनु करे सघण खां परे चयो वियो. इन अर्थ सां जगतु माया आहे. भक्त-कवियुनि चयो आहे त भगिती करण सां जडहिं साक्षात्कारु थींदो आहे, तडहिं माया पंहिंजो पाण दूर थी वेंदी आहे. तुलसीदास जहिड़नि सगुण-उपासक कवियुनि जे वीचार मूजिबु साक्षात्कारु थियण खां पोइ बि माया जो वजूदु हूंदो आहे. माया ऐं भगिती बई भगवान जूं पत्नियूं आहिनि. भगितीअ जे द्वारां भक्तु भगवान सां मिले थो. उन मिलण सां माया जो वजूदु जीअं जो तीअं रहे थो. मगर कबीर जहिड़नि निर्गुण उपासक कवियुनि इहो मञियो आहे त साक्षात्कार खां पोइ जगतु जली, सड़ी वेंदो आहे, तडहिं माया रहंदी ई कान्हे. पश्चिमी धर्म-दर्शन में जंहिंखे EVIL चवंदा आहिनि, उन खे हिंदी संतनि ऐं भक्तनि 'माया' चयो आहे. अहिड़ीअ तरह अद्वैतवादियुनि लाइ मायावादु तत्त्व-

|| आत्मा ||

(जीवात्मा, आत्मरूप, आत्माराम, अंतरात्मा)

हिंदी-सिंधी भाषा में आम तोर स्त्रीलिंग रूप में इस्तेमालु थींदड़ु 'आत्मा' लफ़्ज़ु अध्यात्म में पुल्लिंग रूप में वापरायो वञे थो. जीव, शरीर, परमात्मा, अंतरात्मा, परम शक्ती, मन, सुभाव वग़ेरह अर्थनि में इस्तेमालु थींदड़ 'आत्मा' शब्द जो अर्थु आहे जेको सदाईं गतिमानु आहे, चेतनापूर्ण आहे ऐं सारे जगत में व्यापियलु आहे. मनुष जे मन में हूंदड़ शाश्वत शक्ती या सार्वभौम चेतन तत्वु ई आत्मा आहे.

हर हिक शइ जा ब रूप हूंदा आहिनि. हिकु बाहिरियों रूपु ऐं बियो अंदिरियों रूपु. बाहिरिएं रूप खे **'देहि'** (शरीर) चवंदा आहिनि त अंदिरिएं रूप **'देही'** चवंदा आहिनि. इन 'देहि' खे 'आत्मा' नालो डिनो वियो आहे. देहि डिसण मं ईंदी आहे मगर आत्मा अदृश्य आहे. तंहिंकरे आत्मा बाबत तर्क वितर्क कया वेंदा आहिनि. **'आत्मा'** शब्द जो इस्तेमालु सभ खां पहिरीं वेदनि में थियो. आत्मा मनुष जे अंदरि हूंदड़ चेतना जो प्रतीक आहे, जेको वेदांतनि में सर्वज्ञ (जाणी जाणणहार), चिद्रूप, स्वयंज्योती, अकर्ता, अभोक्ता जे रूप में बयानु कयलु आहे. मूल रूप में आत्मा निर्गुण निःसंग ऐं निर्विकल्प आहे तथा शरीर वारो हूंदे बि सगुण रूप में ई संदसि जीव-व्याख्या मुमकिन थी सघे थी. दर्शन शास्त्रियुनि आत्मा जी तलाश करण जो जतनु कयो आहे.

मनुष जी स्थूल देहि जड़ (पंच भौतिक) हुअण करे विनाशी आहे. तंहिंकरे चेतन तत्त्व खे अलग ऐं अबिनासी मञिणो पवंदो. इहो चेतनु ई 'आत्मा' आहे. सुपनो डिसण जे हालति में 'मां' जो शरीर खां निरालो हूंदड़ु वजूदु चेतन-अन्श जो ई सबूत आहे. गहिरी निंड में जडहिं स्थूल इन्द्रियुनि जा कम बंद हूंदा आहिनि, तडहिं चेतन रूप में आत्मा उन शरीर में निष्क्रिय हालत में ई सहीं पर हूंदो (हूंदी) ई आहे. निंड मां सुजागु थियण ते असांखे 'मां जागियो आहियां' जी जाण पवे थी. इहा जाण, बूझ, ज्ञानु या अहसासु ई **'आत्मा'** आहे. न्यायवैशेषिक दर्शन चवनि था त **'ज्ञानु आत्मा जो गुणु आहे'.** वेदान्त-दर्शन जो बि इहो सिध्दान्तु आहे त **'इहो ज्ञानु ई आत्मा आहे.'**

परब्रह्म (परमेश्वर) खे विश्वात्मा, परमात्मा पिणु चयो वियो आहे. इन परमात्मा जो चिद् अन्शु हर नंढे वडे शरीर में रहे थो. इन खे 'प्रत्यक् चैतन्य' चवंदा आहिनि. इहो ई 'आत्मा' आहे. आत्मा ई हर शरीर वारे चेतन जीव, प्राण, इन्द्रियुनि, मन बुध्दीअ

वग़ेरह खे चेतना डींदड़ु आहे. जुदा जुदा शरीरनि वारनि जीवनि सां करण, भोगण जे भाव सां जुड़ियलु हुअण करे इन खे **'जीवात्मा'** पिणु चयो वेंदो आहे. सभिनी जीव-आत्माउनि में चेतना-तत्त्वु हिकिड़ो ई आहे. याने जीव अनेक पर उन्हनि में हूंदड़ु चेतन-तत्त्वु हिकिड़ो मञिणु घुरिजे.

आत्मा **'देही'** आहे, सरीर जे अंदिरिएं रूप वारी आहे ऐं देहि खां परे वारी पिणु आहे. देहि साकारु ऐं विकारनि वारी हूंदी आहे त आत्मा निर्विकार हूंदी आहे. स्थूल शरीर खे आत्मा मञणु ठीकु नाहे. जंहिं स्थूल सरीर द्वारां आत्मा सुखु-दुखु भोगे थो (भोगे थी), उन वासना-कामनामय जीव खे आत्मा नथो चई सघिजे. ज्ञानु आत्मा जो गुणु नाहे, बल्कि **'शुध्द ज्ञान'** ई आत्मा आहे. शुध्द ज्ञान रूपु आत्मा **'सच्चिदानंद'** नाले सां सुञातो वञे थो. इहो आत्मा सत् रूपु ऐं आनंद रूपु आहे. आत्मा सत्, चित्, आनंद-इन्हनि टिनि लफ़्ज़नि ज़रीए सुञातो वञे थो, इहे टेई लफ़्ज़ गडु आहिनि. जेको सत् आहे, उहो ई चित् आहे ऐं उहो आनंदु आहे. आत्मा या आत्मस्वरूपु नितु, शाश्वत ऐं आनंदरूपु आहे.

आत्मा जो विशेष ज्ञानु याने आत्मा कूटस्थ, नित्य ऐं मुक्त आहे. 'कूटस्थ' मानॉ जगत जो अलिप्तु साखी (साक्षी). 'नित्य' मानॉ अबिनासी ऐं 'मुक्त' मानॉ प्रपंच जो बन्धनु न हूंदड़ु मगर जीव (मनुष) खे आत्मा जो इहो विषेश ज्ञानु कोन हूंदो आहे. उपनिषदनि ई चयो त 'तत् त्वम् असि' याने 'उहो (ब्रह्मु) तूं आही.' उन खां पोइ आत्मा

।। आत्मज्ञान ।।

(आत्म-बोध, आत्म-दर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म - अनुभव)

अध्यात्म, रूहानियत जो इहो हिकु श्रेष्ठ अनुभवु आहे. इंद्रियुनि खां परे हूंदड़ु साख्यात अनुभवु मानॉ आत्मा जो ग्यानु. वडियूं वडियूं सिध्दियूं हासिल थियण खां पोइ बि इएं नथो चई सघिजे त साधक जी साधना पूर्णता ते पहुची वेई आहे. हक़ीक़त में आत्मा जे वजूद निस्बति साख्यात ज्ञानु थियण याने आत्म-साख्यात्कारु थियण खां पोइ ई, साधना पूरी थींदी आहे. इन वक़ति साधक खे **'अहं ब्रह्मास्मि'** (मां ब्रह्मु आहियां) जी अनुभूती थिए थी. इन साख्यात्कार में साधकु परमेश्वर सां हिकरूपु बणिजी वञे थो. आत्मा-साक्षात्कार में हिक अहिड़ी अवस्था जो अनुभवु थिए थो, जेका सुजागी, सुपने ऐं निंड वारियुनि अवस्थाउनि खां निराली हूंदी आहे. इन अवस्था खे **'तुरीय'** अवस्था चवंदा आहिनि. इन में पंहिंजी देहि

जो विस्मरणु थी वेंदो आहे. इहा समाधीअ जी अवस्था आहे, जंहिं में हिक क़िस्म जो अजीबु आनंदु अनुभवु थींदो आहे, जंहिंखे '**आत्मानंद**' या आत्मसुखु चवंदा आहिनि. छाकाणि त इन आनंद या सुख में अतृप्तीअ या मृत्यूअ जो डपु ज़रो बि कोन हूंदो आहे, ईश्वर सां मिली जीवु पूरन तृप्त थी वेंदो आहे.

हिकु आत्मा ई हर हंधि भरियलु, फहिलियलु आहे, बियो कुझु बि नाहे - इहो अध्यात्म - विचार जो आख़रीन सिध्दांतु चयो वियो आहे. इन सिध्दांत जो राजु जाणणु आत्मज्ञानु आहे. इहो ई ब्रह्मज्ञानपुणो आहे ऐं इन सिध्दांत जी अनुभूती थियणु ई '**अपरोक्ष ज्ञान**' या 'विज्ञान' आहे. इहो आत्मज्ञानु श्रुती ग्रंथनि जा वचन बुधण सां, चिंतनु-मननु करण सां या सत्गुरूअ जी कृपा सां तथा परमेश्वर जी महिर सां प्रापति थिए थो. इन करे संतनि जो चवणु आहे त जीव (मनुष) खे पंहिंजे अभिमान खे छडे आत्म-तत्त्व जे शरणि में वञणु घुरिजे. आत्मा निस्बति इहो ज्ञानु, प्रकृती ऐं पुरुष जो विवेकु, जंहिं चङीअ रीति समुझो आहे, उहो सचो **आत्मज्ञानी** आहे. बिया अधूरा ज्ञानी आहिनि. संत एकनाथु चवे थो त ब्रह्मज्ञान खे न जाणंदड़ शास्त्री या ज्ञानी मनुष ऊंदहि में डिसण में ईंदड़ु खुड़ख़बीता (जुगनू) समुझणु घरिजनि. परम पवित्र नर देहि मिलण खां पोइ बि जेके माण्हू आत्मज्ञानु हासिल नथा कनि, से जणु पुछ कटियल गडह आहिनि! आत्मज्ञानु प्रापति करण जी योग्यता फ़क़ति मनुष में ई आहे. पंहिंजा कर्म कंदे बि जेको अकर्ता बणिजे थो, देहि हूंदे

।। अविद्या ।।

(अज्ञान, अग्यानु)

जेका विद्यमान (मौजूदु) नाहे उहा आहे अविद्या. कूड़ी, असत् वस्तूअ जो आभासु पैदा कराईंदड़ शक्तीअ जो नालो **अविद्या** आहे. अविद्या जे उपाधीअ जे करे ई जीवात्मा ब्रह्म खां अलगि न हूंदे बि अलगि डिसण में अचे थो. जीअं ब्रह्मांडु (विश्वु) माया जो कार्यु आहे, तीअं जीवु अविद्या जो कार्यु आहे. माया-अविद्या उपाधी-भेद जे करे जगतु ऐं जीवु अलगि भासमानु थियनि था.

माया ऐं अविद्या जो कार्य-खेत्रु जुदा जुदा हूंदे बि बिन्ही जो स्वरूपु हिक जहिड़ो आहे. तंहिंकरे माया, अविद्या ऐं अज्ञानु हिकड़ाई नाला आहिनि, इन करे 'ज्ञानेश्वरी', 'एकनाथी भागवत' जहिड़नि ग्रंथनि में उन्हनि शब्दनि जो इस्तेमालु हिक ई अर्थ में कयो वियो

आहे. 'माया-अविद्या' लफ़्ज़ गडियल सूरत में पिणु वापराया विया आहिनि. मगर माया व्यापक आहे त अविद्या व्याप्य याने माइजी, समाइजी सघिजंदड़ आहे. अविद्या जीव-उपाधीअ ताईं महदूदु आहे त माया सारे ब्रह्मांड खे व्यापींदड़ आहे, माया सारे ब्रह्मांड में फहिलियल आहे.

माया परब्रह्म खे 'परमात्मा' स्वरूप में आणे थी त अविद्या आत्मा खे जीव जे रूप में बधी थी छडे. माया ब्रह्मांड जी कारण-देहि आहे. अविद्या माया वागुरु ई बंधन में विझण वारी हूंदी आहे. जीव खे इहा मेरो थी करे छडे, पाप-कर्मनि में विझी थी छडे. अविद्या जीव लाइ बंधनकारक आहे तंहिंकरे सत् विद्या जो अंतु करण लाइ ब्रह्मविद्या घुरिजे या ईश्वर जी भगिती.

अविद्या जी अजीब गाल्हि इहा आहे त संदसि कम या कारनामा सचा लगंदा आहिनि मगर उहे हूंदा आहिनि कूड़ा ! अविद्या जो 'अविद्या' नालो ई संदसि बेहद अभावु जाणाईंदडु आहे. मूल में अविद्या ई मिथ्या (कूड़ी) हुअण करे अविद्या द्वारां कल्पना कयलु जीवपुणो, जीवत्व पिणु मिथ्या ई आहे. अविद्या मायावी, फ़रेबी हुअण जो थोरी देरि डेखाउ कंदड़ आहे पर आहे मिथ्या, कूड़ी, खोटी! आहिड़ीअ कूड़ी आविद्या खे नष्टु करणु बेहद कठिन कमु आहे. संत ज्ञानेश्वर जे लफ़्ज़नि में इहो कमु इएं आहे जीअं 'आकास जी खल लाहिणु, आकास जा गुल पटणु या बकिरीअ जे गिचीअ हेठां थणनि जहिड़नि उज़िवनि मां खीरु डुहणु या वंझ स्त्रीअ जे पुट जी शादी कराइण' जियां हर सरह नामुमकिन आहे!'

अविद्या खे ई **अज्ञानु** (अग्यानु) चवंदा आहिनि. बई लफ़्ज़ हिक ई मानॉ वारा आहिनि. अविद्या-अज्ञान जूं विर्त्यूं हिन रीति आहिनि - १) **तम-** पंहिंजे स्वरूप जो ज्ञानु न हुअणु २) **मोहु -** देहि ऐं इंद्रियुनि खे 'मां' समुझणु ३) **महामोहु -** भोगनि जी बेहदि इच्छा हुअणु ४) **तामिस्र -** भोगनि जी इच्छा पूरी न थियण ते गुसो अचणु ५) **अंधतामिस्र -** कंहिं शइ जे नासु थियण ते पाण खे ई नासु थियलु समुझणु. इन्हनि पंजनि वृत्तियुनि खे 'पंचपर्वा अविद्या' चवंदा आहिनि.

।। भ<u>गि</u>ती ।।
(भक्ती)

भ<u>गि</u>ती मानॉ सगुण परमेश्वर ऐं जीव जो निष्काम प्रेम-स<u>न्</u>बंधु. भ<u>गि</u>ती आत्म-प्राप्तीअ जो साधनु आहे. सवली, सरल, आसानु ऐं सहंजाईअ सां करे सघण जहिड़ी हुअण करे धर्मी ज<u>ग</u>त में भ<u>गि</u>तीअ जो अहम स्थानु आहे. 'भज' याने सेवा, इन धातूअ मां भक्ती (भ<u>गि</u>ती) लफ़्ज़ु ठहियो आहे. भ<u>ग</u>वान जी सेवा करणु ई **भ<u>गि</u>ती** आहे. भ<u>ग</u>वानु हर हंधि हाज़िर हुअण करे ज<u>ग</u>त जी सेवा ई भ<u>ग</u>वान जी सेवा आहे. शांडिल्य मुनीअ जे लफ़्ज़नि में, '**सा परानुरक्तिरीश्वरे**' याने ईश्वर में परम अनुराग (प्रेमु) हुजणु भ<u>गि</u>ती आहे. नारद मुनीअ चयो आहे त, '**तदर्पिता खिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्यकुलतेति ।**' याने सभु कर्म भ<u>ग</u>वान खे ई अर्पणु करणु ऐं भ<u>ग</u>वान जी विस्मृती थियण ते व्याकुल थियण ई भ<u>गि</u>ती आहे.

वेदनि वारे ज़माने में भ<u>गि</u>ती-भावना ऐं उन लाइ ज़रूरी हूंदड़ ईश्वर-कल्पना खे को अवसरु ई कोन थो <u>डि</u>सण में अचे. उपनिषदनि वारो समो आत्म-चिंतन ऐं ज्ञानयोग जो हो. भ<u>गि</u>ती आरंभु करण लाइ ज़रूरी हूंदड़ सगुण, साकार, मूर्त ईश्वर खे उन में कोई स्थान कोन हो. अव्यक्त जी उपासना जे करे ज्ञान ऐं योग मार्ग स्थापित थी रहिया हुआ. पोइ शिव, विष्णु (कृष्ण), देवी-इन्हनि अवैदिक देवताउनि जे भ<u>गि</u>तीअ जा शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय वजूद में आया. भ<u>ग</u>वत गीता इन भ<u>गि</u>ती मार्ग जो प्रणेता, रचयिता, निर्माणु कंद<u>डु</u> आहे. महाभारत जे शांति-पर्व वारे भीष्म-युधिष्ठिर संवाद, गुफ़्तगूअ नारायणीय धर्म जो स्वरूप स्पष्ट करे सात्वत कुल जे वासुदेव भ<u>गि</u>तीअ सां उन जो स<u>न्</u><u>बं</u>धु जोड़े छ<u>डि</u>यो. इहो ई आहे प्राचीन '**भागवत धर्म**' या '**भगिती मार्गु**'. इहो ई.स.खां १४०० साल पहिरीं वजूद में आयो.

विष्णु पुराण, भ<u>ग</u>वतगीता ऐं श्रीमद्भा<u>ग</u>वत इहे भ<u>गि</u>ती मार्ग जा प्रमाण-ग्रंथ आहिनि. इन्हनि भ<u>गि</u>तीअ जी महिमा वधाए छ<u>डी</u>. शांडिल्य-सूत्र ऐं नारद-सूत्रनि भ<u>गि</u>तीअ जे वीचार खे तात्विक भाषा <u>डि</u>नी. भारत जे जुदा जुदा प्रांतनि में इहो भा<u>ग</u>वत धर्मु (भ<u>गि</u>ती मार्गु) पंहिंजे पंहिंजे प्रांत जी निरालाइप खणी अ<u>गि</u>ते वधियो. चयो वियो आहे, '**भक्ती द्राविड़ ऊपजी, लाये रामानंद, परगट किया कबीर ने सप्तदीप नव खंड।**' महाराष्ट्र जे विठ्ठल संप्रदाय

वारकरी-संप्रदाय द्‌वारां भागवधर्म जो मंदरु खड़ो करे भगिती-मार्ग जो गौरवु वधायो.

१) ईश्वर जे वजूद में श्रध्दा २) ईश्वरु भक्तनि ते दया कंदड़ु आहे. ३) ईश्वरु भक्तनि जी कामना पूरी कंदड़ु आहे ४) ईश्वरु पारलोकिक कल्याणु कंदड़ु आहे.- इन्हनि बुनियादी तत्वनि ते भगितीअ जो वीचारु आधारित थियो आहे. संत कवियुनि जी भगिती-रचनाउनि में इन्हनि चइनि तत्त्वनि में हर हंधि अटल श्रध्दा ज़ाहिर थी आहे. गीता ऐं भागवत भगितीअ जो रूपु चिटीअ तरह बयानु कयो आहे. फ़क़ति निर्गुण परमात्मा भगितीअ जो विषय नथो थी सघे. निर्गुण ब्रह्मु ज्ञान जो विषय आहे. 'निर्गुण भगिती' भगितीअ जो हिकु क़िस्मु आहे मगर भगिती भावना जे औज लाइ ऐं इज़हार लाइ भगवान जे सगुण-साकार रूप जी ज़रूरत हूंदी आहे. अद्वैत नज़रिए इहो वीचारु मन सां लगे थो त कहिड़े बि देवता जी उपासना करण ते उहा मूल परमेश्वर वटि ई पहुचे थी. हर हिक संप्रदाय पंहिंजे पंहिंजे उपास्य देवता खे अहमियत डेई उन जी उपासना कई आहे. गीता नासवान जगत ऐं अबिनासी आत्मा इन्हनि बिन्ही खां परे हूंदड़ पुरुषोत्तम स्वरूप जो बयानु कयो आहे. इहो ई सगुण-साकार परमेश्वर जो मूल आधारु आहे. उन जो ई पूरन अवतारु श्रीकृष्ण आहे.

बियनि मार्गनि बदिरां अनन्य-भक्तीअ द्‌वारां ई ईश्वर जी प्रापती सवलाईअ सां थिए थी. वेदनि जे अभ्यास, तपस्या, यज्ञ-कर्म ऐं दान-पुञ द्वारां परमेश्वर जी प्रापती नथी थिए. गीता पिणु चवे थी त एकविध भगितीअ सां ई ईश्वर जो दर्शनु थिए थो. भगवानु भाव जो बुखायलु हूंदो आहे. फक़ति पनु, गुलु, फलु, या पाणी बि अगर भगिती भाव सां भगवान खे अर्पणु कयो वञे त हू परसनु थींदो. भगितीअ खां सवाइ ज्ञानु वंझु आहे. भगितीअ खांसवाइ कयल कर्म पिणु अजाया (निष्फल) आहिनि. इन करे गीता 'कर्म-ज्ञान-भगिती' जो एको साधियो आहे. भगिती मार्ग जी हिक ख़ासियत इहा आहे त भगिती करण जो अधिकारु (हकु) सभिनी खे आहे. विद्‌या, ज़ाति, उमिरि, बलु, लिंग/जिन्स वग़ेरह जो फ़रकु भगिती मार्ग में कोन्हे. पापी जीव या शूद्र स्त्री बि भगिती करे सघे थी.

गीता जे बिजरूप भगितीअ खे विशाल वणु भागवत पुराण बणायो आहे.- 'बियनि सभिनी धर्मनि जो त्यागु करे मूं अकेले जे शरण में अचु' इहो गीता थी चवे त श्रीमद्‌भागवतु चवे थो त 'भगवान श्रीकृष्ण जी भगिती करणु ई श्रेष्ठ धर्मु आहे'. भागवत भगवान जे नाम-स्मरण,भगवान जे लीलाउनि जो कीर्तनु , भगतनि जे कथाउनि जो श्रवण, भगवान जे मूर्तीअ जी पूजा ऐं संदसि रूप जौ सदाईं ध्यानु वग़ेरह उपाअनि दुवारां, दुखी संसारी जीव खे परम शांती ऐं संतोषु हासिल करे डियण जो हिकु सवलो रस्तो डेखारे छड़ियो. भागवत में ध्रुव, प्रल्हाद, गजेंद्र, वग़ेरह भगतनि जूं कथाऊं आयूं आहिनि, उन्हनि मां भक्त जी हिक निष्ठा, भगवान जी भगतनि लाइ ममता ऐं भगिती मार्ग जी श्रेष्ठता ज़ाहिर थिए थी.

भागवत में भगितीअ जा ९ प्रकार बुधाया विया आहिनि श्रवण, कीर्तन, स्मरण पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य ऐं आत्म-निवेदन. इन्हनि में पोयां टे क़िस्म अहम आहिनि. पछाड़ीअ वारी आत्म-निवेदन भगिति 'अद्वैती भगिती' आहे. आत्मस्वरूप खे सुञाणे आत्म-समर्पित थियणु ई 'आत्म-निवेदन' आहे, अभेद-भाव सां ईश्वर सां मिली हिकु थियणु आहे. इहो ई मोखु आहे, इहाई 'सायुज्य मुक्ती' आहे.

नारद मुनीअ भक्ती-सूत्रनि में भगितीअ जा ११ प्रकार बुधाया आहिनि, जिनि में कांता-भाव, विरह ऐं वत्सलता भावनि वारा बिया क़िस्म अची वञनि था. शृंगार-भाव खे पिणु ईश्वर-प्रेम में जोगी जगह मिलण करे अगिते हली उन मां 'मधुरा भक्तीअ' जो नओं क़िस्मु वजूद में आयो.

।। सत्गुरू ।।

(गुरू)

गुरूअ जी ज़रूरत सभिनी खेत्रनि में थिए थी. विद्या, ज्ञान, कला, धंधो, उद्योग वग़ेरह में जेको रहबरी करे थो, सो गुरू आहे. अध्यात्म में, जेको अज्ञान जो अंधकारु दूरि करे थो, सो गुरू आहे. तंहिंकरे अध्यात्म जे लिहाज़ खां मोखु डींदड़ु सत्गुरू परमेश्वर जो रूपु आहे. इन करे सभई पंथ, संप्रदाय गुरूअ जी महिमा बयानु कनि था. सभिनी धर्मी संप्रदायनि जी श्रध्दा आहे त गुरूअ खां सवाइ रूहानी विकास खे का जोगी दिशा कान मिली सघंदी, या उन खे पूरनता प्रापति कान थींदी. वेद शास्त्र पुराण बुधाइनि था त 'जंहिंखे गुरू-परंपरा जो ज्ञानु नाहे, उहो मार्ग-भ्रष्ट बणिजी ज़वालियत जे खाहीअ में किरे थो. 'विवेक-सिंधू' ग्रंथ में चयो वियो आहे त जेसिताईं गुरू-परंपरा समुझ में कान आई आहे, तेसिताईं अज्ञान जी कारी राति पूरी थी ज्ञान-सूर्य जी प्रभात कान थी सघंदी.

मूल 'गुरू' शब्द जे टिनि अखरनि जो अर्थु हिन रीति आहे '**ग**' मानॉ सिध्दी डींदड़ु, '**र**' मानॉ पाप दूरि कंदड़ु ऐं '**उकारु**' विष्णुपद आहे. गुरू ब्रह्मा, विष्णू ऐं महेश्वर आहे ऐं साख्यात परब्रह्मु आहे -

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर ः ।।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम ः ।।

कबीर साहिब जे लफ़्ज़नि में,

सब धरती कागद करूं, लेखनी बन राय ।
सात समुंद की मसि करूं, गुरू गुन लिखा न जाय ।।

गुरू मानाॅ आत्मज्ञानु. गुरूअ जी मूरत ध्यान में आणण सां अज्ञानी जीवु ज्ञानी बणिजी पवे थो. ज्ञानु हसिल थियणु लाइ ज़रूरी आहे गुरूअ जो ध्यानु. गुरूअ जे ज़रीए पंहिंजे स्वरूप जो ज्ञानु थिए थो. सत्गुरूअ जी कृपा सां संसारी सुखनि जी त बरखा थिए थी पर अलौकिक सुख पिणु प्रापति थियनि था. दर असल गुरू-भगि‌तीअ खां वधीक बी का श्रेष्ठ भगि‌ती नाहे. नाम-साधना में सत्गुरूअ जी कृपा खे वडी अहमियत मिलियल आहे.

सत्गुरू सभिनी ऐबनि खां परे, पूरन ऐं सभिनी साहवारनि सां समानता जी भावना रखंदड़ु मनुष जी देहि धारणु करे आयलु परमात्मा ई हूंदो आहे. पंहिंजे सचे शिष खे सत्गुरू क़ाइम पूरनता ते पहुचाए छडींदा आहिनि. सचो शिषु सत्गुरूअ में विलीनु थी वञण खां पोइ विश्व जेडो विशाल बणिजी वेंदो आहे. सत्गुरू सूरज खां बि श्रेष्ठ आहे, जंहिंजो स्पर्श जणु, पाण जहिड़ो ई बणाए छडींदो आहे. सत्गुरू इंद्रियुनि खां परे वारनि अनुभवनि जो सागरु हूंदो आहे, जंहिं मां किस्में किस्में जा ज्ञान रूपी रतन बाहिर निकरंदा आहिनि. थोरे में, सत्गुरू माना ॅ मनुष ऐं ईश्वर जो मधुर संगमु !

'वेदान्तसूर्य' ग्रंथ में कवी श्रीधर चवे थो 'नर हेदि रूपी बंजर भूमी पाण स्वीकारु करे, उन जी अलगि अलगि नमूननि सां मशक्कत करे उहा सत्गुरू पोख करण लाइकु बणाए थो. गुरूकृपा ई जल धारा आहे, जंहिंजी बरखा थियण सां टिन्ही प्रकारनि जा ताप, दुख दूरि थी वञनि था. भरम जा भितर भुरी वञनि था. उन भूमीअ में महावाक्य जो अद्भुत बिजु सद्गुरू पाण विझनि था. पोइ उन में सुठो फ़सलु पैदा थिए थो. संसाररूपी डुकरु नष्टु थी वञे थो ऐं मोख - मुक्तीअ जो सुकरु थी वञे थो।'

□

भारतीय अध्यात्म विद्या जा आधार ग्रंथ

वेद	ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
वेदांग	शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष
उपनिषद	ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य
दर्शन	सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मामांसा
स्मृती	मनु, अत्री, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, औशनस, अंगिरस, यम, अ ापस्तंब, सम्वर्त, कात्यायन, बृहस्पती, पारशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, वसिष्ठ
धर्मशास्त्र	रामायण, महाभारत (भगवद्गीता)
पुराण	शिव, भविष्य, मार्कंडेय, लिंग, वराह, स्कंद, मत्स्य, कूर्म वामन, ब्रह्मांड, विष्णु, भागवत, नारद, गरुड, ब्रह्म, पद्म, अग्नी, ब्रह्मवैवर्त

उपनिषद्

ईशावास्योपनिषद्	**वेद** - शुक्ल यजुर्वेद **तत्त्व** - सारो संसारु ईश्वर सां व्यापियलु आहे. **अहम मंत्रु** - 'ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।...' **अर्थु** - जगत में जेको जेको आहे, उहो सारो ईश्वर सां व्याप्त आहे. संसार जे सभिनी पदार्थनि जो उपभोगु त्यागु
केनोपनिषद्	**वेद** - सामवेद, तलवकार शाखा **तत्त्व** - शुध्द आत्म-स्वरूप जी तप, दम, कर्म द्वारां उपासना. **अहम मंत्रु** - 'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स ः ।....' **अर्थु** - जंहिंखं लगे थो त आत्म-तत्त्वु समुझ में आयो आहे, उहो उन खे समुझ में कोन आयो आहे. छो त आत्मज्ञानी
कठोपनिषद्	**वेद** - कृष्ण यजुर्वेद, काठक शाखा **तत्त्व** - श्रेय ऐं प्रेय जो विवेकु. ज़ाहिर ज़हूर, अनंत आत्मा सभिनी जे हिर्दे में आङूठे जेडे रूप में क़ाइमु आहे. **शांतिमंत्रु** - 'ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु .....' **अर्थु** - असां बिन्ही जी रख्या थिए, पालनु थिए. **अहम मंत्रु** - 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । ....' **अर्थु** - उथो, जागो, आत्मज्ञानु प्रापति करे वठो.
प्रश्नोपनिषद्	**वेद** - अथर्ववेद **तत्त्व** - आत्मा मां प्राणु पैदा थिए थो. प्राणरूपी चिद्शक्ती विश्व जूं बेअंत गाल्हियूं - घटानाऊं आदी रचे थी. **शांतिमंत्रु** - 'ॐ भद्रं कर्णे भिः शृणुयाम देवाः..' **अर्थु** - असीं पंहिंजे कननि सां शुभ, कल्याणकारी

मुंडकोपनिषद्	**वेद** - अर्थर्ववेद **तत्त्व** - 'आत्मज्ञानु' लफ़्ज़ु ई 'ज्ञान' नांव लाइ जोगो आहे. **अहम मंत्रु** - 'भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया ः ।' **अर्थु** - आत्म दर्शन सां जीव जे हिर्दे जी अविद्यारूपी गंढि खुली पवंदी आहे.
मांडूक्योपनिषद्	**वेद** - अथर्ववेद **तत्त्व** - ॐ कार जो विवेचन. ॐ कार जी उपासना ई परब्रह्म जी उपासना आहे. **महावाक्य** - 'अयम् आत्मा ब्रह्म' = ही आत्मा ब्रह्मु आहे. **अहम मंत्रु** - 'सर्वं हि एतद् ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म , सोयमात्मा चतुष्पात् ।' **अर्थु** - हीउ सारो जगतु ब्रह्मु आहे. हीउ आत्मा ब्रह्मु ई आहे. परब्रह्मु चइनि चरणनि वारो आहे.
तैत्तिरीयोपनिषद्	**वेद** - कृष्ण यजुर्वेद **तत्त्व** - ब्रह्मानंद जो अनुभवु कंदडु खे कंहिंजो बि भउ नाहे. **अहम मंत्र** - (१) 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' = ब्रह्मस्वरूपु सचो, ज्ञानमय ऐं बेअंतु आहे. (२) 'यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह । आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति ।।' = मन सं गडु बियूं इंद्रियूं पिणु जंहिंखे प्रापति न करे मोटी अचनि थियूं, अहिड़ो परब्रह्म परमात्मा जे उन आनंद जो अनुभवु करण वारे ज्ञानी पुरुष खे कंहिंजो बि डपु कोन थो. थिए. (३) 'सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान् मा प्रमद ः । भूत्यै न प्रमदितव्यम् ।' = सचु गाल्हाइ. धर्म अनुसार हलु. स्व-अध्याय करण खां कीबाइ न. समृध्दीअ डांहुं बेपरिवाहु न थीउ.

ऐतरेय उपनिषद्	**वेद** - ऋग्वेद, शाकल शाखा **तत्त्व** - आत्मा मस्तक वारे 'विदृती' नाले दर मां प्रवेशु कयो. इहो **आत्म** - आनंद जो स्थानु आहे. **शांतिमंत्रु** - 'ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता । ......' **अर्थु** - मुंहिंजी वाणी मन में ऐं मनु वाणीअ में स्थित थी वञे. मां सचु ऐं कल्याणकारी चवंदुसि. हे परमात्मा, तूं मूंखे वेदनि जो ज्ञानु राइ. महावाक्य - 'प्रज्ञानं ब्रह्म ।' = साहवारनि जी शुध्द बूझ ई ब्रह्मु/ परमात्मा आहे.
बृहदारण्यक उपनिषद्	**वेद** - शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण **तत्त्व** - आत्मा ऐं परमात्मा जी एकता जी अनुभूतीअ लाइ ज्ञान जी उपासना. **शांतिमंत्रु** - 'ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।' **अर्थु** - इहो ब्रह्मु पूरनु आहे. उन मां निर्माणु थियलु जगतु पिणु पूरनु ई बाक़ी बचे थो. **महावाक्य** - 'अहं ब्रईमास्मि।' = मां ब्रह्मु आहियां. **अहम मंत्र** - (१) 'तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ।' **अर्थु** - मूंखे अंधकार मां प्रकाश डांहुं ऐं मृत्यूअ खां अमरता डांहु वठी हलु. (२) 'द्वितीयाद्वै भयं भवति ।' **अर्थु** - द्वैत / बियाईअ जी कल्पना करण सां डपु पैदा थिए थो. (३) 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ।' **अर्थु** - आत्मा जे लाइ ई सभु प्रिय हूंदा आहिनि.
छांदोग्य उपनिषद्	**वेद** - सामवेद, छांदोग शाखा **तत्त्व** - चित खे शुध्दि करे महावाक्य जे आधार ते आत्मा खे जोड़णु. **महावाक्य** - 'तत्त्वमसि' = उहो अनंत आत्मा तूं ई आहीं **अहम मंत्रु** - 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म । तज्जलानिति शांत उपासीत ।' **अर्थु** - हीउ सारो संसारु ब्रह्मु आहे. इहो ब्रह्म मां पैदा थियो. ब्रह्म में स्थित आहे. ब्रह्म में ई समाइजी वञे थो. शांत चित्त सां उन जी उपासना कजे.

● दर्शन ● (Philosophy)

जैन	**बर्पा कंदड़ु** - महावीर **प्रमाण ग्रंथु** - तत्वार्थाधिगमसूत्र, स्थाद्वादमंजरी **जगत कारण** - अनादी अनंत सत्द्रव्य **ईश्वर** - अनीश्वरवादी, निर् ईश्वरवादी **जीव** - मूल रूप में बेअंत पर देहि धारणु करण करे देहि जेडो **वाद** - अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद
बौध्द	**बर्पा कंदड़ु** - गौतम बुध्द **प्रमाण ग्रंथु** - त्रिपिटक-सूत्त विनय, अभिधम्म **जगत कारण** - मूल सत्ता विहीन शक्तीअ जो खिन पल जो परिणाम **ईश्वर** - निर् ईश्वर वादी **वाद** - अनात्मवाद, क्षणभंगवाद, अपोहवाद करण करे देहि जेडो
चार्वाक (लोकायन)	**बर्पा कंदड़ु** - बृहस्पती **प्रमाण ग्रंथु** - बार्हस्पत्यसूत्र **जगत कारण** - पृथ्वी, जल, तेज ऐं वायूअ जो संजोगु **ईश्वर** - अनीश्वरवादी, नास्तिकवादी **जीव** - देहि ई आत्मा आहे
न्याय	**बर्पा कंदड़ु** - गौतम मुनी **प्रमाण ग्रंथु** - न्याय सूत्र **जगत कारण** - ल परमाणू ऐं ईश्वर **ईश्वर** - ईश्वर वादी अस्तिक **वाद** - आरंभवाद, परतःप्रामाण्यवाद
वैशेषिक	**बर्पा कंदड़ु** - कणाद मुनी **प्रमाण ग्रंथु** - वैशेषिक सूत्र **जगत कारण** - परमाणू ऐं सूत्र **ईश्वर** - ईश्वरवादी **वाद** - आरंभवाद, (असत्कार्यवाद)

सांख्य	**बर्पा कंदडु** - कपिल मुनी **प्रमाण ग्रंथु** - सांख्य सूत्र **जगत कारण** - त्रिगुणात्मक प्रकृती **ईश्वर** - निर्ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी **जीव** - साक्षी पुरुष **वाद** - परिणामवाद (सत्कार्यवाद)
योग	**बर्पा कंदडु** - पतंजली मुनी **प्रमाण ग्रंथु** - योग सूत्र **जगत कारण** - कर्म अनुसार प्रकृती **ईश्वर** - ईश्वरवादी, अस्तिक **जीव** - साक्षी पुरुष **वाद** - परिणामवाद (सत्कार्यवाद)
पूर्व मीमांसा	**बर्पा कंदडु** - जैमिनी मुनी **प्रमाण ग्रंथु** - पूर्व मीमांसा सूत्र **जगत कारण** - जीव जा प्रालब्ध ऐं परमाणू **ईश्वर** - अनीश्वरवादी, निर्ईश्वरवादी **वाद** - जड़ चेतनात्मक कर्ता, भोक्ता स्वतःप्रामाण्यवाद, अपौरुषयवाद
उत्तर मीमांसा	**बर्पा कंदडु** - बायरायण व्यास मुनी **प्रमाण ग्रंथु** - ब्रह्मसूत्र **जगत कारण** - ईश्वरु ई जगत जो उपादान ऐं निमित्त कारणु **ईश्वर** - मायाविशिष्ट चैतन्य **जीव** - अविद्याविशिष्ट चैतन्य **वाद** - केवल अद्वैतवाद (रामानुजाचार्य) द्वैतवाद (मध्याचार्य) शुध्द अद्वैतवाद (वल्लभचार्य) द्वैत-अद्वैतवाद (निंबार्काचाय)

धर्म संप्रदाय

गाणपत्य - उच्छिष्ट गणपती, महागणपती, संतान स्वर्ण, हरिद्रा, हेरंब.

शाक्त - कापड़ी, पारानंद, सिध्देश्वर.

शैव - कश्मीरी, पाशुपत, वीरशैव, शिव अद्वैत, शैव सिध्दांत, सिध्द सिध्दांत.

वैष्णव (राम) - अनुभव, रसिक, रामदासी, रामसनेही, रामावत.

वैष्णव (कृष्ण) - एकशरणिया, चरणदासी, पंचसखा, पांचरात्र, महानुभाव, राधावल्लभ, ललित, वैखानस, सखी, सहजिया.

वैष्णव (वेदान्ती) - अचिंत्य भेद अभेद, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुध्द अद्वैत.

नाथ - आई, कन्हड़, कपिलानी, गंगानाथी, धर्मनाती, ध्वज, नाटेश्वरी, पागल, वैगारी, माननाथी, रामनाथी, सतनामी.

दत्त - अवधूत (आनंद), आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, टेंबेस्वामी, दत्तनाथ, देवनाथ, निरंजन रघुनाथ, गुरुचरित्र, स्वामी समर्थ.

प्राचीन संप्रदाय (अवैदिक)

जैन - श्वेतांबर, दिगंबर

बौद्ध - माध्यमिक, योगाचार (विज्ञानवाद) वैभाषिक, सौत्रांतिक

आधुनिक संप्रदाय (जदीद/मॉडर्न)

अरविंद दर्शन (पूर्णयोग), आर्य समाज, इस्कॉन, कबीर पंथ, कृष्णमूर्ति प्रतिष्ठान, गाडगे महाराज मिशन, चिन्मय मिशन, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी, माता अमृतानंदमयी मिशन, राधास्वामी संप्रदाय, रामकृष्ण मिशन, साईबाबा संस्थान, साधु वास्वाणी मिशन, स्वाध्याय परिवार, आनंदपुर साहिब, प्रेम प्रकाश मंडल, संत निरंकारी मंडळ वग़ेरह....

सामीअ वेंद सुणाया...

अजाइब कुदिरत, करता रची कल सां,
आदि सकति खों देव टे, तनि खों थिया पंज तत,
ततनि खों विस्तारु थियो, सभ न्यारी नानत,
सैलु करे सभकंहिं जो, सामी बिना ममत,
लुड़ खे हणी लत, मोटी सुम्हियो सेज ते.

कुदिरत जी, विश्व जी रचना अजीबु आहे, अचिरज में विझंदड़ आहे. इहा रचना परब्रह्म परमेश्वर पंहिंजीअ कल्पना सां, अटिकल या रम्ज़ सां कई आहे. पहिरीं आदि शक्तीअ मां टे देव (ब्रह्मा, विष्णू, महेश) निर्माणु थिया. उन्हनि मां पंजनि ततनि (तत्वनि) जो निर्माणु थियो (पृथ्वी, पाणी, तेजु,वायू ऐं आकासु). इन्हनि पंजनि तत्वनि जो विस्तारु ई हीउ विश्वु (ब्रह्मांडु, कुदिरत) आहे.इन विस्तार जे करे ई असांखे अलगि अलगि शयूं (वस्तू) डिसण में अचनि थियूं ऐं द्वैत (बियाईअ, अलगपणे) जो आभासु थिए थो. सृष्टीअ जी रचना कंदडु परमेश्वरु आलिप्त विर्तीअ सां (अलगि/धार/जुदा रहंदे) उन्हनि सभिनी में खुलीअ तरह, आज़ादीअ सां संचारु कंदो रहे थो. उन ई वक्ति इन सारे गोड़ शोर (लुड़) डांहुं पुठि करे परमेश्वरु पंहिंजीअ सेज ते सुम्ही पवे थो.

हिन श्लोक में सामी साहिब सारे विश्व में फहिल्यल (वजूद में हूंदड़) परमेश्वर जो, ईश्वरी चेतना जो वर्णनु कयो आहे. साणु साणु हिन सृष्टीअ खां अलिप्त (अलगि) हूंदड़ परमेश्वर जे विश्व खां अति श्रेष्ठ हूंदड़ रूप या अवस्था (Transcendental) जो पिणु दर्शनु करायो आहे. इहो हिक ई वक्ति निर्गुणु ऐं सगुण रूपु धारण कंदडु आहे. सृष्टीअ जो निर्माता ब्रह्मा (ब्रह्मदेव) आहे, जेको विष्णू भगवान जे नाभीअ (दुन) मां पैदा थियो हो. अहिड़ीअ तरह विश्व, ब्रह्मांड या कुदिरत जो मूल कारणु परमेश्वर, भगवान विष्णू आहे. जंहिं विश्व जे कण कण में प्रवेशु कयो आहे,उहो विष्णू आहे. जेको सभिनि में बाहिरां चाहे अंदिरां व्यपियलु आहे ऐं पोइ बि बाक़ी शेष/बचियलु आहे, उहो विष्णू आहे. शेष नांग जी सेज ते सुम्हियलु उहो विष्णू आहे.

अण हूंदो संसारु, कलिपत करे सिधि थियो,
जिएं सुपने में सिधि थियो, नाना विधि वहिंवारु,
समुझी ड॒िसु सामी चए, करे सुधु विचारु,
त अविद्या जो अहंकारु, मिटी मञेई मन मों.

जेको आहे ई कोन, अहिड़ो संसारु भरम/सन्से जे करे भासमानु थिए थो, भासिजे थो. ठीकु अहिड़ीअ तरह, जिअं सुपने में अनेक प्रकारनि जा वहिंवार ड॒िसण में अचनि था. सामी साहिब चवनि था तूं इहा गा॒ल्हि शुध्द वीचारु करे समुझण जी कोशिश करि. विवेक वारे इन वीचार करण सां तुंहिंजे मन वारे अज्ञान जो अहंकारु दूरि थी वेंदो,

परब्रह्मु (परमात्मा) बेहदि व्यापक, सूख्यमु ऐं शाश्वत आहे. हीउ सारो दृश्य जग॒तु परमात्मा मां ई पैदा थियो आहे ऐं अख़िर उन में विलीनु थी वञे थो. ब्रह्मु या परमात्मा सृष्टी /जग॒तु निर्माणु थियण खां पाहिरीं ई हुओ. उन खां पाहिरीं सृष्टी कान हुई. सृष्टी ईश्वर जी कल्पना या उमंग मां पैदा थियल आहे. इहो संसारु जेको हुओ ई कोन, सो ईश्वर रचियो आहे. सृष्टी नासवान आहे ऐं इन जे नष्टु थी वञण खां पोई बि शाश्वत परमेश्वरु जीअं जो तीअं हूंदो आहे. उहो सृष्टीअ जे आरंभ ऐं अंत में काइम रहे थो. विश्व जो निर्माणु ऐं नासु पिणु ख़्याली/काल्पनिक आहे. कल्पना (ख़्यालु) हिकु हूंदे बि उन जे पेट मां अनेक सृष्टियूं जनमु वठनि थियूं. संसारु नाशवानु हूंदे बि संत महंत चवनि था त ईश्वर जो, सगुण भग॒वान जो भज॒नु ऐं पूजा॒ करणु घुरिजे, इन लाइ सत्गुरूअ जी शरणि में वञी आत्मज्ञानु पिराइणु ज़रूरी आहे. आत्मज्ञानु (पंहिंजे स्वरूप जी सुञाणप) थियण खां पोइ हीउ सारो संसारु कूड़ो थो महसूसु थिए. भग॒वान जी भगि॒ती करण सां अहसासु ऐं अनुभवु थिए थो त ड॒िसण में ईंदड़ु हीउ सारो दृश्यु मिथ्या आहे. संतनि, आत्मज्ञानी पुरुषनि जी राइ आहे त हीअ दृश्य सिरिष्टी सुपने वांगुरु आहे-मिथ्या, कूड़ी !

सामी साहिब पिणु इहाई गा॒ल्हिसमुझाईंदे चवनि था त जीअं सुपने में कयल अनेक क़िस्मनि जा वहिंवार कूड़ा हूंदा आहिनि, अनेक नज़ारा ऐं घटनाऊं वग़ेरह पिणु थोरीअ देरि जा ऐं कूड़ा/मिथ्या ई हूंदा अहिनि, तीअं हिन सिरिष्टीअ जी रचना पिणु मिथ्या आहे. दृश्य जी इहा कूड़ाइप साधू संतनि खे समुझ में ईंदी आहे. उहे यथार्थु (हक़ीक़त) सचु समुझी सघंदा आहिनि. तंहिकरे हे मनुष, तूं बि शुध्द वीचारु करे, विवेकु धारे समुझण जी कोशिश करि. पोइ तुंहिंजे अंदर मां अविद्या, अज्ञान जो अहंकारु दूरि थी वेंदो. अविद्या जे करे ई तूं पाण खे सभु कुझु समुझी, देहि जो अभिमानु करे पंहिंजे सचे रूप खे, आतम-स्वरूप खे

अथी महांगो, सामी सौदो पिरेम जो,
जे तो ख़्वाहिश ख़रीद जी, त सटि सिर जो सांगो,
परिची पाइ ग॒िचीअ में, गिला जो घांघो,
लंघे पउ लांघो, त मतिलबु थियई मन जो.

सिंधी वेदांती कवी सामी चवे थो त प्रेम जो सौदो तमामु महांगो हूंदो आहे. अगर प्रेम जो सौदो करिणो अथई, प्रेमु ख़रीद करण जी इच्छा अथई त सिर (जानि) जी चिंता छडे॒, जानि क़ुर्बानु करण लाइ तयारु थीउ. उन खां पोइ तोखे गिला (निंदा) जो घांघो (ठिकर जे भग॒ल बर्तन जी ग॒िची) पाइणो पवंदुइ याने लोक - निंदा सहिणी पवंदइ, सा बि बिना नाराज़गीअ जे. अहिड़ीअ रीति लांघो (नदीअ या वाह जो तांगो हिसो) पारि कंदें त पोइ मन जी मुराद पूरी थींदइ, तूं प्रेमु प्रापति करे सघंदें.

सचो प्रेमु करणु डा॒ढो डु॒खियो हूंदो आहे. प्रेमु वठण लाइ, प्रेम जो सौदो करण लाइ त्याग॒ या कुरबानीअ जी ज़रूरत हूंदी आहे. ईश्वर सां प्रेमु करिणो आहे या ईश्वर जो प्रेमु हसिल करिणो आहे त सिरु लाहे डि॒यण जी तयारी हुअण घुरिजे. संत कबीर पिणु अहिड़ी ई ग॒ाल्हि थो चवे -

प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय।
राजा परजा जेहि रुचै, सीस देई ले जाय।।

प्रेमु प्रापति करण जो इहो ई शर्तु आहे त सिरु डे॒ई प्रेमु वठो; चाहे राजा हुजे या आम आदमी, उन खे अहिड़े त्याग॒ जी तयारी रखिणी ई पवंदी. न सिर्फ़ु एतिरो बल्कि हुन खे संसार जी गिला बि सहिणी पवंदी, सा बि ख़ुशीअ सां बु॒धिणी, सहिणी पवंदी. लोकु चाहे कुझु बि चवे, पर प्रभूअ सां प्रीति करिणी ऐं निबाहिणी आहे. संत मीरांब॒ाईअ पिणु श्रीकृष्ण सां प्रेमु करण महिल लोक -निंदा डां॒हुं ध्यानु कोन डि॒नो हो. मीरांब॒ाईअ श्रीकृष्ण खे ई पंहिंजो पती ज॒ाणी हिर्दे सां प्रेमु कयो हो. हूअ प्रभू-प्रेम में दीवानी बणिजी वेई हुई.

प्रभूअ सां प्रीति कीअं हुअणु घुरिजे, इन लाइ हीउ सुहिणो दोहो डि॒सो -

देखो करनी कमल की, कीना जल सों हेत।
प्राण तजौ प्रेम न तजौ, सूखौ सरहि समेत।।

कमल - गुल जो जल सां मेलु (प्रेमु) हूंदो आहे. कमल पंहिंजा प्राण त्याग॒े छडी॒ंदो पर पाणीअ सां कयलु प्रेम कोन छडी॒ंदो. सरोवर जे सुकी वञण ते ई कमलु सुकी वेंदो आहे, जल सां गडु॒

अबिनासीअ जो नासु, कडी कदाचित न थिए,
आहे जंहिंजे आसिरे, धरिती धवलु अकासु,
सूरिज चंदिरु पाणी पवनु, तेज पुंज परिकासु,
बेहदि रचे बिलासु, सइल करे सामी चए.

निर्गुण, निराकारु परब्रह्मु (परमेश्वरु) अविनाशी आहे, अमरु आहे. सचे परब्रह्म जो कड़िहिं बि नासु नथो थिए. परमेश्वर बेअंतु आहे, हुन जो कड़िहिं बि अंतु कोन थो थिए. अहिड़े परमात्मा जे आधार ते ई हीअ धरिती ऐं निर्मल आकासु टिकियल आहिनि. शुद्ध परब्रह्म जे आसिरे ते ई सारी सिरिष्टी टिकियल आहे - सिजु,चंडु,पाणी ऐं हवा तथा तेजवान प्रकाश पिणु परमेश्वर जे आधार ते टिकियल आहिनि. अहिड़ो अबिनासी परब्रह्मु पंहिंजी बेहदि लीला रचे उन में शइल पियो कंदो आहे.

ब्रह्मु (परमेश्वर) अविनाशी, निर्विकार, बेअंत, लासानी ऐं ज्ञानस्वरूपु आहे. ब्रह्म मां ई हीउ नज़रि ईंदड़ु विश्वु (जगतु) पैदा थियो आहे. हीअ सारी सिरिष्टी परमेश्वर ई पैदा कई आहे. धरिती, आकासु , सिजु ऐं चंडु तथा हवा ऐं पाणी पिणु ईश्वर मां निर्माणु थिया आहिनि ऐं उन जे ई आसिरे वजूद में आहिनि. परमेश्वर बेअंत, ज्ञानु ऐं आनंदु आहे, याने परमेश्वर ज्ञानस्वरूप ऐं आनंदस्वरूप आहे. संसार मे फहिलियलु प्रकाशु पिणु उन ई रचियो आहे. दृश्य जगतु, नज़रि ईंदड़ सभु पदार्थ परमेश्वर ई पैदा कया आहिनि. परब्रह्मु आकाश जेडो विशाल ऐं निर्मल आहे. हीअ क़ाइनात, हीअ सिरिष्टी, हीउ ब्रह्मांडु ब्रह्म ई रचियो आहे, जंहिं में हू विलासु बि कंदो रहे थो, लीला बि कंदो रहे थो. बेअंत ब्रह्मांड जे मथां ऐं हेठां ब्रह्मु ई ब्रह्मु आहे. अहिड़ी का बि जगह ब्रह्मांड में नाहे, जिते ब्रह्मु न हुजे. हर जीव जे अंदरि ऐं बाहिर पिणु ब्रह्मु (परमात्मा) व्यापियलु आहे. ब्रह्म में सारो विश्वु समायलु आहे ऐं विश्व जे सभिनी पदार्थनि में ब्रह्मु समायलु आहे, सो बि अंश, ज़रे जे रूप में. छो त बेअंतु ब्रह्मु विश्व जे पेट में पूरो समाइजी सघणु मुमकिन नाहे. हीअ सिरिष्टी रचे शाश्वत परमेश्वर उन में शइल करे रहियो आहे, क्रीड़ा करे रहियो आहे. चयो वियो आहे त,

'पुरुष एवेदं सर्वम्' (ऋग्वेद १०/९०/२)

हीउ सारो विश्वु परमात्मा जो ई रूपु आहे.तंहि करे संसार खे परमात्मा जो प्रतखु रूपु ज़ाणी उन जी शेवा करणु घुरिजे.

अविद्या जो अहंकारु, भारी लगो जीअ खे,
मने वेठो पाणहीं, अण हूंदो सन्सारु,
मिली साध संगति सां, करे न सुधु वीचारू
साखी सिरजणहारु, सामी डिसे कीनकी.

सामी साहिब चवनि था त जीव खे, इन्सान खे अविद्या (अज्ञान, माया) जो घणो अहंकारु थी पियो आहे. इन्सानु पाणेही न हूंदड़ संसार खे, मिथ्या जगत खे सचु समुझी वेठो आहे. अज्ञान जे कारण हूं कंहिं साधूअ जे संग में, सत्संग में वेही शुद्ध वीचारु बि कोन थो करे. अविद्या, माया या अज्ञान जे अंध में सिरजणहार ईश्वर खे साख्यात डिसी कोन थो सघे.

जीवनु सफलु थियण लाइ हिकिड़े परमात्मा खे सुञाणणु ज़रूरी आहे. उहो ई सचो ज्ञानु आहे. अहिड़ो आत्मज्ञानु संतनि जे संगति मां, गुरूअ जी किर्पा सां मिली सघे थो.

हक़ीक़त में विश्व जो मूल ततु हिक आत्मा ई आहे. शुद्ध, निर्मल, परब्रह्म में अनंत शक्तियूं रहनि थियूं. उन्हनि में हिक अजीब शक्ती आहे 'माया', जेका आत्मस्वरूप खे ढके थी छड़े. उन ढक या पर्दे जो नालो आहे 'अविद्या' या 'अज्ञान'. अज्ञानु, अविद्या, भरमु, देहबुद्धी इहा सारी माया जी प्रजा आहे. माया जे प्रभाव जे करे इन्सानु माया जे अधीनु थी संसार जे बंधननि में फासी पवे थो ऐं आत्मस्वरूप खे, परमात्मा खे विसारे हिन चल-अचल संसार खे ई सचु समुझण लगे थो. हिन कूड़े संसार खे ई सचु समुझी विहणु अज्ञानु आहे. इन्सानु या जीवु संतनि जे संगति में वेही शुद्ध विचारु बि कोन थो करे, पंहिंजे सचे रूप खे, आत्मस्वरूप खे सुञाणण जी कोशिश कोन थो करे. अज्ञान में जीअंदड़ु इन्सानु स्थल - काल जे बंधननि में फासी,माया - मोह जे जार में अड़िजी वहिंवार कंदो रहे थो.

जीवु या इन्सानु अगर संतनि जो संगु कंदो, संतनि जी शरणि वठंदो त संदसि कल्याणु थी सघंदो. छो त संत असांखे भगवान जी यादि डियारण जो कमु कंदा आहिनि. संतनि ई ईश्वर से सुञातो आहे. सचा संत असांखे सुजागु करण जो कार्यु कंदा आहिनि. सचा संत असांखे (इन्सान खे,जीव खे) इन गाल्हि_जो अहसासु कराईंदा आहिनि त 'तूं ईश्वरु आहीं' पंहिंजे इन सचे रूप खे सुञाणु. तंहिंकरे अज्ञान या माया जो अभिमानु छडे, सचनि संतनि जो संगु करे परब्रह्म खे, परमेश्वर खे साख्यात डिसण जो जतनु करणु घुरिजे.

अविद्या जो अंतु, कंहीं पातो कीनकी,
लुड़हिया लोभ लहर में, पीरु अमीरु महंतु
लंघे चड़हियो लख ते, को सुजाखो संतु,
भेद बिना भग॒वंतु, सामी डि॒ठो जंहिं सरब में.

सामी साहिब चवनि था त सारे जग॒त में जेका अविद्या (माया, अज्ञानु) फहिलियल आहे, तंहिंजो अंतु कंहिं बि कोन लधो आहे. बेअंत अविद्या (या माया) जी नदीअ जे लोभ रूपी लहरुनि में सभई इन्सान लुड़ही विया, अमीरु- गरीबु, पीरु चाहे महंतु पिणु लुड़ही वियो. विर्‌लो को सुजागु॒ संतु तरी वियो,जंहिंखे ईश्वर जी ज॒াण पई, जंहिंखे ब॒োধु थियो. अहिड़े विरले संत पंहिंजे मन मां बि॒याई कढी संसार जी हर शइ में भग॒वान खे डि॒ठो.

माया जो कोई अंतु ई कोन ह्ंदो आहे. अविद्या या अज्ञानु पिणु माया जो हिकु॒ रूपु आहे. संसार में अज्ञानु व्यापियलु आहे. कंहिं खे बि पंहिंजे सचे रूप जी ज॒ाण कान्हे. इन्सानु ईश्वर जो ई रूप आहे, असांजो ईश्वरु असांजे हिर्‌दे में ई आहे पर असीं उन खे कोन था सुञाणे सघूं.माया ऐं बि॒यनि विकारनि में असीं फाथा पिया आहियूं. अमीरु गरीबु, पीरु, फ़कीरु, साधू, महंतु पिणु माया या अविद्या खां पाणु छड॒ाए कोन सघियो आहे.

मगर सचा संत ज्ञानी हूंदा आहिनि. संसार में अहिड़ा ज्ञानी संत विर्‌ला हूंदा आहिनि, जिनि खे सच जो, परमात्मा जो ज्ञानु थियलु हूंदो आहे. उन्हनि ई सचे अर्थ में भग॒वान खे सुञातो -ज॒ातो आहे. अहिड़े सचे संत जे मन में कंहिं बि क़िस्म जो भेदु, द्वेतु या बि॒याई कान हूंदी आहे, तंहिं करे हू जग॒त जे हर पदार्थ में ईश्वर खे डि॒संदा आहिनि. अहिड़नि अंतर्ज्ञानी, निर्मोही ऐं निष्काम संतनि लाइ कबीर पिणु चवे थो.

आशा तजि माया तजै, मोह तजै अरु मान।
हरष शोक निंदा तजै, कहै कबीर संत जान।

अविद्‌या जो दरियाहु, कख करम लंघाइनि कीनकी,
तारि वहे तिख ताअ सां, अण हूंदो असिगाहु,
सामी बे॒डी सच जी,चपो करे वेसाहु,
त सति गुरु मरदु मलाहु, पारि लंघाए पल में.

सामी साहिब चवनि था त मनुष खे संदसि कखनि जहिड़ा हल्किड़ा कर्म अविद्‌या रूपी दरियाहु (सागर, नदी) पारि उतारे कोन सघंदा. अणहूंदड़ अविद्‌या जो दरियाहु बेहदि ऊन्हो आहे. टिमटारि भरियलु इहो दरियाहु जोश विचां तिखे वहुकिरे सां वही रहियो आहे. इहो सागरु (दरियाहु, नदी) पारि करिणो अथई त सच जे बे॒ड़ीअ में वेहु, हथ में विश्वास रूपी चपो (बे॒ड़ीअ जो ग॒नु, ओलो) खणु. इन लाइ बे॒ड़ीअ वारो (मलाहु) सतिगुरु हुअणु घुरिजे. उहो ई तोखे खिन पल में भवसागर मां पारि लंघाईंदो (हुन भरि पहुचाईंदो).

अविद्‌या कूड़ी/ खोटी, वस्तूअ जो आभासु पैदा कराईंदड़ शक्ती आहे. माया वांगुरु ई अविद्‌या ब॒ंधन में विझण वारी आहे. अविद्‌या (अज्ञान) जी हिक अजीब ग॒ाल्हि इहा आहे त संदसि कमु सच जहिड़ो लग॒ंदे बि उहो हूंदो आहे कूड़ो! दर असल अविद्‌या जो 'अविद्‌या ' नालो ई संदसि बेहदि अभावु ज॒ाणाईदड़ु आहे. मूल में अविद्‌या ई खोटी या कूड़ी हुअण करे अविद्‌या द्‌वारां कल्पना कयलु जीवत्व पिणु मिथ्या ई आहे. ('अण हूंदो असिगाहु')

अहिड़ो ऊन्हो दरियाहु सिर्फु कर्म सां पारि कोन थी संघदो. तेज़ वहंदड़ अविद्‌या जे दरियाह खे पारि करण लाइ घुरिजे सच जी बे॒ड़ीअ जो ग॒नु/हथियो हुजे. इहो विश्वासु हुजे सचे साईंअ ते. अटलु विश्वासु हुजे सत्‌गुरूअ मे. सत्‌गुरू मलाह हूंदा आहिनि. भवसागरु पारि कराईंदड़ हूंदा आहिनि. जीअं बे॒ड़ीअ वारो मुसाफ़िरनि खे नदीअ जे हुन भरि पहुचाईंदो आहे, तीअं सत्‌गुरू पंहिंजे शिष्य खे भवसागर मां तारींदा आहिनि.

अध्यात्म जे लिहाज़ खां मोखु ड॒ींदड़ सतिगुरू परमेश्वर स्वरूपु हूंदा आहिनि. सभई संप्रदाय चवनि था त सतिगुरूअ खांसवाइ अध्यात्मिक/रूहानी विकास खे योग्य दिशा कान मिली सघंदी ऐं न ई उहो विकासु पूरो थी सघंदो. सचे सतिगुरूअ खे अगर को सचो शिषु मिली वञे त सतिगुरू हुन जा टिन्ही प्रकारनि जा ताप/दुख दूरि करे, हुन खे आत्मज्ञानु ड॒ेई हीउ ऊन्हो दरियाहु पारि कराए सघनि था. हिन संसार जा सचा मलाह सतिगुरू ई आहिनि.

भौ सागर के त्रास से, गुरु की पकड़ो बाँहि।
गुरु बिन कौन उबारसी, भौ जल धारा माँहिं।।

अविद्या बंदि किया, जीअ सभेई फास में,
भुली निज सरूप खों, सन्से मंझि पिया,
तिरिषिना जे दरियाह में, सामी वही विया,
अहिड़ा अंधा थिया, जो जागी डि॒सनि कीनकी.

वेदांत जा अभ्यासी ऐं महान सिंधी कवी सामी साहिब हिन सलोक (श्लोक) में अविद्या (अज्ञान, माया, भरम, देहबुद्धी) जो वर्णनु कयो आहे. चवनि था त संसार जे सभिनी जीवनि खे, माण्हुनि खे अविद्या / अज्ञान पंहिंजे ज॒ार में, फंदे में फासाए छड़ि॒यो आहे. अविद्या या माया इन्सान जे 'आत्मस्वरूप' खे ढके थी छड॒े, तंहिंकरे इन्सान पंहिंजे सचे रूप खे, आत्मस्वरूप खे विसारे छड़ि॒यो आहे. जंहिंजे करे सभई इन्सान (जीव) सन्से या भरम में वञी पिया आहिनि. इन करे जीव तृष्नाउनि, कामनाउनि, इच्छाउनि जे दरियाह में, नदीअ में लुड़ही विया आहिनि, अज्ञान या माया जे कारण जीव अहिड़ा त अंधा थी पिया आहिनि जो अंदर जूं अखियूं खोले निज स्वरूप खे, ईश्वर खे डि॒सी कोन था सघनि.

दर असल माया जे वस में थी वियलु इन्सानु (जीवु) अज्ञान में जीअंदो रहे थो. माया सभिनी जीवनि जी अहिड़ी हालत बणाए छडी॒ आहे जो हू भरमनि में वञी पिया आहिनि. पंहिंजे सचे रूप खे विसारे वेठल जीव अनेक तृष्णाउनि रूपी नदीअ में वहंदा पिया वञनि. हिन कूड़े संसार खे सचु समुझी पंहिंजूं कामनाऊं पूरियूं करण लाइ उन्हनि जे पुठियां पिया था डोड़नि - जीअं मृगजल, रुञ डि॒सी हरणु उन खे पाणी समुझी ओडां॒हु डुकंदो वेंदो आहे, पर उते पाणी न बल्कि पाणी अ जो आभासु हंदो आहे, सागी॒अ तरह इन्सान पिणु डुकंदा रहनि था मगर संदनि प्यास कान थी बुझे. अज्ञान जे अंधकार में जीवनि खे पंहिंजे 'आत्मस्वरूप' जो, परब्रह्म जो, परमात्मा जो दर्शनु कोन थो थी सघे. छो त हू सुजा॒गु थियण जी कोशिश कोन था कनि. हू पंहिंजे शरीर खे ई सभुकुझु समुझी वहिंवार कंदा रहनि था. अहिड़ो शरीरु, जेको फ़ानी आहे, कडु॒हिं नष्टु थियण वारो आहे. साधू संत चवनि था त देहि (शरीर) खां परे वञण में, देहि खां धार थियण में ई जीव जो कल्याणु आहे.

आतम रसु मिठो, अथी सभ रसनि खों,
वञी पुछु तनीं खों, चखे जनि ड॒िठो,
किआऊं पाणु फिटो, सामी ड॒िसी सरूप खे.

सभिनी रसुनि में आतम-रसु मिठो हूंदो आहे. जिनि इहो आतम रसु चखे ड॒िठो आहे, उन्हनि खां वञी इन रसु जो मेठाजु (मिठासु, मधुरता) पुछु. सामी साहिब चवनि था त अहिड़नि मनुषनि पंहंजे स्वरूप खे (अंतरात्मा खे, परमेश्वर खे) ड॒िसी पाणु (आपो, खुदी, अहम्) कढी फिटी करे छड॒ियो.

आत्मा / परमात्मा आनंदस्वरूप हूंदो आहे. आत्मा जो अंदर में कयलु दर्शनु पिणु आनंददाइक हूंदो आहे. आत्म जी अनुभूती थियणु, अद्वैत जो अनुभवु थियणु 'साक्षात्कार'/साख्यात्कारु आहे. शाश्वत, दाइमी सच जो शुध्द अनुभव-आनंदु मिलणु या ईश्वरी प्रेम जो जीअरे जाग॒ंदे दिव्य-अनुभवु हासिल थियण खे ई 'साख्यात्कार' चयो वियो आहे. इन आनंदमय अवस्था खे गीता में 'ब्राह्मी स्थिती' या 'स्थितप्रज्ञ अवस्था' नालो ड॒िनो वियो आहे. इन्सान जे इंद्रियुनि खां परे हूंदड़ु इहो अनुभवु दिव्यता सां महसूसु थींदड़ु हूंदो आहे. इहो आतम-रसु संसार जे सभिनी भैतिक रसुनि खां मिठो ऐं शाश्वत हूंदो आहे. अहिड़ेआत्म-रस जी अनुभूती कंदे साधकु/भक्तु जीवन-मुक्त अवस्था में पहुची वियलु हूंदो आहे. ब्रह्मज्ञान खां बि परे वञी/पहुची आत्म-अनुभव जी अनुभूती थियण करे भक्त (साधक) खे पूरन ज्ञान, पूरन आनंद एं पूरन शांतीअ वारे अध्यात्मिक मक़्सद जी प्राप्ती थी वियल हूंदी आहे. अहिड़ी स्थिती, अहिड़ी विर्ती 'साक्षात्कार' थियण जी आनंदमय अवस्था हूंदी आहे. इहो आनंदु मौनु, ऊन्हो ऐं गंभीरु हूंदो आहे. आत्मा जी सुंदरता ड॒िसी जीवु पंहिंजे पाण खे विञाए विहंदो आहे. आत्मा जो ज्ञानु या ब॒ोधु थियण करे ज्ञाता (जीवु, मनुषु) पाण मरी वेंदो आहे ऐं बाक़ी बचंदो आहे ज्ञानु. इन आनंदमय अवस्था में खुलियल नेत्रनि सां पंहिंजो मरणु पाण ड॒िसिणो पवंदो आहे. आत्मा सां मिली हिकु थी वञण जी इहा स्थिती 'जीवन-मुक्ती ' चई वेंदी आहे. संत तुकाराम अहिड़ो आत्म-आनंद, आत्म-रस, आत्म - सुख जो अनुभवु कयो हो.

इन आत्म-रसु जी सारह कंदे सामी साहिब पिणु चवनि था त इन जो मिठासु ऐं महिमा उन्हनि संतनि, सत्पुरखनि, आत्म-ज्ञानियुनि खां वञी पुछी ड॒िसु, जिनि इन जो सवादु चखे ड॒िठो आहे. उन्हनि त साख्यात्कार वक़्ति, आत्म जे दर्शन वक़्ति, पंहिंजो स्वरूपु (आत्मा/परमात्मा) ड॒िसण शर्ति पाण मां 'पाणु'(अहं) कढी करे पाण खे परमेश्वर जे हवाले करे

लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल ।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ।।

आदि वियादि उपादि, टेई ताप लगॖनि हिन जीअ खे,
वही तनि जे वह में, सो जनमु विञाए बादि
जागॖी करे न यादि, सामी सुपेरियनि खे.

सामी साहिब चवनि था त इन्सान खे टिनि प्रकारनि जा दुख (ताप) भोगॖिणा पवनि था. उन्हनि दुखनि जे वहुकिरे में वहंदे मनुषु पंहिंजो जनमु अजायो थो बर्बादि करे छ‌ॾे. हू सुजागु थी करे प्रियतम परमेश्वर खे यादि कोन थो करे.

जेको जनमु वठी हिन धरितीअ ते आयो आहे, उन जीव खे सुखु-दुखु भोगॖिणो पवे थो. इन्सानु सुखनि जे भेट में दुख ई वधीक भोगॖे थो. दुख ज़णु ज़िंदगीअ सां चिंबिड़ियल हूंदा आहिनि. इहे दुख घटि या वधि सभिनी खे भोगॖिणा पवनि था. हर कंहिं खे कहिड़ो न कहिड़ो दुखु भोगॖिणो ई पवे थो, उन खां सवाइ छोटिकारो नाहे. पृथ्वी, जलु अग्नी, तेजु ऐं आकाशु-इन्हनि पंजनि ततनि (पंच महाभूतनि) द्वारा मनुष खे दुख सहिणा पवनि था. वनस्पती, जानवर, नांग, कीड़ा आदी या माण्हू पिणु माण्हूअ खे दुख ॾींदो आहे. इन्हनि दुखनि खे ‘तप/ताप’ चया वियो आहे. शास्त्रनि में ३ प्रकारनि जा दुख ॿुधाया विया आहिनि, जिनि जो ज़िकिरु सामी साहिब पंहिंजे सलोक में कयो आहे. इहे ‘त्रिताप‘ ॾिसो :

१) ‘आदि‘ (आधि) दुख मानॉ मन जा दुख, मानसिक दुख, अंदर जी पीड़ा आदि तप अंदिरियां हूंदा आहिनि. चिंता लगॖणु, भउ या डपु थियणु,नाकामयाबी मन खे चुभणु, भरमु, पागॖलपुणो, यादाशत हली वञणु, काम-क्रोध-द्वेष-हसद-साड़ जहिड़नि विकारनि सां मनु व्यापिजी वञणु, ज़बरदस्तु बेचैनी वग़ेरह मानसिक यातनाऊं ‘आदि‘दुख आहिनि.

२) ‘वियादि’ (व्याधि) मानॉ बीमारी, रोगु, मर्ज़ु, इन्सान जे शरीर जा इहे ताप या दुख आहिनि. अनेक प्रकारनि जा तप या बुख़ार, ख़ूनु ख़राबु थी पवण करे थींदड़ रोगॖ, सरीर जे अंदिरियनि उज़िवनि जी सोज़, रतु जो दाॿु, दमु, दिलि जी बीमारी, शरीर जा उज़िवा कमिज़ोरु थी वञणु, ॿुढापे जा दुख, चकर अचणु वग़ेरह बेशुमार शरीरी दुख आहिनि.

३) ‘उपादि‘ (उपाधि) तप मानॉ शरीर जा ॿहिरियां दुख. इन्हनि खे भौतिक दुख चइजे थो. मिसाल तोर ॿियनि साहवारनि द्वारां इन्सान खे थींदंड तकिलीफ़ूं, इन्सान जो इन्सान खे सताइणु-मारणु, पाणी-बाहि आदि द्वारा यातनाऊं मिलणु, झगॖड़ा-फ़साद-मारामारी, ॿोॾि, भूकंप जे करे माण्हुनि खे दुख मिलनि था, जे शरीर खे ॿाहिरियनि साधननि द्वारां मिलंदड़ दुख आहिनि.

इहे टिनि क़िस्मनि जा दुख भोगॖींदे इन्सान जी उमिरि पूरी थी वञे थी मगर इन्सानु सुजागु थी ईश्वर जो सुमिरनु कोन थो करे, जेको सुमिरनु संदसि दुख कटे सघे थो.

आयो नागर नटु, बेखु धरे बाज़ारि में ,
ॿांभणु चवे ॿियाईअ रे, कढी वेठो हटु,
पाण वापारी वणिजु थियो, पाण ताराज़ी वटु,
रइयत राजा पाण थियो, कांइरु सुरु सुभटु,
पाणा कुंभरु आवी बणियो, चकु मिटी घटु मटु,
पाण फूलु फलु पतरु थियो, पाण ॾारु ॿिजु ॿटु,
अंदरि ॿाहिरि दह दिसा, खेले गुप्तु पर्घटु,
परिची खोले पटु, पाण लखाए पाण खे.

नाटकु कंदड़ु नटु (परमेश्वर) वेसु धारे बाज़ारि (संसार) में आयो आहे. (हू अनेक भूमिकाऊं करे रहियो आहे). ब्राह्मणु थो चवे त उहो नटु (भॻवानु) बिना कंहिं ॿियाईअ (भेद–भाव) जे हटु (दुकानु) कढी वेठो आहे. ईश्वरु पाण ई सभु कुझु बणियो आहे. परमेश्वरु पाण ई वापारी ऐं वापारु बणियो आहे त ताराज़ी ऐं वट बि पाण ई बणियो आहे. राजा ऐं प्रजा बि परमेश्वरु पाण थियो आहे त कांइरु वीरु ऐं जोधो बि हु पाण ई थियो आहे. परमात्मा पाण ई कुंभरु ऐं संदसि बठी बणियो आहे त कुंभर जो गोलु चकिरो / फीथो, घड़ो ऐं मटिको पिणु पाण ई थियो आहे. परमेश्वरु पाण ई गुलु, फलु ऐं वण जो पनु थियो आहे त टारी, ॿिजु ऐं ॿटु वणु पाण ई थियो आहे. परमेश्वरु ई पाण अंदरि तथा ॿाहिरि ॾह दिशाँऊं / तर्फ़ आहे . ॻुझे ऐं ज़ाहिर रूप में हू पाण ई पियो थो खेॾे. हू पाण ई परिची करे, राज़ी थी करे पर्दो खोले/हटाए थो ऐं पाण खे पाण ॾेखारे थो.

परब्रह्मु, परमेश्वरु हिकु ई आहे मगर हिक मां अनेक, अनंत रूप धारणु कया अथाईं– 'एकोऽहम् बहुस्याम' । भॻवतगीता जे ॾहें अध्याअ में श्रीकृष्ण पंहिंजे विश्वरूप, विभूतियुनि निस्बति अर्जन के ॿुधाए थो. परमात्मा जी असीमता, सर्वव्यापकता , सर्वज्ञता श्रीकृष्ण जे ई मुख झां ॿुधण खां पोइ अर्जन जो अहंकारु ऐं मोहु दूरि थी वञे थो. हक़ीक़त में परमेश्वर सर्वकर्ता आहे. हिन विश्व जो संचालकु उहो ई आहे. हू सभिनी चेतन अचेतन पदार्थनि में मौजूदु आहे. सभिनी साहवारनि जे ह्रदय में परमेश्वरु ई आत्मा जे रूप में रहे थो. परब्रह्म–परमेश्वरु सभिनी गुणनि सां संपन्नु, सर्व शक्तिमानु ऐं ॼाणी ॼाणणहारु आहे. परमेश्वर खांसवाइ ॿी का सत्ता संसार में कान्हे.

अहिड़े परमेश्वर जे हिक रूप जो, सगुण रूप जो वर्णनु सामी साहिब पंहिंजे श्लोक में कयो आहे;जंहिं में ॼाणायो अथाईं त परमेश्वरु वॾो वेसधारी, अभिनेता आहे. हिन विश्वररूपी बाज़ारि में हू कॾहिं वापारीअ जी भूमिका में अचे थो दुकानदारी करण, पर हू 'एक–पात्री' नाटकु थो करे; पाण हिकु आहे मगर हिकु ई अलॻि अलॻि भूमिकाऊं थो करे विश्व–रंगमंच ते. परमेश्वरु वापारी, दुकानु, वज़न, कुंभरु, चाकु, मिटी, घड़ो, राजा, प्रजा, वीरु, ॾकिणो पुरुषु, वणु, फूलु, ॿिजु वग़ेरह पाण ई बणिजे थो!

आशिक़ कीन लिकनि, सूरिज जां हन लोक में, सदा अलबेलनि जां, रता नेण रहनि, काणि न कढनि कंहिंजी, सूरी पिणि सहनि,

जीअं हिन लोक में सिजु सदाईं ज़ाहिर हूंदो आहे, तीअं ईश्वर जा प्रेमी (आशिक़) पिणु कडहिं लिकंदा कोन्हनि. उहे अलबेलनि/मस्तानिनि/बेपरिवाहनि वांगुरु सदाईं ईश्वर-प्रेम में मगनु हूंदा आहिनि, प्रेम जी ख़ुमारी संदनि रङियल, गाड़हनि नेणनि मां पेई नज़रि ईंदी आहे. उहे आशिक़ कंहिंजा मुहताज कोन थियनि. हू सूरीअ (फासीअ) ते चड़हण लाइ, जानि डियण लाई पिणु तयारु हूंदा आहिनि. आहिड़ा ईश्वर जा आशिक़ पंहिंजे प्रियतम परमेश्वर सां अठई पहर (राति डींहं) गडु वेठा हूंदा आहिनि.

आशिक़ मानॉ इश्कु या प्रेमु कंदड़. जिस्मानी इश्क़ या प्रेम जे भेट में रूहानी इश्कु (आत्मिक प्रेमु)वधीक मुल्हाइतो हूंदो आहे. ईश्वरी प्रेमु अध्यात्म जो लाज़िमी ततु हूंदो आहे. सगुण परमात्मा ऐं जीव जे निष्काम प्रेम-सन्बंध खे भगिती चवंदा आहिनि. ईश्वर सां बेइन्तहा अनुरागु भगिती आहे. ईश्वर-प्रेमियुनि लाइ त प्रेमु/इश्कु ई उत्तमु भोजनु, सवादी पदारथु हूंदो आहे. जंहिंजे मन में ईश्वर लाइ प्रेमु आहे, उहो ईश्वर जे वेझो आहे, छो त ईश्वरु पाण प्रेमु आहे. ईश्वर सां अनन्य प्रेमु कंदड़ हिर्दे में इश्क़ जी जोति जगाए प्रभूअ खे पसंदा आहिनि. ईश्वर जे इश्क़ रूपी सागर में टुबियूं डींदड़ सचा आशिक़ बेअंत सुख ऐं आनंद जा मोती लभे सघंदा आहिनि. अहिड़ा आशिक़ (भक्त) सूरज वांगुरु पधिरा, ज़ाहिरज़हूरु हूंदा अहिनि. जीअं सूरजु लिकी कोन सघंदो आहे, तीअं सचा प्रभूअ जा प्यारा लिकी कोन सघंदा आहिनि.

भक्ति करे पाताल में, प्रकट होवै आकास।
रज्जब तीनों लोक में, छिपे न हरि का दासा ।।

सामी साहिब पिणु अहिड़नि आशिक़नि (भगतनि) जे बारे में इहा ई गाल्हि था चवनि. आहिड़ा सचा, प्रेमी भक्त कीअं सुञाणे सघिबा आहिनि? उन्हनि जा नेण/नेत्र सदाईं ईश्वर-प्रेम जे ख़ुमार सां भरियल नज़ारि ईंदा आहिनि ऐं दीवाननि (मस्ताननि) जाहिड़ी संदनि हलति हूंदी आहे. सचा भक्त बेपरिवाह हूंदा आहिनि. हू कंहिंजा मुहिताज कोन बणिजनि. वक़्त ते त कठोर दुख सहण या फाहीअ ते चड़हण जी बि हुननि जी तयारी हूंदी आहे. हू राति डींहं पंहिंजे प्रियतम परमेश्वर सां गडु हूंदा आहिनि,

जो जन प्रेमी राम के, तिन की गति है येह ।
देह से उद्यम करें, सुमिरन करे विदेह ।।

अंधा कनि अभिमानु, काया माया कुल जो,
कालु न डि॒सनि कंध ते, कश्यो बीठो कानु,
विर्लो को गुरमुखु रहे, सामी सावधानु,
जंहिंखे आतमग्यानु, सुतह डि॒नो सतिगुरूअ.

अज्ञानी माण्हुनि जे बारे में सामी साहिब चवनि था त अहिड़ा अंधा/अज्ञानी इन्सान पंहिंजी देहि/शरीर, माया (दौलत) ऐं कुल (ख़ानादन) जो अभिमानु कंदा आहिनि. हू काल (मौत) खे डि॒सीकोन सघंदा आहिनि जेको संदनि कुल्हे ते तीरु (बा॒णु) ताणे बीठो आहे मारण लाइ. संसार में विर्लो को गुरमुखु हूंदो, जंहिंखे सुतत ई सतिगरूअ आत्मज्ञानु डि॒नोआहे, जंहिंजे करे हू सावधानु थी रहे थो.

'मां' ऐं 'मुंहिंजो' जो अभिमानु करणु अहंकारु आहे. 'मां ' 'मां ' करणु अहंकारु/अभिमानु आहे - **'अहं अहं कारयती इति अहंकार '** अहंकार जे करे ई 'मां देहि आहियां' जी भावना मज़बूतु थी वञे थी. अभिमानु करण करे जीवु/मनुषु अनेक प्रकारनि जे भरमनि-सन्सनि में पई 'मां करण वारो, मां भोगु॒ण वारो' समुझण लगुं॒दो आहे. अहिड़ा अभिमानी मनुष मूरख/अज्ञानी हूंदा आहिनि. गुरूअ जे ज्ञान बिना, पंहिंजीअ अंतरातमा खे सुञाणण जी दिरिष्टी उन्हनि में कान हूंदी आहे. अहिड़ा अंधा अभिमानी इन्सान पंहिंजे सरीर ते ई न बल्कि पंहिंजे धन ऐं ऊचे कुल या वंश/ख़ानदान ते पिणु अभिमानु कंदा आहिनि अहिड़नि अंधनि-अभिमानी इन्साननि खे पंहिंजे आत्म-स्वरूप जो ज्ञानु थी सघणु मुमकिन कोन हूंदो आहे. देहि, माया, कुल जो वीचारु न करे आत्म/आत्मा निस्बति सोचण जी समरथी उन्हनि में कान हूंदी आहे. तंहिंकरे अहिड़ा अभिमानी जीव मौत खे बिल्कुल वेझो डि॒संदे बि सुजागु॒ कोन था थियनि. कालु/मृत्यू तीरु-बा॒णु ताणे करे अची संदनि मथां बीठो आहे पर हू अभिमान जे करे डि॒सी कोन सघंदा आहिनि. हू बेध्याना हूंदा आहिनि.

सामी साहिब चवनि था त संसार में विरलो को गुरमुखु, गुरूअ जी आग्या ते हलंदडु॒ सावधानु-सुजागु॒-ख़बरदारु हूंदो आहे, जंहिंखे सत्गुरूअ आत्मज्ञानु डि॒नो हूंदो आहे. सत्गुरू ज्ञान जा सूरज/सिज हूंदा आहिनि. सत्गुरू पंहिंजे सचे शिष खे, गुरुमुख खे पूरनता प्रदान कंदा आहिनि. सचो शिषु सतगुरूअ सां मिली हिकु थी वञण खां पोइ विश्व जेडो॒ विशाल बणिजी वेंदो आहे, ज्ञान जो सूरजु हूंदडु॒ सतगुरू शिष जे अज्ञान जो अंधकारु हमेशह लाइ दूरि करे छडीं॒दो आहे. अहिड़े शिष खे न अभिमानु थिए ऐं न ई मृत्यूअ जो डपु. सत्गुरू पाण अमृत इंदो आहे ऐं हू शिष खे अमर-पद ते बिराजमानु करे छडीं॒दो आहे.

काल फिरै सिर ऊपरै, हाथों धरी कमान ।
कहै कबीर गहु ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान ।।

करियां कहिड़ो हालु, दरदवंदनि जे दिलि जो,
कुठा कुछनि कीनकी, लिंव लाए थिया लालु,
सदिके कयाऊं सिक तों, सामी तनु मनु मालु,
तनि के कोहु करींदे कालु, जे मरण खों अगे मुआ.

सामी साहिब चवनि था त जिनि जे मन में (ईश्वर जे विछोड़े-विरह जो) द्‌रदु आहे, अहिड़नि दर्‌दवंदनि जे दिलि जो, अंदर जो, मां कहिड़ो हालु बुधायां? अहिड़ा प्रभूअ जे प्रेम में कुसिजी (मारिजी) वियल प्रेमी वात मां हिकु अखरु बि कोन कढंदा आहिनि. हू ईश्वर सां लिंव लाए गाड़हा लालु थी विया आहिनि. हुननि प्रभू-प्रेम लाइ तनु मनु धनु अर्पणु करे छडियो आहे. आहिड़नि सचनि प्रेमियुनि/भक्तनि खे भला कालु (मैतु) छा करे सघंदो? छो त उहे मरण खां अगु में ई मरी चुका हूंदा आहिनि.

मनुष जे हिर्‌दे में प्रेम जी पवित्र भावना हुअण घुरिजे. प्रेमु हिकु अहिड़ो सोनहरी धागो आहे, जेको दिलि खे दिलि सां, मन खे मन सां ऐं आत्मा खे आत्मा सां जोड़े/बधी छडींदो आहे. प्रेमु मुक्तीअ जो दर्‌वाज़ो खोलण जी चाबी (कुंजी) आहे. ईश्वर सां कयलु पवित्रु ऐं हिक निष्ठा वारो प्रेमु परम सुखु डींदड़ हूंदो आहे. भगितीअ जो मूलु ततु ईश्वर निस्बति बेहदि प्रेमु ई हूंदो आहे. अंतरात्मा लाइ छिक पैदा थियणु ईश्वर-प्रेम आहे. ईश्वर जे दर्शन लाइ मांदो थियणु, ईश्वर सां मिलण जी तिखी इच्छा पैदा थियणु प्रेम जूं ई निशानियूं आहिनि. भक्तु पंहिंजे भावनाउनि जो इज़हारु कंदो आहे, जंहिं में प्रभूअ खां विछुड़ी वञण करे दर्द जो वर्णनु पिणु हूंदो आहे. विरह-अवस्था वारियुनि भावनाउनि जे लहरुनि जो वर्णनु अनेक संत-कवियुनि कयो आहे. परमेश्वर जे विरह में तड़पंदड़ प्रेमी भक्त (दर्दवंद) कीअं हूंदा आहिनि?

सामी साहिब उन्हनि जो हालु हींअं था बुधाइनि-अहिड़ा विरही जन, प्रभूअ जे प्रेम जो प्यालो पीअंदड़ परम प्रेमी पंहिंजे मुंहं मां हिकु लफ़्ज़ु बि कोन कढंदा आहिनि. भला जेके अंदर में कुसिजी, क़तलु थी, मरी चुका आहिनि, से छा गाल्हाए सघंदा? लालण जे लिंव में लालु ती वियल लालनि (भक्तनि) त ईश्वर प्रेम लाइ तनु मनु ऐं धनु सभु क़ुर्‌बानु करे छडियो आहे. उन्हनि पंहिंजे अंदरु मारे छडियो आहे, मन मां विकार कढी मनु ख़ाली करे छडियो आहे. उते सिर्फ़ु प्रभू रहे थो. परमेश्वर जो सचो आशिकु थियणु का सवली गाल्हि नाहे. उन लाइ सिर जो सांगो लाहिणो पवंदो आहे, मरण लाइ तयारु रहिणो पवंदो आहे; शरीर जे फ़ना थियण कां अगु ई मरणो पवंदो आहे. अहिड़नि खे मृत्यू (कालु) मारे कोन सघंदो आहे. छो त उहे जनम मरण जे चकर खां छुटी वियल, जीवन-मुक्त थियल हूंदा आहिनि.

करे नाचु नटी, माया मोहे सभ खे,
छड़े पीर फ़क़ीर खे, पापिणि पाड़ पटी,
संतनि विधुसि समुझी, गिचीअ में गटी,
वेठा खेप खटी, सुञ वसंव जे विच में.

माया नटी (नाटु कंदड़, बाज़ीगरि, खेलु कंदड़) नाचु/नृत्यु करे सभिनी पेई मोहे. माया पापिणि आहे, जा कंहिं खे कान छडे; चाहे पीरु/साधू/संतु हुजे चाहे फ़क़ीरु हुजे; सभिनी जी माया पाड़ ई पटे छडींदीआहे, उन्हनि खे नासु करे छडींदी आहे. मगर सचनि संतनि जाणी करे माया जे गिचीअ में घांघो (फाही) विझी खेसि पंहिंजे वस में करे छडियो. हुननि जणु को वडो जसाइतो,वीरता जो कमु कयो ऐं पोइ उहे सचा संत सुञ (शून्य) ऐं वसंव (लोक, संसार) जे विच में वञी वेठा.

अद्वैत वेदांत में निर्गुण ब्रह्म खे ई सारे जगत जो आधारु मञियो वियो आहे.कडहिं माया खे ब्रह्म जी शक्ती चयो विंयो आहे त कडहिं 'उपाधी'. मानॉ जेका जेतिरनि हंधनि ते हूंदी आहे, उन्हनि हंधनि जे शयुनि जो ज्ञानु कराए पाण अलगि रहंदड़ शइ. अद्वैत सिध्दांत में माया त्रिगुणात्मक, नामरूपमय ऐं सारे संसार जी बिज-शक्ती मञी वेंदी आहे. माया सां गडिजी (मिली) वञण करे ब्रह्मु (परमेश्वर) बहूरंगी ऐं सगुण रूप में भासमानु थींदो आहे. इन ई रूप में ब्रह्मु जगत जो कारणु बि बणिजंदो आहे. माया त्रिगुणात्मक भावरूप, अज्ञानयम ऐं बयानु करे सघण खां परे लेखी वेई आहे. माया सत्, असत् ऐं सद्-असत्-कंहिं बि रूप में बयानु नथी करे सघिजे. पोइ वारे अद्वैत साहित्य में माया जूं ब शक्तियूं बुधायूं वेऊं आहिनि- आवरण शक्ती ऐं विक्षेप शक्ती. आवरण/पर्देवारी शक्तीअ के कडहिं कडहिं अविद्या चयो वेंदो आहे त विक्षेप शक्तीअ खे माया. जगत जो कारणु हुअण करे कडहिं कडहिं माया खे 'प्रकृती' पिणु चवंदा आहिनि.

निर्गुणवादी ऐं सगुणवादी संतनि जे काव्य में 'माया' जो वर्णनु मिले थो. इहे संत कवी 'माया' जो इस्तेमालु 'भ्रम' जे लाइ कनि था. संत कबीर लाइ माया 'ब्रह्म की फँसरी' आहे. इहा मोहिणी ऐं 'महा ठगिनी' आहे, जंहिंजे वस में थियण करे सारो संसारु भरम में पइजी वियो आहे .माया ई साभिनी खे भ्रष्टु करे रही आहे ऐं सभिनी खे 'राम' खां परे करे रही आहे. तृष्णा रूप माया ज्ञान द्वारा, सत्गुरूअ जी किर्पा सां दूरि थी वञे थी.

सामी साहिब पिणु माया खे नाचु नचाईंदड़ नटीअ जे रूप में डेखरियो आहे, जेका सभिनी माण्हुनि के मोहे सत्यानासु थी करे छडे. निर्दई माया कंहिं खे कोन छडियो आहे. मगर सचा संत, ज्ञानी ध्यानी संत माया जे खेल खे सुञाणे माया खे पंहिंजे वस में करे था छडिनि. अंतर्ज्ञानी/ब्रह्मज्ञानी संतनि ते माया जो असरु कोन थो थिए, इन करे ई हू लोक ऐं परलोक जे विच में रही साक्षात्कार जो सुखु माणिनि था.

करे भाउ भग॒ति, सामी तरु संसारु तूं
ब॒ेड़ी करि वेसाह जी, चपो महबत मति,
सतिगुरु पुरुखु मलाहु करि, पतणु कढु कुमति,
साखी ज़ाणी सति, त पहुचें पारि भरम खों.

सामी साहिब चवनि था त हे मनुष, तूं भग॒वान जी भग॒ती करे हीउ भवसागरु तरण जी करि. इन लाइ तूं विश्वास जी ब॒ेड़ीअ में वेहु. जंहिं ब॒ेड़ीअ जो हथियो, वंझु (चपो), ब॒ेड़ी हलाइण जो ग॒नु मुहबत /प्रेम जो हुजे, ब॒ेड़ी हलाइण वारो मलाहु सतिगुरु हुजे. तूं कुमति रूपी, बुराईअ रूपी, कुबु॒ध्दीअ रूपी पतणु (भाड़ो) कढु ऐं पोइ सच (परमेश्वर) खे साखी ज़ाणी सफ़रु कंदें त भरम खां, सन्से खां पारि पहुची वेंदें.

अध्यात्म में भग॒ितीअ जी वॾी महिमा मञी वेई आहे. परमात्मा में मनु लग॒ाइण खे भग॒िती या उपासना चयो वियो आहे. जंहिंजो चितु परमेश्वर में लग॒लु आहे, तंहिंजे जीवन खे हिकु निरालो तेजु प्रापति थिए थो, उन तेज में अज्ञान, चिन्ता, डप, दुख, स्वार्थ ऐं कमिज़ोरी वग़ेरह ओझल थी वञनि था. सचे मन सा श्रध्दा रखी नामु जपण सां केईं कष्ट दूरि थी वञनि था.

इन्सान खे संसाररूपी सागरु तरी करे मोखु प्रापति करिणो आहे. हिन कूड़े, भ्रममय संसार मां ब॒ाहिर निकिरी सघण लाइ सत्गुर जी किर्पा हासिल करे उन जी मदद वठिणी आहे. मन मां, अंदर मां अंधकारु,अग्यानु कढिणो आहे, तॾहिं ई मक़्सदु प्रापति थी संघदो. इहा ग॒ाल्हि सवले नमूने समझ़ाइण लाइ सामी साहिब रूपक जो इस्तेमालु कयो आहे. संसार जो सफ़रु इएं आहे, जीअं ब॒ेड़ीअ में वेही दरियाहु या नदी पारि करणु, हुन भरि वञणु. संसाररूपी भवसागरु पारि करणु ॾाढो कठिन आहे. इन लाइ सुठी ब॒ेड़ी ऐं सचो मलाहु (ब॒ेड़ी हलाईदॾु) घुरिजे. वंझु बि सही ऐं मज़िबूतु खपे. ईश्वर जो नालो खणी सफ़रु शुरू करणु घुरिजे.

सामी साहिब चवनि था त हे इन्सान, तूं परमेश्वर जी भग॒िती करे भवसागरु तरण जो जतनु करि. तूं विश्वासरूपी ब॒ेड़ीअ में वञी वेहु. उन ब॒ेड़ीअ खे हलाइण वारो सतिगुरू ई हुअणु घुरिजे. पारि पहुचाइण वारो सतिगुरूअ जहिड़ो मलाहु ब॒ियो कोई कोन्हे. पंहिंजो हिर्दो साफ़ु रखु. मन मां बुराई, विकार वग़ेरह कढी छॾण सां ई हिर्दो निर्मलु थी पवंदुइ. पोइ तूं

केड़ी वड़ाई गणियां पुरिख दयाल जी,
जंहिं रखी हथु मथे ते, ममत मिटाई,
मूरत महबूबनि जी, अनभइ में आई,
सामी सभोई, विसु वसे जंहिं आसिरे.

सामी साहिब पंहिंजे सत्गुरूअ जी महिमा जो वर्णनु कंदे चवनि था त मां दयालू सत्पुरुष जी, सत्गुरूअ जी (सचनि संतनि जी पिणु) महानता कहिड़नि लफ़्ज़नि में ऐं केड़ी बुधायां ? सत्गुरूअ मूंते दया करे, मुंहिंजे मथे ते आसीस जो हथु रखी मुंहिंजे अंदर वारी, हिर्दे वारी ममता (आसक्ती, मोहु वग़ेरह) मिटाए छड़ी. मुंहिंजो मनु विकारनि खां मुक्त थी वञण करे मूंखे पंहिंजे महबूब, प्रीतम परमेश्वर जो अनुभवु थियो. मूं अहिड़े परब्रह्म परमात्मा खे महसूसु कयो, जंहिंजे आसिरे (आधार) ते हीउ विश्वु पियो थो हले.

संत सचे अर्थ में भगवान खे जाणंदा आहिनि. हू समाज में रहंदे माण्हुनि खे भगवान जी याद ड़ियारींदा आहिनि. उन्हनि खे सच जो बोधु थियलु हूंदो आहे ऐं हू समाज खे सच जी राह ड़ेखारींदा आहिनि. सारे संसार मथां संतनि वड़ा उपकार कया आहिनि.परमात्मा खे पाइण लाइ उन्हनि नाम-स्मरण जो सवलो साधनु ड़ेई संसारी माण्हुनि ते वड़ा थोरा कया अहिनि. सत्गुरू पिणु अहिड़ा ई महान आहिनि. सत्पुरुषु, सत्गुरू पंहिंजे शिष खे इन गाल्हि जो अहसासु, बोधु कराईंदो आहे त 'तूं भगवान जो ई रूप आहीं, पंहिंजे निज रूप खे सुञाणण जो जतनु करि' संतनि, सत्गुरुनि जे शरणि में वञण सां हू असां ते दया करे मन जो अंधकारु, अज्ञानु मिटाए परब्रह्म, परमात्मा जो अनुभवु कराईनि था. पोइ उन महबूब जा दर्शनु थिए थो, जंहिं हीउ जगतु निर्माणु कयो आहे ऐं जंहिंजे आधार ते हीउ जगतु टिकियलु आहे. सत्पुरुष जी, सत्गुरूअ जी वड़ाई बुधाईंदे संत कबीरु हिन दोहें में चवे थो,

गुरू समान दाता नहीं, याचक शीष समान।
तीन लोक की सम्पदा, सो गुरु दीन्ही दान।।

गुरू दाता आहे, ड़ींदड़ु आहे त शिषु वठंदड़ु आहे. गुरू पंहिंजे शिष खे टिन्ही लोकनि जी सम्पत्ती ड़िए थो. मगर सामी इन खां मथे वञी चवे थो त सत्गुरू साख्यात परमेश्वर जो अनुभवु या दर्शनु कराए थो.

केडी वडाई गणियां, सापुरिसनि जी,
सम दरसी सीतलु सदा, सभ जा सुखदाई,
ममता मैलु अंदर में, रखनि न राई,
सामी सदाई, कनि उपकार अचाहु थी.

सामी साहिब चवनि था त मां सत्पुरुष (संतनि) जी महानता केडी बुधायां ? (साधू-संतनि जी महानता गणण खां परे आहे.) संत सजण सदाईं समदर्शी (सभिनी खे हिक ई, समान नज़र सां डिसंदड़) हूंदा आहिनि. साधू-संत शीतल सुभाव वारा हूंदा आहिनि, हू सभिनी खे सुखु डींदड़ हूंदा आहिनि. हू पंहिंजे मन में तिरु /ज़री बि ममता या मेराणि (बुराई) कान रखंदा आहिनि. सत्पुरुष, साधू जन इच्छा रहित बणिजी सदाईं सभिनी जी भलाई कंदा रहंदा आहिनि.

सचा संत समाज जा सूंहां ऐं सूंहं हूंदा आहिनि. संतनि जी महिमा जो वर्णनु सही शब्दनि में करे सघणु डुखी गाल्हि आहे. तडहिं बि अनेक धर्मी ग्रंथनि में संतनि जी महिमा बुधाइण जी कोशिश कई वेई आहे. ख़ास करे संतनि जे सुभाव, विर्तीअ ऐं महान कार्यनि जो वर्णन कयो वियो आहे. हिते हिन सलोक में पिणु सामी साहिब सत्पुरुषनि, संतनि जे वडिपण जो बयानु कंदे सचनि संतनि जूं के निशानियूं बुधायूं आहिनि. संतनि में बेशुमार गुण हूंदा आहिनि. मराठी संत रामदास स्वामीअ त सम दिरिष्टीअ वारे खे ई संतु सडियो आहे. चे 'समदृष्टी तो संत'. संत एकनाथ जो चवणु आहे त 'साधू संत निरपेक्ष हूंदा आहिनि, कंहिं गालहि जी चाहना /इच्छा मन में कोन रखंदा आहिनि. संदनि चित्तु परमेश्वर में लगलु हूंदो आहे.संत समदर्शी हूंदा आहिनि. हू मनुष देहि में हूंदे बि विदेही हूंदा आहिनि. संत बियनि ते उपकारु कंदड़ हूंदा आहिनि.'

वेदान्ती सिंधी महाकवी सामी साहिब पिणु संतनि जी महिमा गाईंदे लगभग इहे ई गुण बयानु कया आहिनि. इहा हक़ीक़त आहे त संत समाज जे कल्याण जो, परोपकार जो महान कार्यु कंदा रहंदा आहिनि. शायद इन करे ई हू मनुष देहि धारणु करे हिन लोक में ईंदा आहिनि. संत हलंदड़ चलंदड़ देवता लेखिया विया आहिनि. अहिड़नि सचनि संतनि में स्वार्थु न बल्कि परमारथु भरियलु हूंदो आहे. हू सभिनी खे समान लेखींदा आहिनि ऐं सभिनी खे सुखु डियण जो जतनु कंदा रहंदा आहिनि. संदनि मन में ममता, मोहु आदि विकार न बल्कि शीतलता भरियल हूंदी आहे. संत कामना रहित, परोपकारी महात्मा हूंदा आहिनि. परमार्थी

सरवर, तरवर, संत जन, चौथा बरसे मेह ।
परमारथ के कारने, चारों धारी देह ।।

केतिरी गाणियां, महिमा साध संगति जी,
सिध साधक जोगी जती, गावनि सहस फणियां,
जनक सनिक सुकदेव दत, सामी दास बणियां,
जनि खे वाक वणियां, से सभेई सुधिरिया

सामी साहिब चवनि था त मां साधू-संतनि जे संगति जी केडो महिमा बुधायां? साधू-संतनि जी महिमा त सिध्द, साधक, जोगी, यती (जती) ऐं शेष नांगु पिणु गाइनि था. राजा जनक, महर्षी सनक, रिषी शुकदेव ऐं दत्तु (दत्तात्रेय) त महान साधू संतनि जा दास (शेवक) बणिया हुआ. अहिड़नि आत्मज्ञानी ऐं ब्रह्मज्ञानी संतनि जे संग - संगति में जिनि खे संदनि वचननि जो लाभु हासिल थियो, उहे सभई मनुष सुधिरी विया, संदनि जीवनु सफलु थी वियो.

भगिती मार्ग जे सिध्द पुरुषनि के 'संत' चयो वियो आहे. भगवान जे भक्त, परोपकारी या साक्षात्कारी संत खे 'साधू' चवंदा आहिनि. साधू-संतनि जी महिमा पिणु वडी लेखी वेई आहे. संत-साहित्य में साधू - संतनि जूं अनेक ख़ासियतूं (गुण) बयानु कयूं वयूं आहिनि. मोख-प्राप्तीअ जो, आत्म-उध्दार जो सभिनी खे सवलो रस्तो (नाम-भक्ती, गुरू-भक्ती) डेखारणा वारा संत आत्मज्ञानी हूंदा आहिनि. परब्रह्मु, परमेश्वरु बेहदि दुर्लभु (अणलभु) हूंदो आहे. संतनि जी कृपा सां परमेश्वरु हासिल थी सघे थो. चम जे अखियुनि सां ऐं सिज जे प्रकाश में ज़ाहिर ज़हूरु परमेश्वरु आम माण्हुनि खे डिसण में कोन ईंदो आहे. मगर साधू संतनि जी कृपा थियण ते परमात्मा जो दर्शनु थी सघे थो. छो त संत आत्म-स्वरूप हूंदा आहिनि. संत ई आत्मज्ञानु कराए सघनि था. आत्मज्ञान जो दानु डेई संत अनेक जीवनि (इन्साननि) खे मुक्तु कनि था. अहिड़नि समर्थ संतनि जी संगति थियणु पिणु भाग जी निशानी आहे.

ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, नामदेव-तुकाराम आदी संतनि जी कविता में संतनि जी महिमा ऐं संतनि जे संगति जी वडाई (महानता) वर्णनु कई वेई आहे. समर्थ रामदास स्वामीअ पिणु संतनि जी महिमा बधाईंदे उन्हनि खे संपूरन सुख ऐं संतोष जो, आनंद जो बुनियादु (मूलु) चयो आहे. सामी साहिब पिणु बुधाइनि था साधू-संतनि जे संगति (सत्संग) जी महिमा गणण खां परे आहे. हज़ार मुखनि वारो शेष नांगु पिणु सत्संग जी महानता गाए थो. राजा जनकु, महर्षी सनक, राजा जनक वटां ब्रह्मज्ञानु प्रापति कंदड़ु शुकदेवु, अत्री महर्षी ऐं अनुसूया जो पुटु दत्तात्रेय इहे सभु संतनि जा शेवक बणिया हुआ; सभिनी साधू संतनि जी शेवा कई हुई. सत्संग जो लाभु पिराए सभिनी जो जनमु सफलु थी वियो. हक़ीक़त में संतनि जहिड़नि साक्षात्कारी सजणनि जी संगति हासिल थियण करे ई जीव (मनुष)के मोखु मिली सघे थो.

गुरमुखु कीन छपे, सूरिज जां संसार में,
जंहिंजा छडि़या सत्गुरूअ, बंधन सभि कपे,
लुअं लुअं जापु जपे, अखंड आतम राम जो.

सामी साहिब चवनि था त सत्गुरूअ जे वचननि ते हलंदड़ु शिषु पाण खे चाहे केतिरो बि लिकाइण जी करे पर हू किथे बि लिकी, छिपी कोन सघंदो. सूरज जियां हू सभिनी खे नज़रि ईंदो आहे. अहिड़े गुरमुख जा, सचे शिष जा सभई बंधन सत्गुरूअ कपे छडि़या हूंदा आहिनि ऐं पोइ हू सदाईं अखंड रीति सां राम जो नालो जपींदो रहंदो आहे. संदसि लुअं लुअं,रोमु रोमु आत्मराम जो जपु कंदो रहंदो आहे. अहिड़े नमूने गुरमुख पंहिंजे आत्मस्वरूप सां एकाकारु थी वंदो आहे.

सत्गुरू शक्तीरूपु ह्ंदा आहिनि. सत्गुरू निर्गुण निराकार ईश्वर जो दर्शनु कराईंदा आहिनि. हू पंहिंजे शिष खे परब्रह्म जो बोधु कराईंदा आहिनि. सत्गुरू पंहिंजे सचे शिष जा बंधन कटे छडींदा आहिनि. अहिड़े नमूने सत्गुरू पंहिंजे शिष ते, गुरमुख ते उपकारु कंदा आहिनि. अहिड़ो गुरमुख पाण खे किथे लिकाए कोन सघंदो आहे.जीअं सिजु किथे कोन लिके, तीअं सचो शिषु पिणु ज़ाहिर हंदो आहे. संसार जे बंधननि खां छुटलु हुअण करे हू सिर्फ़ु परमात्मा जो अखंडु नामु जपींदो रहंदो आहे; संदसि लुअं लुअं नामु जपण में लीनु थियल ह्ंदी आहे.

गुरमुख खे, शिष खे आत्मज्ञानु डींदड़ सत्गुरूअ ज बारे में संत तुलसीदास पिणु चवे थो -

तुलसी सतगुरू के अहहि, आनंद मय उपदेश ।
संसय रोग नसाय सब, पावै न पुनि कलेस ।।

जंहिं शिष जा सभई संशयरूपी रोग/ मर्ज़ सत्गुरू अ जो उपदेशु बुधण सां ऐं उन ते हलण

घर में रामु रहे, मूरखु फोल्हे दह दिसा,
जप तप साधन जोग॒ में, सामी देहि दहे,
नाहक़ु दुख सहे, थो पुठी ॾेई पाण खे.

सामी साहिब चवनि था त रामु (परमेश्वरु) त असांजे घर (हिर्दे) में ई रहे थो मगर मूरखु (अग्यानी) मनुषु राम खे ॿाहिर ॾहनि दिशाउनि में थो ग॒ोल्हे. जप-जाप,तपस्या, अनेक साधनाउ नि ऐं जोग॒ द्वारा परमेश्वर खे पाइण जो जतनु करे पंहिंजे शरीर खे पियो थो जलाए. मूरखु इन्सानु पंहिंजे पाण खे पुठी ॾेई, पाण खां परे भज॒ी, ॿियनि हंधनि ते परमेश्वर जी तलाश कंदो रहे थो ऐं अजाई दुख पियो थो सहे.

संसार में बेशुमार मूरख माण्हू ॾिसण में अचनि था, जिनि खे आत्मॿोधु कोन थी सधियो आहे. माया में फासी 'मां' ऐं 'मुंहिंजो' मञीदंड़ जीव अगर कॾाहिं परमेश्वर खे प्रापति करण जी चाहना रखनि था त हू ग़लति दिशा वठनि था. आत्मज्ञान जे न हुअण करे हू ईश्वर जी तलाश पंहिंजे घर खां, शरीर खां ॿाहिर था कनि. ॿियनि खे ॾिसी हू बि जप, तपस्या, साधनाऊं कनि था या योगु पचाइनि था. दर असल इहे मार्ग अपनाइण सां शरीर खे दुख सहिणा पवंदा आहिनि. योग में त शरीर खे कष्ट ॾियणा पवंदा आहिनि. के माण्हू घरु-ॿारु त्याग॒े कंहिं झंगल या गुफ़ा में वञी तपस्या कंदा आहिनि, जा पिणु सरीर लाइ तकिलीफ़ वारी हूंदी आहे. पंहिंजा पाप धुअण लाइ, पोइ प्रभूअ खे पाइण लाइ या मोख जी कामना रखी के तीर्थ यात्राऊं पिणु कंदा आहिनि. ईश्वर जी तलाश पहाड़नि ते वञी करण वारा बि घणाई मिलंदा. उते बि त सरीरु ग॒ारिणो पवे थो. याने इहे सभु मार्ग इन्सान खे तकिलीफ़ ॾींदड़ थियनि था.

तंहिंकरे सामी साहिब (ऐं ॿिया अनेक संत पिणु) चवनि था त परमात्मा घर में ई अथव, पंहिंजे मन में ई अथव, अजाई ॿाहिर ॾहनि दिशाउनि में परमेश्वर जी ग॒ोल्हा न कयो. इन सां सरीरु डही पवंदुव. परमेश्वर खे पंहिंजे अंदर में ॾिसो. इन लाइ विवेकु धारियो. परमात्मा जो नाम-स्मरणु कयो. परमात्मा हर जीव में, हर पदार्थ में व्याप्त आहे; उन खे ग॒ोल्हण लाइ परे वञी दुख न पायो.

कस्तूरी तन में बसै, मृग ढूँढै बन मांहिं।
ऐसे घट-घट राम हैं, दुनिया देखे नाहिं।।

घुरें कोहु घणी, मूरख माया राम खों,
विया पिटींदा केतिरा, मुंहं ते हथ हणी,
तूं भी नींदे कान का, कोडी साणु खणी,
सारि संभारि धणी, त सुखी थिएं सामी चए.

हे मूरख मनुष, तू राम (ईश्वर)खां घणी माया (धनु दौलत) छो थो घुरीं ? अड़े, केतिरा ई माण्हू पंहिंजे मुंहं ते हथ हणी पिटींदा हलिया विया. (पछिताए ख़ाली हथें हलिया विया.) तूं बि मथे वञण वक़्ति हिक कोडी बि साणु खणी कोन वेंदे. सामी सहिब चवनि था त हे इन्सान, इन करे तूं सवेल ई धणीअ खे (परमेश्वर खे) यादि करि त सुखी थिएं. परमेश्वर जो सुमिरनु करण सां ई तोखे सचो सुखु मिलंदो.

दुर्लभु मनुष जूणि नसीबनि सां, पुञनि सां मिले थी. मनुष जो जनमु पाए असीं पोइ माया-जार में फासी था पऊं. पंहिंजो जनमु सफलो करण बदिरां, मोख-मुक्तीअ जी कामना करण बदिरां मनुषु खिन पल जे सुखनि जे पुठियां पई सचे सुख खां परे थो हलियो वञे. इन्सान जो मनु सदाईं कामनाउनि-इच्छाइनि सां भरियलु रहे थो. इहे इच्छाऊं इन्सान खे पेऊं नचाईंदियूं आहिनि. लोभु ऐं मोहु वधी वियो मानॉ इच्छाऊं पैदा थियूं समुझो. पंहिंजूं इच्छाऊं पूरियूं करण जे धुनि में चिंताइनि जा बादल अची इन्सान खे घेरो करे था वञनि. चिन्ताउनि जे अचण सां हू सुख-संतोष खां महरूमु थो रहिजी वञे.

मनुषु पंहिंजियुनि कामनाउनि खे पूरो करण ला ईश्वर जे दर ते वञे थो. भगवान खां हू माया थो घुरे, धनु-दौलत थो घुरे. इन्सानु समुझंदो आहे त धनु अचण-मिलण खां पोइ हू संसार जा सभई सुख प्रापति करे सघंदो. मगर सुठे या बुरे मार्ग द्वारां अथाहु धनु कमाइण खां पोइ बि हू सुखी कोन थो रहे. उल्टो माया मनुष खे अञां मोह में विझी नचाए थी, ऐं हू रुञ, मृगजल जे पुठियां डुकंदो रहे थो. पछाड़ीअ जो हू हीउ संसारु छडे वञेथो - ख़ाली हथनि सां, सचो सुखु पाइण बिना !

इन करे सामी साहिब अहिड़नि माया जे मुरीदनि, मूरख मनुषनि खे समुझईंदे चवनि था, तव्हां परमेश्वर खां एडी घणी माया/दौलत छो था घुरो? माया ओतिरी हुअणु घुरिजे जेका ज़िंदगी सुठे नमूने सुख सां रहण लाइ काफ़ी हुजे. हद खां वधीक धनु विकारनि जो घरु हूंदो आहे. को बि इन्सानु मुए खां पोई हिकु पैसो बि पाण सां खणी कोन वेंदो. हिते ई सभु दुनियवी पदार्थ छडे मथे हलिया विया. तूं फ़क़ति सची भवना रखी ईश्वर जो सुमिरनु करि. जनमु सफलु करि, न त पछिताइणो पवंदुइ. तंहिंकरे

कालि करंता आज कर, आज करै सो हाल ।
पीछे कछू न होयगो, जो सिर आवै काल ।।

चङा से चइजनि, चङो जनीं जे चित में,
बुराईअ कंहिंजीअ डे॒, सामी कीन डि॒सनि,
दया दिरिष्टी रखी करे, सभ ते किर्पा कनि,
सदा सम रहनि, इस्थिति आतम पद में.

चङे, सुठे, भले मनुष जा उहिञाण बु॒धाईंदे सामी साहिब चवनि था त चङो (सुठो) माण्हू उन खे चवणु घुरिजे, जंहिंजे (जनि जे) मन में चङो (चङाई) स्थित आहे, अंदर में सुठाइप आहे. अहिड़ा चङा/ सुठा इन्सान कंहिंजी बुराईअ डा॒हुं नज़र कीन कंदा आहिनि. हू पंहिंजे मन में दया जी दृष्टी धारे सभिनी ते किर्पा कंदा आहिनि. पंहिंजे अंदर में, आत्म - पद में मगनु रहंदे कंहिं सां भेदु - भावु न कंदे सभिनी सां हिक जहिड़ी हलति हलंदा आहिनि.

संसार में अनेक क़िस्मनि जा माण्हू हूंदा आहिनि. सुठा - खराबु, मूरख - ज्ञानी, सियाणा- अयाणा, पुञवान - पापी, निमाणा अहंकारी वग़ेरह सभु ईश्वर ई उपाया आहिनि, इन्हनि भांति भांति जे इन्साननि में के गुणवान, उत्तम गुणनि वारा, चङा ऐं परोपकारी माण्हू पिणु हूंदा आहिनि. विवेकवान हुअण करे अहिड़ा इन्सान संत - सुभाव वारा थियनि था. इन्हनि सुठनि, चङनि मनुषनि जो वर्णनु सामी साहिब पंहिंजे इन सलोक में कयो आहे. चङो माण्हू कंहिंखे चवणु घुरिजे ? चङे माण्हूअ जूं निशानियूं कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि? सामी साहिब जे लफ्ज़नि में-

जिनि मनुषनि जे मन में चङाई, सुठाई, भलमानसाई हूंदी आहे, उन्हनि खे 'चङो', भलो, सुठो चवणु घुरिजे. अहिड़ा भला माण्हू कड॒हिं बि बि॒ए कंहिंजीअ बुराईअ खे डि॒सनि, न कंहिंजी बुराई कनि ऐं न ई कंहिंजा ऐब उघाड़ा कनि. अहिड़ा दयालू पुरुष सभिनी ते दया / किर्पा कंदा आहिनि. उहे परोपकारी जीव हूंदा आहिनि. कंहिं बि क़िस्म जो अहंकारु न कंदे हू सभिनी जो भलो करण जी कोशिश कंदा आहिनि. अहिड़ा दयावान कड॒हिं बि न कंहिंजी गिला कनि ऐं न ई कंहिंखे डु॒खोइनि. पाप-कर्म खां परे रहंदड़ अहिड़ा चङा माण्हू सम दृष्टीअ वारा हूंदा आहिनि. भेदभावु न कंदे सभिनी सां हिक जहिड़ी हलति हलंदा आहिनि, साण-साणु हू निष्कपटु हूंदा आहिनि. दर असल चङा माण्हू पंहिंजे मन-मंदर में आत्मा/ परमात्मा में ई हिकरूप बणिजी वियल हूंदा आहिनि. सच जी राह ते हलंदड़ इहे सच सां ई लिंवलीनु थियणु चाहिंदा आहिनि. विकारनि रूपी पंज दुश्मन हुन जे वेझो बि कोन ईंदा आहिनि.

मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।
तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर ।।

चंचल, चोर, चुग़िल, सचु सुञाणनि कीनकी,
खोहिनि ख़ाम ख़ियाल सां, मानुखु जनमु अमुलु,
सचारनि सोधे लधो, अन्भइ घरु असुलु,
कटे कलिपत कुलु, सामी माणिनि सांत सुखु.

चंचल माण्हू, चोर ऐं चुग़िलियूं हणंदड़ इन्सान सच (परमेश्वर) खे कोन सुञाणंदा आहिनि. अहिड़ा मनुष पंहिंजो अनमोल / अमुल्हु जीवनु अजाई ख़यालनि में विञाए छड॒िनि. मगर जेकी सचा इन्सान आहिनि, उन्हनि अनुभव (ज॒ाण/ ग्यान) द्वारां पंहिंजो असुली घरु (परमात्मा) सही करे, सुञाणे ग॒ोल्हे लधो. हाणे हू अंदर मां सन्सा (भरम / कूड़ा ख़याल) कढी असुली शांतीअ जो सुखु पिया था माणिनि.

मनुष जी जूणि मिलणु पुञनि ऐं भाग॒नि जी निशानी आहे. मनुष- जनमु अमुल्हु हूंदो आहे. इहो जनमु बार - बार कोन मिलंदो आहे. वण मां किरियलु फलु वरी वण में कोन लग॒ी सघंदो आहे. मनुष - शरीरु पिणु ब॒ीहर हासिल कोन थींदो आहे. तंहिंकरे इन हीरे जडिड़े क़ीमती जीवन खे सजायो करणु घुरिजे. शास्त्र ऐं संत - महात्मा चवनि था त चोरासीअ जे चकर खां ब॒ाहिर निकिरण लाइ मनुष - शरीरु मुख्यु द्वारु आहे. इन करे भग॒िती करे, नामस्मरणु करे, गुरूअ खां ज्ञानु वठी राम खे रीझाइणु खपे.

सन्सार में ब॒िनि क़िस्मनि जा जीव / मनुष रहनि था - ज्ञानी, सियाणा ऐं अज्ञानी या अयाणा. जिनि खे आत्मब॒ोधु कोन थियलु हूंदो आहे, उहे अज्ञानी आहिनि. समाज में नज़रि ईंदड़ चंचल विर्तीअ वारा, चोरी कंदड़ ऐं चुग़लियूं हणंदड़ इन्सान पिणु अज्ञानी हूंदा आहिनि. उन्हनि खे सच (आत्मा, ईश्वर) जी पहचाण कान हूंदी आहे. आत्मा, परमात्मा जो दर्शनु करे सघण लाइ मनुष खे एकागर चित्त वारो बणिजणु घुरिजे. जेको एकागर चित्त वारो नाहे उहो चंचल मन वारो हूंदो आहे. पंहिंजी हयातीअ जो घातु कंदड॒ चंचल माण्हू कड॒हिं पको इरादो, निश्चो कोन करे सघंदो. चिंताउनि ऐं सन्सनि - भरमनि में फाथलु इन्सानु आत्मज्ञानु हासिल करे कोन सघंदो. चंचलता मूर्खनि जी निशानी आहे. चोरी कंदड़ ऐं हिन जी ग॒ाल्हि हुन खे, हुन जी ग॒ालहि हिन खे बुधाईंदड़, चुग़िल या गिलाख़ोर इन्सान पिणु अहिड़ा ई कूड़ जी कमाई कंदड़ तथा सच खां परे हूंदा आहिनि. कूड़ जे कुन में फासी पियल अहिड़नि कारनि खे अमुल्ह देहि / मनुष जूणि जो अहसासु कीअं थींदो ?

मगर जेके सचा इन्सान हूंदा आहिनि, जिनि खे आत्मा जो दर्शनु करण जी, परमात्मा खे पसण जी इच्छा हूंदी आहे, अहिड़ा साधक तलाश करे पंहिंजी मंज़िल पाण ग॒ोल्हे लहंदा आहिनि, अंदर जो ज्ञानु, आत्मज्ञानु हासिल कंदा आहिनि, सत्गुरूअ जी शरणि वठी अंदर जा सन्सा-भरम कढी छड॒ींदा आहिनि ऐं पोइ सच / आत्मा/ परमात्मा खे पाए परम शांती ऐं परम सुख - संतोष जो आनंदु माणींदा आहिनि.

छह अठरहं चारि, ग॒ाल्हि चवनि था हिकिड़ी
भग॒ति करे भग॒वान जी, नाना भरम निवारि,
मिली माया मोह सां, हीरो जनमु न हारि,
साझुरि पाणु संभारि, मतां पवें पोइ ड॒ुखनि में.

वेदांती कवी सामी साहिब वेदनि-पुराणनि जो हवालो (संदर्भु) ड॒ींदे मनुष खे समझाईंदे चवनि था- वेद शास्त्र पिणु इहा हिकिड़ी ग॒ाल्हि चवनि था त तूं परमात्मा जी भग॒िती करे पंहिंजा क़िस्में क़िस्में जा भरम दूर करि. अड़े, तूं माया जे मोह में फासी पंहिंजो हीरे जहिड़ो अमोलक जनमु अजायो न विञाइ. इहा ग॒ाल्हि महसूस करे सवेल ई पाण खे संभाले वठु, सुजाग॒ु थीउ न त पोइ ड॒ाढो ड॒ुखनि में पइजी वेंदें.

दर्शन या दर्शनशास्त्र (फिलासॉफ़ी) में ब्रह्म, जीव, प्रकृतीअ जो बयानु हूंदो आहे. इहे छह आहिनि- न्यायशास्त्र, वैशेषिक, सांख्यदर्शन, योगशास्त्र, मीमांसा ऐं वेदांत (उपनिषद आदी वेद जा आख़रीन हिसा, जिनि में जग॒त, आत्मा ऐं ब्रह्म जी समुझाणी ड॒िनल आहे.) हिन्दुनि जा धर्म निस्बति १८ ग्रंथ आहिनि, जिनि खे पुराण चयो वियो आहे- जीअं ब्रह्मपुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण वग़ेरह १८ पुराणनि में चार लख सलोकनि में सिरिष्टी जी पैदाइश ऐं प्रलइ (नास) जो वर्णनु कयलु आहे. अध्यात्म, धर्म, ब्रह्म आदी विषयनि जो बयानु कंदड़ ग्रंथ आहिनि वेद. वेद ४ आहिनि - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ऐं अथर्ववेद.

महाकवी सामी साहिब जनि पंहिंजे श्लोकनि में इनहनि सभिनी ग्रंथनि जो सारु या ततु ब॒ुधायो आहे.

मथिएं सलोक में पिणु इहा ई ग॒ाल्हि आखिनि था त इहे सभई प्राचीन हिन्दू ग्रंथ हिक ई ग॒ाल्हि था चवनि -हे जीव (इन्सान), ईश्वर जी भग॒ितीअ द्वारां पंहिंजा सन्सा मिटाइ. तोखे हीउ अनमोल मनुष-जनमु मिलियो आहे, तंहिंखे अजायो बर्बाद न करि. तूं सवेल ई सुजाग॒ु थीउ, साध-संगति सां मिली अंदर में ग्यान जो प्रकाशु फहिलाइ; परमेश्वर खे ज॒ाणण जी कोशिश करि, जनमु सफलु बणाइ. न त पोइ अनेक दुख भोग॒ण जो वारो ईंदुइ ऐं पोइ पियो पछिताईंदें!

जग॒ में वसनि ठग॒, भारी पंज भरम जा,
मोहे मारे मति खसे, सभ के कनि डगमग,
के सुजाखा सूर्मा,रहनि ऐन अलग॒,
सामी थी सर ब॒ंग, माणिनि मौज मुकिति जी.

संसार में भरम जा पंज वड॒ा ठग॒ (ठोगी॒) रहनि था-कामु, क्रोध, लोभु, मोहु, अहंकारु. इहे विकार इन्सान खे मोहे, मारे, मति खसे हुन खे डांवाडोलु था करे छड॒िनि, अस्थिर था बणाए छड॒िनि. मगर संसार में के विर्ला शूर वीर हूंदा आहिनि, जे पूरीअ तरह अलगि॒ रही अंतरात्मा जियां सर्वज्ञ, सर्वव्यापक बाणिजी, अंतर्ज्ञानु पिराए मोख-मुक्तीअ जो आनंदु माणींदा आहिनि.

का शइ जीअं आहे तीअं न समुझण (ज॒ाणण) खे भरमु चवंदा आहिनि. अध्यात्म या परमार्थ जे खेत्र में पिणु भरमु (भ्रम) लफ़्ज़ु इस्तेमालु थिए थो, संतनि जे साहित्य में आयल अज्ञानु, विपरीत ज्ञानु, भ्रांती वग़ेरह लफ़्ज़ 'भरम' जा ई ब॒िया नाला आहिनि. मायारूप संसार खे सचु समुझी करे हलणु पिणु हिक क़िस्म जो भरमु ई आहे. 'देहोऽहं'(देहि मानॉ मां) जो अभिमानु संसार जे भरम जो मूलु आहे. 'सोऽहं' (मां उहो आत्मा अहियां) जो आत्मज्ञानु थियण कां पोइ ई जीव जो भरम मां छोटिकारो थिए थो.

माया आभासु आहे. हक़ीक़त में उहा आहे कान . तड॒हिं बि उहा रुञ वांगुरु लगे॒ थी. अविद्या पिणु आभासु पैदा कराईंदड़ शक्ती आहे. माया ऐं अविद्या जो स्वरूपु हिक जहिड़ो आहे. अविद्या माया वांगुरु ई जीव के ब॒न्धन में विझण वारी आहे. इहा मायावी ऐं फ़रेबी आहे, कूड़ी आहे. भरम इन जा ई हथियार आहिनि. जीअं कबीर साहिब माया खे 'ठगि॒णी' चयो आहे, तिअं सामी साहिब पंजनि भरमनि खे 'ठग॒' जे नाले सां कोठियो आहे. कम, क्रोध, लोभु, मोहु आदी विकार ई इन्सान खे दुखनि में विझी, संदसि मति खसे अस्थिर, डांवाडोलु था करे छड॒िनि मगर के सुजा॒गु॒ वीर हिन संसार में थियनि था, जेके बिल्कुल अलगि॒, अलिप्तु रहनि था. उन्हनि ते माया या अविद्या जो को बि असरु कोन थो थिए. गुरूअ जे ज्ञान द्वारां अंतर्ज्ञानु हासिल कयल अहिड़ा बह्मज्ञानी परमेश्वर जियां सर्वव्यापक, सर्वज्ञ (ज॒ाणी ज॒ाणणहार) बणिजी, मुक्तीअ जी/मोख जी मौज माणे सघंदा आहिनि. परमेश्वर जो साक्षात्कारु करे, प्रीतम परमेश्वर जो दर्शनु करे उन सां ई गडु॒ वेही अलोकिक आनंद जो अनुभवु कंदा आहिनि. इहा परमेश्वर सां मिली हिकु थी वञण जी

भ्रम का ताला लगा महल रे, प्रेम की कुंजी लगाव ।
कपट-किवाड़िया घोल के रे, यह विधि पिय को जगाव (कबीर)

जिएं कंवल खिली, कनि ख़ुशबूइ ख़ुशीअ सां,
तिएं साधू डियनि सभ खे, अन्भई अण मुल्ही,
वठनि विधि वेसाह सां, के आशिक़ असुली,
मेटे कलिप कुली, सामी अचनि संतोख में.

जहिड़ीअ रीति कमल जा गुल टिड़ंदा आहिनि ऐं पोइ ख़ुशीअ सां पंहिंजी खुश्बूइ वातावरण में फहलाईंदा आहिनि, तहिड़ीअ तरह सचा साधू संत पिणु सभिनि मुनषनि खे अणमुल्हो (बेहदि क़ीमती) ग्यान जो प्रकाशु डियनि था. साधू संतनि खां अहिड़ो ज्ञानु के असुली आशिक़ (प्रेमी भक्त) विश्वासु रखी विधीअ सां वठनि था. सामी साहिब चवनि था त अहिड़ा प्रभूअ सां प्रेमु कंदड़ सचा प्रेमी पंहिंजे अंदर मां सभई सन्सा - भरम - अविद्या आदी कढी अंन्तरात्मा जे साक्षात्कार जो अलोकिक सुखु-संतोषु माणिनि था.

जीअं भगवान जी महिमा अपरंपार आहे, तीअं परमात्मा स्वरूप साधू-संतनि जी महिमा पिणु अपरंपार आहे. चई सघिजे थो त संत हलंदड़ भगवान ई हूंदा आहिनि. संतनि जे अनेक गुणनि जो बयानु धर्मी ग्रंथनि में मिले थो. चरित्र जे लिहाज़ कां सचा संत बेदाग़, निष्कालंक हूंदा आहिनि. अभिमानु, मोह-ममता आदी विकारनि जो त्यागु कयल संतनि जो हिर्दो शांतीअ ऐं संतोष सां भरियलु हूंदो आहे. अहिड़ा सत्-चित्त वारा संत सम-दृष्टीअ वारा ऐं परोपकारी हूंदा आहिनि. संत तुकाराम जे लफ़्ज़नि में -

जे का रंजले गांजले । त्यांसी म्हणे जो आपुले ।
तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेंचि जाणावा ।।

सचु पचु सचो संतु उहो ई आहे, जेको संसार जे दुखी इन्साननि खे पंहिंजो करे थो लेखे. उन में ई परमात्मा वसे थो. कोमल अंतःकरण वारनि संतनि में प्रेमु तारूंतार भरियलु हूंदो आहे. 'कबीरा, सोई पीर है, जो जानै पर पीर' जे विर्तीअ वारा संत परोपकारी हूंदा आहिनि. बेहदि समरथीअ वारा संत संसार जे भलाईअ लाइ परमेश्वर ऐं परमेश्वर जे 'नाम' जे बारे में बुधाईंदा रहंदा आहिनि. सभिनी जे कल्याण जी भावना मन में रखंदड़ संत सचाईअ जी मूरत हूंदा आहिनि. संतनि ई सच (परमेश्वर) खे सुञातो ऐं उन खे सगुण-स्वरूप में आंदो तथा हज़ारें लखें माण्हुनि के ग्यानु, अन्तरज्ञान जो प्रकाशु डिनो. सत्गुरूअ जे रूप में संत नाम, ध्यान, सुमिरन जो दानु डियनि था. सत्गुरू कामनाऊं पूरियूं कंदड़ कामधेनू गांइ खां बि श्रेष्ठ हूंदा आहिनि.

सामी साहिब पिणु अहिड़नि समरथ संतनि महिमा बुधाईंदा उन्हनि जी संगति करण जी सलाह डियनि था. सचो प्रेमी शिषु, भगत ई संतनि खां ग्यानु प्रापति करे पंहिंजो जनमु सफलु करे थो.

जीअं सूरु सती, सांगो न रखनि सिर जो,
तीअं मिलिया महबूब सां, मरी महबती,
जंहिंखे ड॒िनी सतिगुरूअ, सची रहति रती,
पाए परम गती, सामी माणिनि सेज सुखु.

जीअं सूर - वीर ऐं सती स्त्रीअ खे पंहिंजे सिर जी, प्राणनि जी परिवाह कान हूंदी आहे, हू कड॒हिं बि मरण लाइ तयारु हूंदा आहिनि, तीअं परमेश्वर सां मुहबत, प्रेमु कंदड़ प्रेमी मरी करे पंहिंजे महबूब, प्रियतम परमेश्वर सां वञी मिलिया. अहिड़नि ईश्वर - प्रेमियुनि खे संदनि सत्गुरूअ सची रहिणी ड॒िनी. हू तुर्तु ई परम गती (मोखु, मुक्ती) पाए (जनम मरण जे दुखनि खां छुटी) हाणे परमेश्वर सां गडु॒ सेज ते विहण जो सुखु पिया था माणिनि.

महबत आहे प्रेमु. महबत या प्रेमु कुदिरती शक्ती आहे. पंहिंजे पिरींअ सां, परम पिता परमात्मा सां प्रेमु करणु रूहानी मुहबत आहे. मुहबत सां कयल भगि॒ती, बंदगी कड॒हिं बि व्यर्थ कान वेंदी आहे. परमात्मा पूजा॒ जो न बल्कि प्रेम जो प्यासी हूंदो आहे. परमात्मा सां प्रेमु करण वक़्ति पाणु विसारिणो पवंदो आहे. 'मां देहि आहियां' जो अभिमानु कढी 'अहं ब्रह्मास्मि।' (मां ब्रह्मु ई आहियां) समुझी अंतरात्मा / परमेश्वर सां लिंवलीनु थियणो पवंदो आहे. जंहिंजे हिर्दे में मुहबत आहे, उहो लाशक प्रभूअ जे वेझो आहे, छो त प्रभू पाण प्रेमु ई आहे. मगर प्रभूअ सां सचो प्रेमु करणु जहिड़े तहिड़े इन्सान जो कमु नाहे. सचो प्रेमु या भगि॒ती के विर्ला वीर ई करे सघंदा आहिनि. भगि॒तीअ जे मार्ग ते हलण वक़्ति सिर जी, साह जी, प्राणनि जी चिंता छडे॒ ड॒ियणी पवंदी आहे. प्रेम जो रस्तो तलवार जी धार जियां हूंदो आहे, उन तां हलण महिल जानि जी परवाह कान करिणी पवंदी आहे.

साधु सती और सूरमा, इनका मत अगाध।

आशा छांडे देह की, तिन में अधिका साध।।

सती ऐं वीर खे प्रेम जो आदर्शु मञींदड़ संत कबीर जे इन दोहे में सामी साहिब जे मथिएं श्लोक जी झलक मिले थी. चवनि था त जीअं वीरु पुरुषु ऐं सती स्त्री पंहिंजे सिर/ प्राणनि जी चिंता कोन कंदा आहिनि, तीअं प्रभूअ सां सचो प्रेमु कंदड़, भगि॒ती कंदड़ प्रेमी पिणु पाणु मारे, अंदरु, मनु मारे, अंदर मां अविद्या (अज्ञान) कढी वञी प्रियतन परमेश्वर सां मिल्या. अहिड़े महबतीअ खे सत्गुरूअ वटां आत्मज्ञानु हासिल थियलु हूंदो आहे. हू पंहिंजी अंतरात्मा खे सुञाणे, हुन सां मिली हिकु थी परम गती (मोखु) प्रापति कंदा आहिनि, प्रियतम परमेश्वर सां गडु॒ सेज - सुखु माणींदा आहिनि, जेको अलोकिक हूंदो आहे. स्वामी परमानंद साहिब चवनि था -

मुहबत मारिया जन, से जीअनि कोन जहान में,
बेख़ुदीअ जे बाब में, नितु नवां ख़्वाब लहनि,
रवाजी राहुनि ते था, हुनर साणु हलनि,
'परमानंद' पहुचनि, से वञी दरि दोस्त जे.

जीएं हर्यो दरिख़तु, छाया फल फुल सुख डिए,
तीएं सभि कारिज करे, भागवती भगतु,
रखे न रतीअ जेतिरो, माया मोहु ममतु,
ऐन अभेदु उपरतु, सामी रहे सुभाव में.

जहिड़ीअ तरह साओ (हर्यो भर्यो) वणु सभिनी खे छांव, फल फूल ऐं सुखु डींदो आहे, तरिड़ीअ तरह भगवान खे जाणंदड़ु भगतु (भक्तु) पंहिंजा सभु कम परोपकार लाइ कंदो आहे. अहिड़ो सचो भगतु पंहिंजे अंदर में रतीअ जेतिरी (थोरी) बि ममता, मोहु ऐं माया कोन रखंदो आहे. सामी साहिब चवनि था त अहिड़ो भगतु पंहिंजे सुभाव में बिल्कुल शुध्द (पवित्र), अभेदु (भेद बिना, हिक जहिड़ो) ऐं वैरागी - त्यागी हूंदो आहे.

भगवान श्रीकृष्ण गीता में अर्जुन खे चवे थो 'भगतनि जे चइनि प्रकारनि मां 'ज्ञानी भगतु' मुंहिंजी आत्मा आहे.' जेको भगवान खां कड़हिं बि मन सां विभक्त (जुदा, अलगि) नथो थिए, उहो ई भगतु आहे. ! ज्ञानी भगतु आत्मज्ञानु थियण करे भेद - अभेद जो अंधकारु दूरि करे परमेश्वर सां मिली हिकरूपु बणिजी वियलु हूंदो आहे. परमेश्वर-स्वरूपु हुअण करे बि हू भगतु त हूंदो ई आहे. या अहिड़ो भक्तु साक्षात्कारी संतनि जहिड़ो ई हूंदो आहे - अज्ञान जो, माया जो पर्दो दूरि करे, मोहु-ममता आदी विकार नासु करे निर्मल-हृदय बणिजी वियलु ऐं परोपकारी पिणु. संतनि जहिड़ो प्रभूअ जो प्यारो भक्तु कीअ हूंदो आहे ?

सदा कृपालु दुःख परिहरन, बैर भाव नहिं दोय ।
छिमा ज्ञान सत भाखही, हिंसा रहित सु होया ।। (कबीर)

सामी साहिब पिणु सचे भक्त जूं अहिड़ियूं ई निशानियूं बुधाइनि था. जहिड़ीअ तरह वणु परोपकारी हूंदो आहे, संदसि सजो सरीरु बियनि जे भलाईअ लाइ हूंदो आहे - साओ सब्जु वणु जीवनि / साहवारनि खे पंहिंजे शीतल छांव त डींदो ई आहे,साणु साणु फल ऐं गुल पिणु डेई करे सभिनी खे सुखु संतोषु डींदो आहे. तहिड़ीअ तरह सचा भक्त पिणु पंहिंजा सभई कार्ज (काम) बियनि जे भलाईअ लाइ कंदा रहंदा आहिनि. छो त परोपकारी भक्त (संत) पंहिंजे मन में तिर जेतिरी बि ममता या मोहु कोन सखंदा आहिनि. हू वैरागी विर्तीअ वारा, त्यागी हूंदा अहिनि. संदनि हिर्दो निर्मलु, शुध्दि हूंदो आहे. समता जी भावना रखंदड़ अहिड़नि भगतनि जो जनमु ई जणु पर-उपकार लाइ थियलु हूंदो आहे. सूरज जियां सभिनी खे सुख डींदड़

सब को सुख पहुँचावहीं, सुहृद जनन कौ हेत ।
दूरहिं सूरज उदित ज्यों, कमलन को सुख देत ।।

जीएं हिरिखी हीर, रांझे सां हिक रसु थी,
तीएं मिली महबूब सां, लंघे लक लकीर,
ज़ाणी सभ सुपने जा, सामी चए सरीर,
गियानवान, गुर, पीर, लख लखाइनि अनभई.

जहिड़ीअ तरह हीर रांझे ते मोहित थी हुन सां मिली हिकु थी वेई, तहिड़ीअ तरह हे इन्सान, तूं बि मुश्किलातुनि, तकिलीफ़ुनि मां लंघे पारि पई पंहिंजे प्रियतम परमेश्वर सां मिलु. सामी साहिब चवनि था त तूं मनुष - शरीर खे सुपने जियां खिन पल जो, कूड़ो, क्षणभंगुर समुझु. ग्यानवान (ज्ञानवान) गुरू ऐं पीर सभई ईश्वरी ज़ाण (ग्यानु) ड़ियण लाइ अंदर में ज्ञान जो सोझिरो (प्रकाशु) कनि था.

इन्सान खे नर देहि (मनुष जो जनमु) मिली आहे. इन खे सफलु बणाइणु घुरिजे. इएं करण सां अणलभु परलोकु (सुर्गु) प्रापति थी वेंदो. परलोकु हासिल करण लाइ, मोखु -मुक्ती पाइण लाइ भगवान जो भजनु करणु घुरिजे. भगितीअ जी राह वठिजे. भगितीअ जा अनेक क़िस्म आहिनि, के सवला त के डुखिया, भगितीअ लाइ लाज़िमी शर्तु आहे ईश्वर सां प्रेमु करणु, सची भावना - श्रद्धा रखी मुहबत करणु, अनन्य, एकनिष्ठ भाव सां प्रीति करणु. ऐं इहा ग़ालहि सभिनी लाइ सौखी नाहे. सचे प्रेम जो रस्तो अणांगो हूंदो आहे, संकटनि - सकिलीफ़ुनि वारो हूंदो आहे. दुनियवी प्रेमु हुजे या रूहानी मुहबत करण, उन सां मिली हिकु थियण जो मार्गु को आसानु नाहे. मीराबाईअ जो मिसालु ड़िसो. कबीर साहिब पिणु चवनि था -

भक्ति दुहेली राम की, नाहिं वयापर का काम।
सीस उतारे हाथ सों, ताहि मिलै निज धाम।।

सामी साहिब पिणु हीर - रांझे जो मिसालु ड़ेई इहा ग़ाल्हि समुझाइनि था. हीर जी रांझे सां सची प्रीति हुई. रांझे सां मिलण हुन खे लकनि मां लंघिणो पियो, संकटनि खे पारि करिणो पियो. तड़िहिं हूअ वञी रांझन सां मिली सघी हुई. तीअं हे मनुष तूं पिणु सिरु तिरीअ ते रखी निकिरी पउ परमेश्वर सां मिलण लाइ. तूं देहि जो अभिमानु त्यागे छड़ि. हीउ शरीरु सुपने जियां खिन पल जो अथई; नासवानु अथई. सरीरु नासु थी वञण जो कोई भरवसो कोन्हे. इन करे सवेल ई सुजागु थीउ. मन खे निर्मलु बणाइ. मन मां अविद्या, अज्ञानु, बुरा वीचार आदी कढी छड़ि. ग्यानवान, गुरू, सत्गुरू, संत, पीर, साधू पुरुष इहो ई चवनि था ऐं आम माण्हुनि खे

कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध ।
सीस उतारि पगतलि धरै, तब निकटि प्रेम का स्वाद ।।

जेको दुखाए, संतनि सापुरिसनि खे,
सो कीतो पंहिंजो पाणहीं, जनमनि मंझि पाए,
जिएं कीड़ो गंद में, नितु टुॿी खाए
साधू छड॒ाए, त सामी छुटे दुख खां.

सामी साहिब हिकिड़ी ग॒ाल्हि समझाईंदे चवनि था त संसार जे कंहिं बि संत या सत्पुरुष खे दुखु पहुचाइणु न घुरिजे. जेको साधू-संतनि-सत्पुरुषनि खे दुखाईंदो, सताईंदो, तंहिंखे हिते त लोड़िणो ई पवंदे पर उन जो फलु ॿियनि अनेक जनमनि में पिणु भोगि॒णो पवंदो.उन इन्सान खे पंहिंजे कए जो फलु मिलंदो ऐं कीड़े /कीएं वांगरु गंद (विष्टा) में सदाईं ॿुड़लु रहिणो पवंदो. अहिड़े नरक खां, दुख खां हुन जो छोटिकारो त॒ड॒हिं ई थींदो ज॒ड॒हिं को साधू-संतु अची हुन ते दया करे छड॒ाईंदो.

सचा संत हलदंड़ चलदंड़ देवता, भग॒वान हूंदा आहिनि. साधू-संत या सत्पुरुष सूरज जियां समाज ते उपकारु कंदड़ हूंदा आहिनि. हू आम माण्हुनि खे परमेश्वर जी यादि ड॒ियारींदा आहिनि. संत माता वांगरु हूंदा आहिनि ऐं इन्सान ज़ात जो कल्याणु चाहींदड़ हूंदा आहिनि. हू असांखे सुजागु॒ कंदा आहिनि. ज़बरदस्त समरथीअ वारा सचा संत मनुष खे भवसागर तरण जो, मोखु प्रापति करण जो जोगु॒ो उपाउ ॿुधाईंदा आहिनि. नाम-स्मरण जो सवलो उपाउ संत/सत्गुरु ई त ड॒सींदा आहिनि. सचनि संतनि जी संगति करणु भागु॒ जी निशानी आहे. संसार में संतनि जी वड॒ी महिमा आहे. इन करे संतनि जी शरणि वठणु इन्साननि लाइ भलाईअ जो मार्गु आहे.

मगर संसार में के अहिड़ा अधम, पापी जीव हूंदा आहिनि, जे अभिमान जे अंध में अची संतनि जी शेवा करण बदिरां उनहनि खे दुखु पहुचाईंदा आहिनि. संतनि जी निंदा करण, वक़्ति सरीरी तकिलीफ़ूं ड॒ियण जा पाप करे संतनि खे अंदिरां ॿाहिरां सताईंदा आहिनि. इहो महापापु आहे. संतनि खे न ड॒िजे त ड॒ुखोइजे बि न. संतनि खे ड॒ुखाइणु मानॉ पंहिंजो सत्यानासु करिणो आहे. अहिड़े निर्दई इन्सान खे जनम जनम में दुख भोगि॒णा पवनि था. नरक समान यातनाऊं भोगि॒णियूं पवनि थियूं. उनहनि मां हुन खे छोटिकारो त॒ड॒हिं थो मिले, ज॒ड॒हिं को दयालू साधू-संतु ई खेसि दुख मां छुटाइण जो जतनु करे थो. भला सचो संतु पंहिंजो

संत न छांडै संतता, कोटिक मिलै असंत।
मल भुजंगम बेधिया, शीतलता न तजंत।।

जेको पियो किरी, सामी साध संगति में,
मिलियो तंहिं माइल खे, सुतहि सिधि सुपिरीं,
सामी सुख संसार जा, वियसि सभि विसिरी,
अचे कीन फिरी, जनम मरण जे दुख में.

साध-संगति जे प्रभाव जो वर्णनु कंदे सामी साहिब चवनि था त जेको साधारणु मनुषु सचे संतनि जी संगति करे थो, अहिड़े माइल (लाड़ो रखदंड़, शाइक़) खे पंहिंजो पाण प्रीतम परमेश्वरु मिली वञे थो. जंहिंजे करे उन मनुष खां संसार जा नासवान सुख विसिरी था वञनि. हू ईश्वर जे मेलाप जो अलोकिक सुखु पाए थो ऐं संदसि जनम-मरण जा दुख कटिजी वञण करे वरी जनम-मरण जे चकर में कोन थो फासे. (मोख जी इहा ई स्थिती आहे.)

साधू-संतनि, सत्पुरुषनि जो संगु सत्संगु आहे. संत पाण सत् जो आचरणु कंदड़ हूंदा आहिनि. सत्संग में साधू संत उपदेशु, सिख्या, सुमति, भग़िती-भावु, ग्यानु-ध्यानु ड्ड़ींदा आहिनि. परमारथ जो सचो लाभु हासुल करण लाइ संत-समागमु काराइतो आहे. सत्संगु ज़णु संजीवनी ब्बूटी आहे, जंहिंसां जीवनु कल्याणमय बणिजी पवे थो, जीवनु सफलु थिए थो. छो त संत आत्मिक सुखु ड्ड़ींदा आहिनि. संतनि सां नातो रखण सां, साधू-संतनि जी शरणि में वञण सां, इन्सानु माया-मोह खां परे थी वञे थो ऐं हर पदार्थ में प्रभू परमात्मा खे पसे थो. संसारी सत्ता ऐं सम्पत्तीअ जे सुख खां सत्संगु श्रेष्ठ हूंदो आहे.

सामी साहिब इन करे संतनि जे संग जी महिमा ब्बुधाइनि था. सिज जे रोशिनीअ में, ड्ड़ीए या बल्ब वग़ेरह जे प्रकाश में संसार जा स्थूल ऐं दृश्यमान पदार्थ ई ड्डिसी सघिजनि था.लेकिन बेहदि सूख्यम या चम जे अखियुनि सां ड्डिसण में न ईंदड़ु पदारथु संत ई ड्डेखारे सघनि था. भग़वान जो, प्रीतम परमेश्वर जो दर्शनु पिणु संत ई कराए सघनि था. परमेश्वरु मिलण सां संसार जे सुखनि ऐं दुखनि जी यादि बि कान थी पवे ऐं मनुषु वरी वरी अलग़ि अलग़ि जूणियनि में जनमु वठी वरी मरण जे चकर खां आज़ादु थी मोखु पाए थो.तंहिं करे संतनि जो संगु करणु घुरिजे. साधू संतनि जी शेवा करण में ई मनुष जातीअ जो कल्याणु

कोटि कोटि तीरथ करै, कोटि कोटि करूं धाम।
जब लग साधु न सेवई, तब लग काचा काम।।

जोगी़ सन्यासी बैरागी़ ब्रांभण घणा,
नाना बेख जग़त में, सेविड़ा उदासी,
तनी में को हिकिड़ो, दरिसन जो पियासी,
जंहिंजो फंदु फासी, सामी कटियो सतिगुरूअ.

सामी साहिब चवनि था त संसार में जोगी़, सन्यासी, वैरागी़ ऐं ब्राह्मण तमामु घणा आहिनि जे क़िस्में क़िस्में जा वेस धारणु करे परमात्मा खे पसणु चाहिनि था. के वरी उदासीन बणिजी तलाश कनि था. के सेविड़ा (जैन साधू) पिणु परमात्मा जी उपासना कनि था. मगर इनहनि सभिनी में विर्‌लो को पुरुषु आहे, जंहिंखे प्रीतम परमेश्वर जे दर्शन जी सची प्यास, उकीर हूंदी आहे ऐं जेको सत्गुरूअ जे शरणि में वियो आहे, जंहिंजा सभु ब॒ंधन सत्गुरूअ काटे छडि॒या आहिनि तथा हू आत्मज्ञानी बणिजी मुक्त थी वियो आहे.

परमेश्वर जी भग़िती करे उन खे प्रापति करण लाइ या संदसि दर्शनु करण लाइ अनेक प्रकारनि जा मार्ग अपनाए साधना कई वेंदी आहे. के कर्ममार्ग ज़रीए, के ज्ञानमार्ग ज़रीए त के भक्तिमार्ग ज़रीए परमेश्वर खे पाइणु चाहींदा आहिनि. पंहिंजो मक़्सदु साधण लाइ के घरु ब॒ारु त्याग॒े गेड़ू कपिड़ा पाए सन्यासी बणिजी वेंदा आहिनि त के योगी बणिजी योगु पचाईंदा आहिनि. अहिड़ा केईं माण्हू मिलंदा जिनि जुदा जुदा रूपनि ऐं वेसनि में परमात्मा जी साधना करे दर्शन जी अभि॒लाखा रखी आहे. सामी साहिब जो चवणु आहे त अहिड़नि साधकनि में ब॒ाहिरियों डे॒खाउ ई वधीक नज़रि अचे थो; उन्हनि में प्रीतम परमेश्वर लाइ सचो प्यारु, सची उकीर कान हूंदी आहे. ऐं न ई हू माया जे ज़ार मां मुक्त थियल हूंदा आहिनि. अहिड़नि अधूरनि साधकनि में विकार भरियल हुअण करे पंहिंजो मक़्सदु साधण में सफलु कोन थी सघंदा आहिनि. विकाररहित थियण बिना, प्रभूअ जे दर्शन जी सची प्यास हुअण खां सवाइ फलु कीअं मिलंदो ?

वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक।
छापा तिलक लगाय कर, दगध्या लोक अनेक।।

मगर अहिड़नि हज़ारें साधकानि में हिकिड़ो को विर्‌ले सचो साधकु हूंदो आहे, जंहिंखे प्रभूअ जे दर्शन जी प्यास हूंदी आहे. अहिड़े साधक खे सचो गुरू, सत्गरू मिली वञण करे संदसि विषय विकार हली वेंदा आहिनि. सत्गुरूअ जी किर्‌पा थियण करे हुन जा ब॒न्धन टुटी पवंदा आहिनि, अग्यानु दूरि थी वेंदो आहे ऐं संदसि हिर्‌दो निर्मल बणिजी पवंदो आहे.

जंहिंखे परम पारिसु, लगो संगु साधूअ जो,
सो केवल कंचनु थियो, छडे ममता मिसु,
सदा रहे सामी चए, ख़ुलासो ख़ालिसु,
जाणे सारी विसु, चमत्कारु चेतन जो.

सामी साहिब बुधाइनि था त जंहिं मनुष खे संतनि जे संगरूपी परम पारस पथर जो स्पर्शु थियो, उहो मनुषु पंहिंजी ममता आदी त्यागे सचो सोनु (कंचनु) बणिजी वियो. अहिड़ो मनुषु हीअ सारी सिरिष्टी (विश्वु) चेतन (परब्रह्म) जो चमत्कारु थो समुझे.

संग सुहबत जे करे उन्सान में सुठा या बुरा संस्कार अचनि था. इन्सानु जंहिं खेत्र में, वातावरण में रहे थो, उन जो उन ते असरु ज़रूरु थिए थो. सत्संग जे बारे में पिणु इहा गाल्हि चई सघिजे थी. संतनि जे संग जो मनुष ते सदाईं सुठो प्रभावु थींदो आहे. सत्संगु करे बुरो इन्सानु बि सुठो बणिजी वेंदो आहे, सुधिरी वेंदो आहे. चंदन जे संग-सुहबत में निमु जो वणु पिणु पंहिंजी कौड़ाणि त्यागे छडींदो आहे, मिठो बाणिजी वेंदो आहे. संत साख्यात परमात्मा जा रूप हूंदा आहिनि. संत जाणी जाणणहार हूंदा आहिनि, उन्हनि जो सहवासु मिलण करे मुक्ती मिले थी. तंहिंकरे संत रामदास पिणु चवनि था त को जाणू, अंतरज्ञानी गुरू करणु घुरिजे, उन खां नामु वठणु घुरिजे. गुरूअ जे संपर्क ऐं ज्ञान द्वारा मनुष जो अज्ञानु दूरि ती वञे तो. संत कबीर साहिब पिणु हिक दोहे में संतनि जी महिमा हिन रीति बुधाई आहे-

संगत कीजै साधु की, कभी न निष्फल होय ।
लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होय ।।

साधू संतनि जी संगति करणु कडहिं बि अजाई कोन थींदी आहे. जहिड़ीअ तरह पारस मणीअ जे स्पर्श (छुहाअ) सां लोहु सोनु बणिजी वेंदो आहे, तहिड़ीअ तरह संतनि जी संगति दुर्जन इन्सान बि सज्जन (भला इन्सान) बणिजी वेंदा आहिनि. सामी साहिब पिणु सागी गाल्हि चवनि था त जंहिं मनुष के साधू-संत जे संगरूपी पारस जो स्पर्शु थियो, उहो सचो सोनु बणिजी वियो, ममता-मोहु त्यागे खरो मनुषु बणिजी वियो. संतनि उन खे पाण जहिड़ो पारसु ई बणाए छडियो ! अहिड़ो मनुषु अंदर में परमात्मा पसे थो. हुन में ज्ञान जो प्रकाशु थिए थो. हाणे हू सभिनी क़िस्मनि जे बंधननि खां आजो थी सदाईं एकांत में रहे थो. हाणे हू समुझे तो त हीउ सारो जगतु परब्रह्म, परमेश्वर जो ई चमत्कारु आहे. इहा दृष्टी, अंतर जी बूझ संतनि जे संग में अचण करे ई मनुष खे प्रापति थिए थी.

होय शुध्द, मिटि कलुषता, सब संगति को पाय ।
जैसे पारस को परसि, लोह कनक ह्वै जाय ।।

जंहिं समुझो सूतु, आतम देव अनूप जो,
सो बिना बेख भभूत जे, सामी थियो अवधूतु,
उथी अविद्या भूतु, भगो तंहिंजे घर मों.

सामी साहिब चवनि था त जंहिं इन्सान अनुपम/लासानी आत्मतत्त्व (अंतरात्मा) जो सूत्रु (सारु, राजु, ततु) समुझो आहे, उहो भगिवा वस्त्र आदी पाइण बिना ऐं सरीर खे भभूत लगाइण बिना ई अवधूतु (सिध्द मार्ग जो योगी)थी वञे थो. (पंहिंजे हिर्दे में परमात्मा खे सुञाणंदड़) उन मनुष जे हिर्दे रूपी घर मां अविद्यारूपी भूतु भजी थो वञे.

आदिनाथ (शंकर) मां निकितल मार्ग खे 'सिध्द मार्ग' चयो वेंदो आहे ऐं इन मार्ग जे योगी पुरुषनि खे 'अवधूत'चवंदा आहिनि. वर्ण-आश्रम जे फ़र्ज़नि खे छड़े सिर्फु आत्मा खे ई डिसदंड़ योगी 'अवधूत' सडिबा आहिनि. अवधूतनि या योगियुनि जी साधना जा नियम कड़ा हूंदा आहिनि. साधना कठोरु हूंदी आहे. शरीर ते भभूत/भस्म लाइणी पवंदी आहे. अवधूत शंकर जी ज्ञान -शक्ती कुंडलिनी समुझंदा आहिनि. तंत्रयोग.जरीए शरीर वारी कुंडलिनीअ खे जागाए शिव-शक्तीअ जी समरसता/ एकरूपता साधी वेंदी आहे. इन करे उन्हनि खे 'सिध्द'चवंदा आहिनि.

इहा थी सिध्दनि, अवधूतनि जी गाल्हि, मगर वेदान्त जा अभ्यासी महाकवी सामी साहिब चवनि था त परमेश्वर जे प्राप्तीअ लाइ, आत्मज्ञान लाइ, मोख-मुक्तीअ लाइ या अविद्या जे ब्रंधन खां पाण खे आजो करण लाइ हरू भरू सिध्द-मार्गु अपनाए अवधूतु बणिजी कठोर साधना करण जी ज़रूरत नाहे. सिध्द-मार्ग जा कड़ा नियम पालण खां सवाइ पिणु अवधुतु बणिजी सघिजे थो, योगु पचाइण बिना जोगी बणिजी सघिजे थो. ज़रूरत आहे हिकु सूत्रु या ततु समुझण जी. उहो इहो आहे त परमात्मा असांजे अंदरि आहे. घट घट में परमेश्वर जो निवासु आहे. परम पिता परमेश्वरु गोल्हण लाइ बाहिर भटिकण जी ज़रूरत नाहे. उहो आत्म देवु, अंतरात्मा असांजे अंदरि ई आहे. इहो सूत्रु, इहो सचु अगर कोई इन्सानु समुझी वञे थो त पोइ उन इन्सान जे मन रूपी घर मां अविद्या/अज्ञान/अणजाणाईअ रूपी भूतु भजी थो वञे.पोइ मनु निर्मल, विकाररहित बणिजी वञण करे परमेश्वर जो दर्शनु करे परम-शांती या आनंद जो अनुभवु करे सघिजे थो

तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय।
सब सिध्दि सहजै पाइके, सो मन जोगी होय।।

ठाकुरु विकाणो, सामी हथि संतनि जे,
पासे रखियाईं प्रीति सां, मंदाई माणो,
सेवा करे सेवकु थी, परिची सभु पाणो,
लटिकी लुभाणो, भंवर जा भगति ते.

सामी साहिब चवनि था त ठाकुरु (भगवानु) संतनि जे हथि विकामिजी वियो. भगवान पाण प्रेम - भाव सां पंहिंजे मन मां वडाई (माणो) कढी संतनि जी शेवा करण लगो. प्रभू पाण संतनि जी भगितीअ ते मोहित थी भंवर जियां फासी पियो आहे.

ईश्वर जे वजूद में श्रध्दा, ईश्वर जी भक्तनि लाइ प्रेम जी भावना, भक्तनि जी मनोकामना पूरी करण निस्बति विश्वासु ऐं मोखु-मुक्ती - इन्हनि चइनि तत्वनि ते भगितीअ जी वीचार धारा आधारियल आहे. श्रीमद्भागवत ऐं गीता ग्रंथ भगितीअ जी सूरत चिटीअ तरह बयानु कई आहे. परमेश्वर जा 'निर्गुण' ऐं 'सगुण' रूप हूंदो बि भगिती भावना ज़ाहिर करण लाइ परमेश्वर जो सगुण साकारु रूप ई भक्तनि खे वणंदो आहे. गीता ब्रह्म/परमेश्वर जा 'कर्म,ज्ञान ऐं भक्ती' अ जो मेलापु कंदे भक्तीअ खे वधीक अहमियत डिनी आहे. भगिती-मार्ग में सभिनी खे भगिती करण जो अधिकारु हूंदो आहे.

श्रीमद्भागवत में भगितीअ जा जेके नंव क़िस्म बुधाया विया आहिनि, उन्हनि में 'दास्य', 'सख्य' ऐं 'आत्मनिवेदन' मुख्यु आहिनि. कीर्तनु आदी मार्ग नि ज़रीए, भक्तु ईश्वर निस्बति पंहिंजो प्रेमु ज़ाहिरु कंदो आहे. हू शुरूअ में ईश्वर सां 'दास' भावना सां हले थो, ईश्वर जो दासु सडाए पोइ हू ईश्वर खे पंहिंजो सखा/मित्र मञे थो ऐं आख़िर में आत्म-समर्पण ज़रीए ईश्वर सां 'एकता' साधे थो. इहा ई 'पराभक्ती' या 'सायुज्य मुक्ती' आहे. भगितीअ में ईश्वर लाइ प्रेमु लाज़िमी शर्तु आहे. ईश्वरु पिणु सचनि प्रेमी भक्तनि सां प्रेमु कंदो आहे. ज्ञानी भक्त जे दृष्टीअ सां भक्त ऐं ईश्वर में कोई 'द्वैतु' (अलगिपणो) हूंदो ई कोन्हे. आत्म - अनुभूतीअ जे सतह ते ईश्वर ऐं भक्त, निर्गुण ऐं सगुण जो फ़रकु ई कोन हूंदो आहे.

सामी साहिब प्रेममय भक्तीअ जो वर्णनु कयो आहे. चवनि था त ठाकुरु/भगवानु पंहिंजनि भगतनि (संतनि) हथि विकामिजी वियो. पंहिंजी वडाई, महानता कढी छडियाईं ऐं हू भक्तनि जो दासु (शेवकु) बणिजी वियो. परमेश्वरु पंहिंजे भक्तनि जी सची भक्तीअ ते मोहितु थी पियो ऐं भंवर/भौरे जियां उन में फासी पियो. शाम जे वक़्ति भंवर कमल गुलनि जो रसु पीअण लाइ उन्हनि जे मथां विहंदा आहिनि. पर उहे कमल सूर्यविकासी हुअण करे संझा जो बूटिजी, बंदि थी वेंदा आहिनि ऐं भंवर अंदरि फासी

ड॒िसी जीउ ठरे, नारद, निजु भग॒तनि खे,
मां धारियां ध्यानु तंहिंजो, जो मुंहिंजो ध्यानु धरे,
ओति पिरोति ज॒ाणी करे, थियां कीन परे,
सामी कीन सरे, बिना भग॒ति आहार जे.

भग॒वानु विष्णू नारद मुनीअ खे चवे थो त हे नारद ! पंहिंजनि भग॒तनि / भक्तनि खे ड॒िसी मुंहिंजो त अंदरु (मनु, हिर्दो) ठरी पवंदो आहे (मां ड॒ाढो खुशि थींदो आहियां) मां उन्हनि जो ध्यानु कंदो आहियां, उन्हनि खे यादि कंदो आहियां, जेकी मूंखे यादि कंदा आहिनि, मुंहिंजो सुमिरनु कंदा आहिनि. भगि॒तीअ सां पूरनु भरियलु ज॒ाणी करे मां उन्हनि भक्तनि खां कड॒हिं बि परे कोन थींदो अहियां. सामी साहिब चवनि था भग॒वान विष्णू नारद खे चवे थो त भक्ती रूपी आहार/ खाधे खां सवाइ मुंहिंजी सरंदी ई कान्हे !

सगुण परमात्मा ऐं जीव (मनुष) जे निष्काम प्रेम - सन्ब॒ंध खे 'भक्ती' (भगि॒ती) चयो वेंदो आहे. भग॒वान या सत्गुरूअ में पूरन श्रद्धा रखी आराधना कंदड़ खे 'भक्तु' /भग॒तु चवंदा आहिनि. भग॒तनि जा चार क़िस्म आहिनि **१) अर्थार्थी -** सत्ता, संपत्ती या संतती वग़ेरह जे प्राप्तीअ जी कामना करे भगि॒ती कंदड़ु **२) आर्त -** दुखनि जे करे व्याकुल बणिजी दुखनि खां छोटिकारो पाइण जी इच्छा सां भगि॒ती कंदड़ु **३) जिग्॒यासी -** भग॒वान जे स्वरूप खे ज॒ाणण जी चाहना रखंदड़ु **४) ग्यानी -** जीव ऐं ब्रह्म जी एकता जो ज्ञानु थी वञण करे, उन जे अनुभूतीअ लाइ तिखी इच्छा थियण करे भग॒वान जी अनन्य भगि॒ती कंदड़ु. भग॒वतगीता में श्रीकृष्ण चवे थो, 'इन्हनि चइनि भग॒तनि मां ज्ञानी भग॒तु मुंहिंजी / मुंहिंजो आत्मा ई आहे' (७.१८)

मथिएं सलोक में भग॒वान विष्णू पंहिंजे प्यारे भक्त नारद खे पंहिंजे मन जी हिक ग॒ाल्हि थो ब॒ुधाए. देव - रिषी नारद खे भग॒वान जो मनु चयो वियो आहे. नारदु मुनी ब्रह्मा जो मानस - पुटु हो. हू परम तत्वज्ञानी, परम प्रेमी भग॒तु ऐं दिव्य रिषी हो. नारद जी किर्पा सां ई संसार खे श्रीमद्भाग॒वत ऐं वाल्मीकि रामायण जहिड़ा लासानी ग्रंथ हासिल थी सघिया. अहिड़े नारद मुनीअ खे भग॒वानु विष्णू संतोष (आनंद) सां चवे थो, 'हे प्यारा नारद ! पंहिंजनि भग॒तनि खे ड॒िसण सां मुंहिंजो जीउ त ठरी पवंदो आहे. मूंखे ड॒ाढो सुखु - संतोषु हासिल थींदो आहे.मां पंहिंजे मन में उन्हनि ई भग॒तनि जो ध्यानु धरींदो आहियां, जेको मुंहिंजो ध्यानु धारींदा आहिनि. पंहिंजे लाइ/ मुंहिंजे लाइ संदनि हृदय में ओत-प्रोत / तारूं-तारि भगि॒ती भरियल हुअण करे मां अहिड़नि भग॒तनि खां कड॒हिं अलगि॒ कोन थींदो आहियां नारद ! भगि॒ती ज॒णु मुंहिंजो आहारु (खाधो) आहे, जंहिंखां सवाइ मुंहिंजी सरंदी नाहे'. भग॒वानु वैकुंठ, योगियुनि जे हृदय वग़ेरह में न, पर

नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न च।
मद्भक्तायत्र गायन्ति, तत्रतिष्ठामि नारद।।

तंहिंजा सभि पिर्‌वाणु, ग्यान ध्यान जप जोगु, जगु,
जंहिं मिली साध संगति सां, डिठो पंहिंजो पाणु,
दुख सुख लाभ अलाभ में, रहे साबूतीअ साणु,
जाणे सभु कल्याणु, सदाईं सामी चए.

जंहिं साधक (मनुष) साधू-संतनि जे संगति जो लाभु हासिल करे पंहिंजे अंदर में पेही डिठो (अंतरात्मा जो दर्शनु कयो), उन जो सारो ध्यानु, ग्यानु, जपु, तपु, योगु, यग्यु आदी परमेश्वर वटि स्वीकारु (क़बूलि) थी विया. पोइ अहिड़ो मनुषु (साधकु) संसार में रहंदे दुख सुख जी हर अवस्था में, नफ़े नुक़्सान जी हर स्थितीअ में स्थिर (अडोल, मज़बूतु) रहे थो. सामी साहिब चवनि था त अहिड़ो मनुषु सभिनी जे कल्याण/भलाईअ जी भावना सदाईं पंहिंजे मन में रखे थो.

पंहिंजे स्वरूप खे सुञाणण लाइ ऐं मोखु हासिल करण लाइ साधक के ज्ञान-मार्गु अपनाइणु घुरिजे (सांख्य दर्शन, शांकर वेदान्त). याने आत्मज्ञान जे प्राप्तीअ लाइ विवेक, वैराग, विवेक, मोख जी इच्छा आदी साधननि जो सहारो वठणु घुरिजे. अनेक प्रकारनि जे भगितीअ द्‌वारां पिणु परमेश्वर जो दर्शनु थी सघे थो. मगर प्रभूअ सां सचो ऐं एकनिष्ठ प्रेमु हुअणु ज़रूरी आहे. सभिनी खे पंहिंजे अंदर में परम आत्मा खे तलाशणु घुरिजे. संत कबीर लफ़्ज़नि में -

साहेब हम में साहेब तुम में, जैसे प्राना बीज में ।
मत कर बंदा गुमान दिल में, खोज देख ले तन में ।।

भला असांजे मन-मंदिर में वेठल परमात्मा खे कीअं डिसिजे ? कीअं उन जो दर्शनु कजे ? पंहिंजे 'पाण' के कीअं पसिजे ? हिकिड़ो जोगाइतो जवाबु आहे सत्गुर जी शरणि में वञण सां, साधू-संतनि जी संगति करण सां, संतनि जे वचननि अनुसार हलण सां. छो त संत ई साधक खे अंतरज्ञानु डियनि था, मन मां मेराणि कढी ज्ञान जो प्रकाशु प्रदान कनि था, जंहिं सां परमात्मा पसी सघिजे थो. संत कबीर जे ई लफ़्ज़नि में,

कबीर संगत साधु की, नित प्रति कीजे जाय ।
दुरमति दूर बहावसी, देशी सुमति बताय ।।

हक़ीक़त में साधू - सन्तनि जो सहवासु हासिल थियणु भागु जी निशानी आहे. संत-समागमु सभिनी साधनाउनि जो जणु राजा आहे. तंहिंकरे जीवनु सफलु करण लाइ संतनि जी आग्या में रहणु घुरिजे. सामी साहिब पिणु इहो ई चवनि था त ग्यानु, ध्यानु, जपु तपु आदी तडहिं ई प्रभूअ के क़बूलि पवंदा, जडहिं असीं संतनि- सतिगुरुनि जी किर्‌पा प्रापति करे पंहिंजे अंदरि

दरदवंद दिलिबरु, परतखि डि̱ठो पांहिंजो,
सामी संगि साधूअ जे, दिलि जो खोले दरु,
कंहिं खे सले कीनकी, अनभइ सुख अजरु,
करे कीअं पधरु,नाज़िकु धागो̱ नींहं जो.

दरदवंद, प्रभूअ जे प्रेमीअ पंहिंजो प्रीतमु प्रतखि (प्रत्यक्ष) पंहिंजे नेणनि सां डि̱ठो. सामी साहिब चवनि था त हुन साधूअ (गुरूअ) जे संग में पंहिंजे दिलि जो दरु खोले, अंदर में प्रीतम परमेश्वर जो दर्शनु कयो. दरदवंद खे अंतर्ज्ञान जो एडो̱ त अमर खुखु (आनंदु, संतोषु) मिलियो जो हू उहो कंहिंखे बि कोन थो बु̱धाए. भला प्रीति जो अहिड़ो नाज़िकु धागो̱ जग̱ में, संसार में पधिरो कीअं करे?

ईश्वर लाइ मन में अथाहु प्रेमु हूंदड़ प्रेमी भक्त पंहिंजे अंदर में परम आत्मा खे पसणु (डि̱सणु) चाहींदा आहिनि. अहिड़ा निष्ठावान भक्त प्रभूअ जे दर्शन लाइ इएं पिया तड़पंदा आहिनि, जीअं चातक पखी बरसाति जे पाणीअ जी हिक बूंद लाइ, जा स्वती नक्षत्र जी बारिश चई वेंदी आहे, जीअं का सीलवान स्त्री पतीअ जे विरह में पेई मन में रूअंदी आहे, तीअं भक्तु पिणु परमात्मा जे दर्शन जो प्यासी हूंदो आहे. विर्लो को अहिड़ो सचो प्रेमी भक्तु थिए थो, जेको साधू संत या सत्गुर जी किर्पा सां पंहिंजे दिलि जो दरवाज़ो खोले अंदरि डि̱से थो. गुरूअ जे ज्ञान (प्रबो̱ध) जे करे हुन जे मन मां अज्ञान जो अंधकारु दूरि थी वञे थो, अहिड़ीअ अद्‌भुत स्थितीअ में दरदवंदु भक्तु पंहिंजे अंतःकरण में चेतन, परमात्मा जो साक्षत्कारु करे थो.

अद्‌वैत जी इहा आत्म-प्रतीती, इहो आत्म-अनुभवु या साक्षात्कारु कीअं हूंदो आहे? शाश्वत सत्य (परमेश्वर) जो, शुध्द अनुभवु करण जे आनंद जो वर्णनु कीअं करे सघिबो? ईश्वरी प्रेम जो पंहिंजे अखियुनि सां, जीअरे जाग̱ंदे दिव्य अनुभवु प्राप्त करणु, साक्षात्कारु करणु बयानु करण खां परे हूंदो आहे. इंद्रियुनि खां परे हूंदडु̱ ऐं अहसास जे सतह वारो इहो दिव्य दर्शनु बयानु करे सघण खां परे हूंदो आहे. सचे भक्त के थींदडु̱ सुखु या परम आनंदु हू कंहिं खे बु̱धाए कोन सघंदो आहे. इहो अलोकिक आनंदु लौकिक (लोक जे) सतह ते लोक जे स्थूल साधननि सां सले सघण जहिड़ो कोन हूंदो आहे. इहो सिर्फ़ु महसूसु करे सघिबो आहे - गूंगो मनुषु गु̱ड़ जो सवादु त वठी सघंदो आहे पर बु̱धाए को सघंदो आहे ! प्रेम जो, प्रभू जो, प्रभूअ जे प्रतखि थियल दीदार जो वर्णनु नथो करे सघिजे,

मन-भावन के मिलन कौं, सुख कौं नाहिन छोर
।

नकी थीउ विरक्तु, नकी गपु गिरस्त में,
मिली वठु महबूब सां, सामी चए सुततु,
मोटी ईंदुइ कीनकी, अहिड़ो हथि वक़्तु,
पोइ रूअंदें रतु, अखिनि मों आजिज़ु थी.

सामी साहिब मनुष खे समुझाईंदे चवनि था त तोखे अमुल्हु मनुष - जनमु मिलियो आहे, उहो सफलो करि. इन लाइ तूं विरक्तु (वैरागी) न थीउ ऐं न ई गिरिहस्तीअ या प्रपंच जी गप में फासु. तूं तुरतु ई पंहिंजे प्रियतम सां, परमेश्वर सां मिलण जो उपाउ करि. अड़े, इहो ई वक़्तु अथई. इहो वक़्तु, मोक़ओ हथनि मां निकिरी वियुइ त वरी कोन मिलंदुइ. पोइ तोखे दुखी/बेवसि/लाचारु थी करे अखियुनि मां रतु जा गोड़हा गाड़िणा पवंदा, पछिताइणो पवंदो.

रामायण जी हिक चौपाई आहे 'बड़े भाग मानुष तन पाया। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथनि गावा।।' देवताउनि खे बि मनुष जो जनमु मिलणु दुर्लभु आहे, उहो असांखे मिलियो आहे. हिन जनम में ई असीं ईश्वर जी भगिती करे, आत्मज्ञानु प्रापति करे जनम - मरण जे चकर खां छुटी मोखु पाए सघूं था. मनुष - जूणि मिलणु हिकु मोक़ओ, अवसरु आहे असां लाइ जनमु सफलु करण जो. इन लाइ घणा ई माण्हू परमारथ जे मार्ग ते हली जतनु कंदा रहंदा आहिनि. परमेश्वर खे प्रापति करण लाइ के वैरागी बणिजी घर बार जो त्यागु करे झंगल, पहाड़, तीर्थस्थान वग़ेरह डांहुं हलिया वेंदा आहिनि के सन्यासी बणिजी ईश्वर जी तलाश कंदा आहिनि. के मंदर टिकाणा भेटे भगिती कनि त के योगु पचाइनि. इन जे उबतड़ि के पंहिंजे घर - गिरहस्तीअ जे जार में फासी माया जा गुलाम बणिजी वेंदा आहिनि. वैरागी थियणु या प्रपंच (गिरहस्तीअ) में फासणु, इहे ब हिक बिए जे विरुद्ध हूंदड़ किनारा आहिनि.

मगर सामी साहिब हिकु विच वारो रस्तो, मध्यम मार्गु बुधाइनि था, जंहिं में अतिरेकु नाहे, हद टपी वहिंवारु करणु नाहे. इन करे हू मनुष खे समुझाईं दे चवनि था त तोखे वैरागु वठण जी ज़रूरत नाहे ऐं न ई तोखे घर - गिरहस्तीअ जी गप में गपी परमार्थ खां परे रहिणो आहे. तूं विवेकु धारि. विवेक खां कमु वठु. घर गिरहस्तीअ जे तकिलीफ़ुनि, किरकिर, दुखनि खां छुटण लाइ वैरागु वठण सां त इन्सानु अविवेक जे करे बियनि संकटनि में वञी पवंदो. तूं वैरागु वठणु थो चाहीं त मन सां, मन जे विर्तियुनि द्वारां वैरागु वठु, जंहिं लाइ सन्यासु वठण, घर त्यागण जी ज़रूरत नाहे. तूं घरबारु संभालींदे, प्रपंच जा फ़र्ज़ पालींदे भगवान जी भगिती करे सघीं थो. सत्गुरुनि जे वचननि ते हली, नामु स्मरण कंदे तूं आत्मज्ञानु हासिल करे सघीं थो, तंहिंकरे विवेकु धारे हलति हलु. न त बिन्ही जहाननि खां निकिरी वेंदें; न संसार जो सुखु मिलंदुइ ऐं न ई परलोकु सवलो थींदुइ. पछिताइण ऐं रूअण खां सवाइ बियो कुझु बि तो वटि न बचंदो!

नको आरु न पारु, सुपेरियां जे सिक जो,
सुंवातीअ बिन सिप खे, अचे कीन क़रारु,
मछीअ जे मन में वसे, पाणी पिरान आधारु,
सामी सिरजणहारु, पलक पराहूं न थिए.

प्रीतम (परमेश्वर) जे सिक (प्रेम) जो त कोई अंतु ई कोन्हे. (प्रीतम परमात्मा सां मुंहिंजो अथाहु प्रेमु आहे, जंहिंजो बयानु नथो करे सघां.) मुंहिंजी (भक्त जी) हालति सिप जहिड़ी आहे, जंहिंखे स्वाती नक्षत्र जे बरसात जे पाणीअ बिना चैनु, आरामु कोन ईंदो आहे. मछीअ जे मन में पाणीअ जी ताति हूंदी आहे, पाणी संदसि प्राणनि जो आधारु हूंदो आहे (पाणीअ खां सवाइ मछी मरी वेंदी). तीअं सिरजणहारु, परमेश्वरु मुंहिंजे (भक्त जे) प्राणनि जो आधारु आहे, जेको शल हिकु पलु बि परे न थिए.

सिक मानॉ छिक, प्रेम जी छिक! सिक मानॉ प्रेमु, मुहबत. प्रीतम खे प्रापति करण लाइ सिक/प्रेम जी ज़रूरत हूंदी आहे. बिना सिक-प्रेम जे परमात्मा प्रेमु ई भग़ितीअ जी आत्मा आहे. सन्सारी पदार्थनि बदिरां ईश्वर लाइ सची सिक रखी उन लाइ सिकणु घुरिजे. परमेश्वरु प्रेम जी मूरत आहे. परमेश्वर जो ब्रियो नालो प्रेमु आहे. तंहिंकरे उन सां सचो, अखंडु, अंदर मां, हिर्दे सां प्रेमु करणु घुरिजे. प्रभूअ जे सिक बिना कहिड़े बि मनुष खे पूरन पदु हासिल नथो थी सघे.

पिरीं परमेश्वर सां प्रेमु कीअं करणु घुरिजे? इहा सिक कीअं हुजे? सामी साहिब चवनि था त परमात्मा सां प्रेमु बेअंतु हुअणु घुरिजे, जंहिंजो कोई पारु न हुजे, ला महिदूदु प्रेमु हुअणु घुरिजे, निष्ठावारो प्रेमु हुजे, जंहिं में बेक़रारी, बेचैनी हुजे. मिसाल ॾेई चवनि था त सिप (जंहिं मां मोती निकिरंदो आहे) स्वाती नक्षत्र जे बरसात जो बेचैनीअ सां इंतिज़ारु पेई कंदी आहे. छो त उन नक्षत्र में पवंदड़ बरसात जी हिक बूंद सिप जे अंदरि वञण सां मोती पैदा थींदो आहे. (हिंदू कल्पना). अहिड़ी बेचैनी, अहिड़ी उकीर, अहिड़ी मांदिगी भक्त जे मन में पिणु भग़वान लाइ हुअणु घुरिजे. मछी पिणु पाणीअ खां सवाइ, पाणीअ खां अलग़ि थी रही कान संघदी आहे. पाणी ई मछीअ जो प्राण-आधारु हूंदो आहे. साग़ीअ रीति सिरजणहारु (परमेश्वरु) पिणु सचे भक्त जो प्राण-आधारु थींदो आहे, जंहिंखे हू हिक पल लाइ बि अखियुनि खां ओझलु कोन करणु चाहींदो आहे ऐं न ई विसारणु चाहींदो आहे.

नारायण जे नाम जो, धरियो जिनि धियानु,
कोरे कसे कढियो , तनि अंदर मों अभिमानु,
सामी रहनि साफ़ु सदा, पाए गुर गियानु,
तनी खे भग॒वानु, मालिमु मंझेई थियो.

जिनि नारायण जो, भग॒वान जो नालो हिर्दे में धारणु क्यो, जिनि नामु जपियो, तिनि पंहिंजे अंदर मां अभिमानु कोरे (खरिड़े, खुर्ड़े) कढी छड़ियो, अभिमानु जाचे, छिके तड़े कढियो. अहिड़ा मनुष गुरूअ जो ग्यानु प्रापति करे सदाईं साफ़ु , निर्मल रहण लग॒ा. पोइ उनहनि खे पंहिंजे अंदर में ई, हिर्दे में परमेश्वरु मइलूमु थियण लग॒ो, हू मन में ईश्वर जो दीदारु करण लग॒ा, खेनि महसूसु थियो त ईश्वरु असां जे अंदरि ई आहे.

मनुष-जीवन में या अध्यात्म जे खेत्र में नाम जी व॒डी महिमा आहे. ईश्वर जे प्राप्तीअ लाइ ज्ञान-मार्ग, योग-मार्ग, कर्म-मार्ग जे भेट में नाम-मार्गु सवलो लेखियो वियो आहे. संतनि आम माण्हुनि लाइ नाम-साधना ब॒ुधाई आहे. नामु जपण सां मनु शुध्दि थिए थो ऐं आत्मज्ञानु प्रापति थिए थो. नाम में ई रामु समायलु आहे. नामु ईश्वर जे हस्तीअजी निशानी आहे. नामु ईश्वर जे हुअण जो अहसासु कराईंदड़ु आहे. नामु सच्चिदानंद स्वरूपु हुअण करे उन सां नातो जोड़ण लाइ नाम जहिड़ो ब॒ियो को साधनु कोन्हे. गुरूअ जी किर्पा हुजे, सदाईं प्रभूअ जो नामु जपींदो रहिजे; मन ई मन में प्रभूअ खे ड॒िसिजे.

सामी साहिब पिणु चवनि था त जेकी मनुष परमेश्वर जो नालो जपिनि था, उहे पंहिंजे अंदर मां अभिमानु, अहंकारु, मां पुणो, ख़ुदी कोरे कढी था छड़िनि. संदनि हिर्दो साफ़ु , निर्मलु बणिजी पवे थो. उनहनि खे गुरूअ जो ग्यानु मिलण करे हू उन योग्य (जोगि॒) बणिजनि था. संत तुकाराम जी वाणी बि ब॒ुधाए थी त भग॒वान जो नामु जपण सां टिनि प्रकारनि जा दुख दूरि थी वञनि था- दैहिक (शरीर जा), भौतिक (सन्सार जा) ऐं दैविक (प्राल॒ब्ध जा).

श्रध्दा सां नामु जपण करे भूत-प्रेतनि जी पीड़ा नष्ट थी वञे थी. भग॒वान जे नाम सां भग॒तु पहिलाजु तरी वियो. पापी अजामिल पिणु मरण वक़्ति सिर्फ़ 'नारायण, नारायण' पुकारे तरी वियो. वाल्मीकी रिषी 'राम राम' चवण बदिरां 'मरां मरां' चई वियो पर हुन जो बि उध्दारु थी वियो. नाम सां पथर बि तरी विया. नाम-स्मरणु करण वारे खे यम जूं यातनाऊं कोन थियूं सहणियूं पवनि. हक़ीक़त में नामु जपण सां मनुष व॒ड्रो पुण्यात्मा बणिजी पवे थो. नाम जी

निरिगुणु ऐं सरिगुणु, ॿेई आकार अलख जा,
जंहिंखे पिरेम परितीति सां, मने तुंहिंजो मनु,
तंहिंजो करि तदरूपु थी, बिनां भेद भॼनु,
पिरीति उते परिसनु, सामी थींदुइ सुपिरीं

निर्गुण ऐं सगुण-इहे ॿई आकार उन अलख जा, परमेश्वर जा, परब्रह्म जा आहिनि. परमात्मा जे इनहनि ॿिन्ही रूपनि मां जंहिंखे बि तुंहिंजो मनु मञे, जंहिंखे बि प्रेम सां अनुभवु करे, तूं उन जी भॻिती, पंहिंजे मन मां ॿियाई कढी, हिकरूपु थी करे सघीं थो. सची प्रीति हुअण सां ई प्रीतमु परमेश्वरु राज़ी थींदुइ.

ब्रह्मु (परमेश्वर) हिकिड़ो ई आहे, जेको आकास खां बि वधीक निर्मलु आहे. ब्रह्मु आस्मान जेॾो विशाल आहे. बेअंत ब्रह्मांड खे ब्रह्म व्यापे छड़ियो आहे. ब्रह्मु निर्गुण आहे, गुणनि खां परे आहे. ब्रह्मु बेअंतु ऐं अलखु आहे , उन खे अखियुनि सां ॾिसी नथो सघिजे. हू निर्‌विकार हूंदो आहे ऐं कल्पना खां परे आहे. ब्रह्म जो वर्णनु करण महिल वाणी बि बीहिजी थी वञे, अहिड़ो सिध्दांतु वेदनि ई ॿुधायो आहे, जेकी ब्रह्म खे 'नेति नेति' (अहिड़ो नाहे, अहिड़ो नाहे) चवनि था. अहिड़े सूख्यम ऐं इंद्रियुनि खां परे हूंदड़ ब्रह्म जा केतिराई नाला आहिनि. सगुण नालो पिणु ईश्वर जो ई आहे. सगुणु-गुणनि वारो, रंग, रूप ऐं आकार वारो ईश्वरु, जेको ॾिसी सघिजे थो.

अविनाशी ब्रह्म जे कहिड़े बि रूप जी भॻिती करे सघिजे थी. इहे ॿई आकार परब्रह्म जा आहिनि. तंहिंकरे इन्सान जो मनु जंहिंखे चाहे उन जी उपासना करे सघे थो. जेको बि नालो असांखे सुठो लॻो, उन जो जपु कजे. शर्तु प्रेम जो आहे. याने भॻिती प्रेम सां कजे, हिर्‌दे सां कजे, श्रध्दा ऐं विश्वास सां कजे. सगुण या निर्गुण जो भॼनु, जपु तद्‌रूपु थी, हिकरूपु थी, एकाकार थी करणु घुरिजे. मन मां द्वैत -भावु, ॿियाई कढी भॼनु करणु घुरिजे. न त हिर्‌दे जी ॻंढि कान खुली संघदी, संशय दूरि कोन थी सघंदा, अंदर जी ॿूझ कान पइजी संघदी. भॻवानु सभिनी जो शरण-दाता आहे. सचे प्रेम सां, भॻिती-भाव सां ई साईं प्रसन्नु थिए थो. सचा प्रेमी एकाकार बणिजी राम/ईश्वर जो नामु जपींदा आहिनि-

जो जन प्रेमी राम के, तिनकी गति है येह।
देह के उद्‌यम करे, सुमिरन करे विदेह।।

पथर पूज़ा कनि, देवु न डिसनि देहि में,
पंडितु ज़ाणी पाण खे, करिमनि मांझे ब़झनि,
साखां संतनि जूं बुधी, मरमु न रखनि मनि,
से कीअं रंगि रचनि, सामी सुपेरियनि जे.

संसार जा माण्हू पथर खे भग़वानु समुझी उन जी पूज़ा कनि था. हू पथर पूज़िनि था पर पंहिंजे शरीर में वेठल भग़वान खे कोन था डिसनि. के माण्हू पाण खे पंडतु, पड़हियलु-ग़ड़हियलु - विद्वानु समुझी कर्मनि में ब़धिजी कर्मकांड कंदा रहनि था. मगर अहिड़ा मनुष संतनि जा साख्यात वचन/उपदेश बुधी करे बि पंहिंजे मन में विवेकु/समुझ कोन था रखनि. अहिड़ा नासमुझ, अज्ञानी इन्सान प्रियतम परमेश्वर जे रंग में कीअं रङिबा?

वहिंवार जे लिहाज़ खां आस पास जे शयुनि वग़ेरह जी ज़ाण (मइलूमियत) न हुअण खे अग्यानु (अज्ञानु) चयो वेंदो आहे. अध्यात्म मूजिबु आत्मज्ञान खे ज्ञानु चवंदा आहिनि ऐं आत्मज्ञान जे अभाव खे अज्ञानु चवंदा आहिनि. संसार में अहिड़ा अज्ञानी माण्हू ई घणा हूंदा आहिनि, जिनि खे आत्मज्ञानु कोन हूंदो आहे. अहिड़ा अज्ञानी पंहिंजे ब्रह्म-स्वरूप के विसारे छडींदा आहिनि ऐं देहि खे ई सभु कुझु समुझंदा आहिनि. अहिड़ा जीव पंहिंजीअ आत्मा खे विसारे छडींदा आहिनि. माया जे पर्दे करे हू पंहिंजे हिर्दे में परमात्मा खे डिसी कोन सघंदा आहिनि. अंदर में परमात्मा हूंदे बि हू ब़ाहिर पिया परमात्मा खे ग़ोल्हींदा रहंदा आहिनि अहिड़ा. अज्ञानी इन्सान पथर खे भग़वानु ज़ाणी उन जी पूज़ा कंदा आहिनि, मंदर टिकाणा भेटींदा आहिनि. मगर अंदर में झाती पाए परमात्मा खे पसण जी कोशिश कोन कंदा आहिनि.

अज्ञानी जीवनि जो ई बयानु कंदे सामी साहिब चवनि था त उहे पाण खे वडा पंडत, विद्वान समुझी करे नाना प्रकारनि जे कर्मकांडनि में पाण खे ब़धी छडींदा आहिनि. हू प्रभूअ सां प्रेमु रखी भग़िती करण बदिरां कर्मकांड खे अहमियत डींदा आहिनि. संतनि जा वचन या साखियूं, उपदेश आदी बुधी करे बि उन जो मरमु, राज़ु कोन था समुझनि. अंदर में परमेश्वरु पसण बदिरां ब़ाहिरियनि साधननि द्वारां पूज़ा आदी करण वारा इन्सान भला प्रभूअ जे प्रेम जे रंग में कीअं रङिजी सघंदा? प्रियतम परमेश्वर जो दीदारु कीअं करे

ज्यों नैनन में पूतली, त्यों खालिक घट मांहिं ।
मूरख लोग न जानहीं, बाहर ढूँढन जाहिं ।।

परिची जंहिं पियासे, साधूअ जो संगु कियो,
सहजे थियो सामी चए, तंहिंजो पटु पासे,
अंदरि ब॒ाहरि नभ जां, साखी सम भासे,
फिरी ना फासे, अविद्‌या जे अहंकार में.

सामी साहिब चवनि था त जंहिं प्यासे इन्सान राज़ी थी साधू-संत जो संगु कयो, उन जे साम्हूं वारो माया/अविद्‌या जो पर्दो (पटु) आसानीअ सां परे हटी वियो. जंहिं करे उन खे हर हंधि परमात्मा हुअण जो आभासु थियण लगो॒. जीअं आकाशु अंदरि चाहे ब॒ाहिर समान रूप में मौजूदु हूंदो आहे, तीअं परमात्मा सर्व व्यापक आहे. जंहिं जीव खे इन ग॒ाल्हि जो अहसासु थियो आहे, उहो वरी अविद्‌या जे अभिमान में कोन थो फासे.

अविद्‌या मानॉ अग्यानु, अणज॒ाणाई. अविद्‌या मिथ्या या कूड़ी हूंदी आहे. असत् या कूड़ी वस्तूअ जो आभासु पैदा कराईंदड़ शक्ती मानॉ अविद्‌या. अविद्‌या जे उपाधीअ करे ई जीवात्मा ब्रह्म खां जुदा न हूंदे बि जुदा ड॒िसण में अचे थो. अविद्‌या आत्मा खे जीव जे रूप में ब॒धी थी छड॒े . माया वांगुरु ई अविद्‌या पिणु जीव खे ब॒न्धन में विझण वारी आहे. इहा जीव खे मलीनु/मेरो थी करे, जीव खे पाप जे कर्मनि में थी विझे. इहा जीव लाइ ब॒न्धनकारक आहे. संसार जा लग॒भग॒ सभई जीव अविद्‌या जे अहंकार /अभिमान में फाथा पिया आहिनि. विर्ला के सत्पुरुष, साधू-संत अविद्‌या खां आजा आहिनि.

अहिड़ा आत्मज्ञानी संत ब॒ियनि जो पिणु कल्याणु करण जी इच्छा रखंदा आहिनि.अहिड़नि पूरन संतनि जी सुहिबत/ संगु पाए साधारणु इन्सानु पिणु आत्मग्यानी बणिजे पवे थो. संतनि जे सहवास में ऐं उनहनि जी किर्पा सां संदसि अंदर जो अभिमानु, अविद्‌या जो अहंकारु, मांपुणो, देहि जो अभिमानु आदी निकिरी वञे थो . इहा संत-सहवास जी ई करामत आहे, जो हू संसार में हर तरफ़ि, अंदरि -ब॒ाहिर, हर पदार्थ में परमेश्वर खे व्याप्त ज॒ाणे थो. भेद-भाव जी हुन जी नज़र हली वञे थी ऐं हू सम-दृष्टी पाए थो. जीअं आकासु हर शइ / पदार्थ जे अंदरि-ब॒ाहरि मौजूदु हूंदो आहे, तीअं हू पिणु परमेश्वर खे सर्वव्यापी ज॒ाणे थो. हाणे हुन में अविद्‌या जो अहंकारु आदी कोन थो रहे, इन करे हू वरी उन अविद्‌या जे ब॒ंधन में कोन थो फासे. संगति जे करे हू मुक्त - अवस्था प्रापति करे अलोकिक सुखु संतोषु हासिल करे थे. अहिड़ो प्रतापु आहे. संतनि जे संग जो !

सत संगति में सुख बड़ा, जो करि जाने कोय।
आधो छिन सतरंग को, कलिमल ढारें खोय।।

पलि पलि कनि पुकार, कुठा दर्‌द फ़िराक़ जा,
पसण काणि पिरींअ जे, रूअनि ज़ारों ज़ार,
सामी चए सरीर जी, रखनि कान संभार,
आउ मिलु जानी यार, न त डियूं था दमु दर्द में.

परमात्मा जे विरह जे दर्द (दुख) में कुसिजी वियल प्रेमी जन हर पलि पिया था पुकारीनि. प्रियतम परमात्मा खे पसण (डिसण) लाइ हू ज़ारूं ज़ार पिया था रूअनि, गोड़हा गाड़िनि. सामी साहिब चवनि था त हू प्रभूअ जे प्रेम में अहिड़ा त देवाना बणिजी विया आहिनि जो हू पंहिंजे सरीर जो बि ओनो (संभाल) कोन था कनि. चवनि था त हे महबूब, जल्दी अची मिलु. न त तुंहिंजे विछोड़े जी पीड़ा में ई असांजो साहु निकिरी वेंदो.

प्रियतम परमेश्वर जे प्रेम जो बाणु जडहिं भक्त जे हिर्‌दे के लगंदो आहे, तडहिं भक्त जो हिर्‌दो घायलु थी पवंदो आहे. पोइ हू तेसिताईं पियो फथिकंदो आहे, जेसिताई प्रियतम जो दर्शनु न थियो आहे. मगर कठोरु प्रियतमु किथे थो जल्दी अचे ऐं दर्शनु डेई भक्त सां मिले? तंहिंकरे भक्तु परमेश्वर जे विरह में पियो तड़पंदो ऐं रूअंदो रहंदो आहे. पिरींअ जी राह डिसंदे डिसंदे अखियुनि मां गोड़हा पिया वहंदा आहिनि. प्रभूअ खे पुकारींदे पुकारींदे संदसि जिभ ई छिलिजी पवंदी आहे. विरह - वेदना में हू जणू मरी वियो हूंदो आहे - जेको संसारी दुखनि ऐं सूरनि खां निरालो हूंदो आहे. इहो दर्दु पिणु हिकु आनंदु ई हूंदो आहे, जेको बयानु नथो करे सघिजे. भक्तु इन रोदन में अद्‌भुत सुख-आनंद जो अनुभवु कंदो आहे.

सामी साहिब जंहिं प्रेमी भक्त जो, या भक्तनि जो वर्णनु कयो आहे, उहे परमात्मा जे प्रेम ऐं दर्शन जा प्यासी आहिनि. उन्हनि में प्रीतम परमेश्वर सां मिलण जी व्यकुलता आहे. उहे हिस्टीरिक प्रेम - उन्माद जा पांधीअड़ा आहिनि, जे विरह अवस्था में सदाईं रूअंदा रहनि था. परमात्मा जे दर्शन या मिलन खां सवाइ बी का कामना कान रही अथनि. हू मीरां जियां 'प्रेम-दीवाना' बणिजी चुका आहिनि, जिनि खे पंहिंजे सरीर जी बि सुधि-बुधि नाहे. पिया था पुकारीनि प्रभूअ खे - जल्दी आउ, जल्दी आउ! न त तुंहिंजे विरह जे दर्द में असांजा प्राण ई निकिरी वेंदा!

पिया बिन रह्यो न जाय ।।
तन मन मेरो पिया पर वांरू, बार-बार बलि जाय ।।
निसदिन जोऊं बाट पिया की, कब रे मिलोगे आय ।
मीराँ के प्रभु आस तुमारी, लीज्यौ कंठ लगाय ।।

पूजें कोहु पथर, तूं चरिया चेतन खे छडे,
जंहीं साधन सिधि कया, तंहिंजी करि नज़र,
साखी बोले सभ में, थो वियापकु चर अचर,
सामी अजर अमर, छडे पूजि म पिंड खे.

सामी साहिब मनुष खे समुझाईंदे चवनि था त तूं चेतन (परमेश्वर) खे छडे पथर (अचेतन जड़) खे छोथो पूजीं ? अड़े, तूं उन (परमेश्वर) डांहुं ध्यानु डे जंहिं संसार जा सभई साधन सिधि कया आहिनि. (जंहिं हीउ सारो विश्वु रचियो आहे.) उहो चेतनु, परमेश्वरु ई चल अचल (साहवारनि ऐं बेजानि) में साक्षी थी बोले थो. परमेश्वरु अजरु अमरु आहे, उन खे छडे नाशवान पिंड खे, (शरीर/देहि) जी पूजा न करि.

परब्रह्म जा केतिराई नाला आहिनि, ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, आत्मा, विश्वंभर सर्वेश्वर, साक्षीरूप, सर्वज्ञ, चौतन्यरूप, ज्योतिरूप वग़ेरह अनेक नाला हिक परब्रह्म जा ई आहिनि. उन ई हीउ सारो विश्वु, ब्रह्मांडु, रचियो, निर्माणु कयो आहे. परब्रह्मु (परमेश्वर) संसार जे सभिनी पदार्थनि में व्यापियलु आहे, सारे ब्रह्मांड में व्यापियलु आहे. अपरंपार, बेअंत ब्रह्मु निराकार आहे, चम जे अखियुनि सां उहो डिसी नथो सघिजे. शाश्वत ब्रह्म/परमेश्वर खे डिसण लाइ मनुष खे सत्गुरूअ जी ओट वठणु खपे. सत्गुरू ई इन्सान जी अविद्या, अज्ञान जो पर्दो हटाए अंतर्ज्ञानु डींदा आहिनि. अंतरज्ञान ज़रीए इन्सान खे अंतरात्मा महसूस थी सघे थो.

सामी साहिब समुझाणी डींदे इन्सान खे चवनि ता त तूं परमेश्वर जे दर्शन लाइ या मोखु हासिल करण लाइ पथर जहिड़ी अचेतन, जड़ वस्तूअ जी पूजा करण बदिरां सारो ब्रहमांडु रचींदड़ उन चेतन परब्रह्म जो ध्यानु धरि, उन जी ई पूजा करि, भगिती करि. उन सां तोखे सफलता निलंदी. उहो हिकिड़ो ई परब्रह्मु (परमेश्वर)साक्षी रूप में संसार जे सभिनी पदार्थनि में, चराचर जगत में वसे थो. उहो परब्रह्मु अजर अमरु आहे. तूं उन चेतन जी ई पूजा-अर्चना या भक्ती करि. तूं पंहिंजे पिंड (शरीर, देहि) खे अहमियत डेई उन जी पूजा न करि, छो त शरीरु नासवंतु आहे. परब्रह्म खे छडे संसार जी हर शइ नाशवान आहे. हिकु परमेश्वरु ई शाश्वत, दाइम-काइमु ऐं अमर आहे. तूं उन सां मिली हिकु थी वञु. उहो तुंहिंजे हिर्दे में ई त वेठो आहे! बाक़ीबाहिर पथर पूजण सां कुझु बि हासिल कोन थींदुइ.

संत कबीर जे लफ़्ज़नि में

पाहन पूजैं हरि मिलैं, तो मैं पूजूं पहार ।
ताते ये चाकी भली, पीस खाय संसार ।।

पत्थर केरा पूतला, करि पूजैं करतार ।
इसी भरोसे जे रहे, ते बूड़ें मँझधार।।

फुरने मंझि फासी, पिया जीअ जहान जा,
भुली भवनि पाणही, चरिया चौरासी,
सामी बचियो को साध संगि, विरलो वेसाही,
अलखु अबिनासी, घिरी लधो जंहिं घर में.

सामी साहिब चवनि था त संसार जा जीव (इन्सान, माण्हू) अजायनि ख़्यालनि, भ्रमनि, संसनि में (फुरननि में) फासी पिया आहिनि. चरिया इन्सान चोरासी लख जूणियुनि में पिया था भटिकनि. मगर विर्लो को अहिड़ो जीवु हूंदो जंहिं विश्वासु रखी साधू-संत जो संगु करे नज़रि न ईंदड़ ऐं अबिनासी परमेश्वर (ब्रह्म) खे पंहिंजे घर (मन) में ई लधो हूंदो (प्रापति कयो हूंदो, दिठो हूंदो).

इन्सानु जनमु वठे थो. पलिजी वडो थिए थो. हू माया या अविद्या जे करे अनेक बंधननि में फासी पवे थो. पंजनि विकारनि सां वेड़हिजी वञे थो. इन्सानु पंहिंजे असुली रूप खे (मां परमात्मा आहियां 'अहं ब्रह्मास्मि।') विसारे थो छडे. हू पंहिंजे शरीर खे ई सभु कुझु समुझी 'मां कर्ता, मां भोक्ता, मां सुखी' चवंदे अनेक भरमनि में पइजी वहिंवार कंदो रहे थो. हू विसारे थो छडे त सचो आनंदु मुंहिंजे अंदर में आहे. अज्ञान जे करे या आत्मज्ञान जे अभाव करे संदसि मनु बाहिरियुनि गालहियुनि डांहुं डोड़ंदो रहंदो आहे. हक़ीक़त में परमेश्वरु आत्मरूप में असांजे हिर्दे में ई हूंदो आहे ऐं उन जो दर्शनु या अनुभूती करणु असांजो मक़्सदु हूंदो आहे, इहो इंद्रियुनि खां परे हूंदो आहे. हिर्दो फुरननि ऐं विकारनि खां रहित थी वञण खां पोइ ई अहिड़ो अनुभवु हासिल करे सघिजे थो.

अज्ञानी या मूर्ख इन्सान पंहिंजे अंदरि हूंदड़ परमात्मा खे न सुञाणंदे माया मोह जे बंधननि ऐं सन्सनि में पइजी सारी उमिरि पूरी करे था छडिनि. खेनि आत्मज्ञानु कोन थो थिए. अहिड़ा जीव चोरासी लख जूणियुनि में पिया भिटिकंदा आहिनि. उन्हनि खे मोखु या मुक्ती कान मिली सघंदी आहे. जनम-मृत्यूअ जे चकर खां अहिड़ो वेसाही जीवु ई छुटी सघंदो आहे, जेको साधू-संत जो संगु कंदो आहे. विश्वासु रखी जेको सत्गुरूअ जी शरणि में वञे थो, उहो परमेश्वर जो साक्षात्कारु करे सघे थो. अहिड़ो शिषु पंहिंजे हिर्दे में परमात्मा पसे थो. सत्गुर महान हूंदा आहिनि. हू इन्सान खे, शिष खे, असुली रूप जो दर्शनु कराईंदा आहिनि. इहो ज्ञानु, इहा जाण, इहा परमार्थरूपी आत्मविद्या सत्गुर सेखारींदा, डींदा आहिनि. सत्गुरू सत् शिष्य खे निर्गुण निराकार ऐं अविनाशी परमेश्वर जो दर्शनु संदसि हिर्दे में ई कराईंदा आहिनि. जंहिंजे करे शिषु

तुलसी सतगुरु के अहहिं, आनन्द मय उपदेश।
संसय रोग नसाय सब, पावै पुनि न कलेस।।

बिना साधि संगति, सामी सुधिरियो कोन को,
जागी कढु अंदर मों, बी सभ ममिता मति,
पाए ग्याति गुरूअ जी, करि अभेद भगति,
त साखी डिसें सति, चीटीअ ऐं कुंचर में.

सामी साहिब चवनि था त साधू - संतनि जी संगति करण खांसवाइ कोई इन्सानु सुधिरी कोन थो सघे, ग्यानु हासिल नथो करे सघे. तूं पिणु सुजागु थीउ ऐं पंहिंजे अंदर मां ममता, मोहु आदी सभु कढी छडि , पोइ तूं गुरूअ वटां जाण/ग्यानु हासिल करे भगवान जी भेद रहित भगिती करि. इएं करण सां तूं सत् (परमेश्वर) खे साख्यात डिसी सघंदें; किउलीअ ऐं हाथीअ में (संसार जे हर नंढे वडे पदार्थ में) साखी बणिजी ईश्वरु पसी सघंदें.

सचा संत पाण सत् जो आचरणु कंदड़ हूंदा आहिनि. संतनि जो संगु करण सां इन्सानु सुधिरी वञे थो. सत्पुरुषनि जे सहवास में मनुषु संत-सुभाव वारो बणिजी पवे थो. जीवनु कल्याणमय बणाइण लाइ सत्संगरूपी संजीवनी बूटी साणु हुअणु ज़रूरी आहे. जंहिं साधू - संतनि जी संगति कान कई आहे, उन खे वेद-पुराण पड़हण खां पोइ बि लाभु कोन मिलंदो. चित्त खे पवितरु बणाइण लाइ सत्संगु करिणो ई पवंदो -

सतसंगति को फल यही, संशय रहइ न लेस।
ह्वै अस्थिर शुचि सरल चित्त, पावै पुनि न कलेस।।

सामी साहिब पिणु साध - संगति जी महिमा बयानु कनि था. संतनि जे संग खां सवाइ इन्सानु सुधिरी नथो सघे. इन करे सत्संगु करे, सुजागु थी पंहिंजे मन मां ममता, मोहु, कुमति आदी विकार कढी करे मनु साफ़ु, निर्मल बणाइणु घुरिजे.संतनि जो संगु जीवनु सफलु बणाइण जो हिकु सवलो मार्गु आहे. परम कल्याणु कंदड़ सत्संग ते ज़ोरु डींदडु संत तुकाराम पिणु इहाई गालहि थो चवे, जा सामी साहिब चवनि था. चवंदा आहिनि त 'संगु तारे, कसंगु बोड़े' सुठनि माण्हुनि जी, संतनि जी संगति मनुष खे अधर्म, कूड़ - कपट, अविचार ऐं अविवेक खां पासे थी कराए. मनुष खे अगर सचो गुरू मिली वञे त हू परमेश्वर जो दर्शनु करे सघे थो. सामी साहिब मनुष खे डसु डियनि था त तूं गुरूअ जे ग्यान द्वारा अहिड़ी भगिती करि, जंहिं में कंहिं बि क़िस्म जो भेदु या फ़र्क़ु नाहे. पोइ तूं संसार जे हर सजीव - निर्जीव पदार्थ में प्रभूअ खे प्रतखि डिसी सघंदें, सत्य जो, ब्रह्म जो दीदारु करे सघंदें.

बेअंत जो अंतु, कंहीं पातो कीनकी,
समुझे को सामी चए, सुजाखो संतु,
डिठो जंहिं अखिनि सां, भेद बिना भगवंतु,
जिएं कामिणि पाए कंतु, रती वते रंग में.

परमेश्वर बेअंतु आहे, जंहिंजी का हद या सीमा ई कान्हे. इहा गालहि को सुजागु संतु ई समुझे थो. उन संत ई पंहिंजे अंदर जे अखियुनि सां बिना कंहिं भेद (बियाईअ) जे भगवान जो दर्शनु कयो आहे. भगवान जो दर्शनु करे हू उन आनंद में इएं मगनु थी वियो आहे, जीअं का सुहिणी स्त्री (कामिनी) पंहिंजे कंत, प्रियतम पतीअ खे प्रापति करे उन जे प्रेम जे रंग में रङिजी वेंदी आहे.

जगत जो आदि कारणु ऐं आधारु चेतन तत्वु आहे, इन खे 'ब्रह्मु' चयो वियो आहे. 'बृह' धातूअ जो अर्थु आहे वधणु, वडो थियणु.इन धातूअ मां 'ब्रह्म' लफ़्ज़ु ठहियो आहे. जेको सदाईं वधंदो रहे थो, जंहिंखे का सीमा कान्हे, जेको सर्वव्यापी ऐं अबिनासी आहे, उन मूल चेतना या परमात्मा खे 'ब्रह्म' नालो डिनो वियो आहे. (संतनि जे नज़र में परमेश्वरु ई आख़रीनि या परम सत्ता आहे.) वेदान्त-मत अनुसार ब्रह्मु सर्वश्रेष्ठ हिकिड़ो ई लासानी 'सत' तत्वु आहे. ब्रह्म, माया ऐं ईश्वर, टिन्ही खे मिलाए 'परमेश्वर' चयो वञे तो, जंहिंखे 'सच्चिदानंद' पिणु नालो डिनो वियो आहे. आम तोर गाल्हाइण में 'ब्रह्म' ऐं 'ईश्वर' बई हिकु ई मञिया विया आहिनि. मगर सूख्यम अर्थ सां बिन्ही में फ़रकु नज़रि अचे थो. ब्रह्म जो स्वरूपु नितु निर्गुणु हुअण करे उहो कडहिं बि ज़ाहिरी रूपु धारणु कोन थो करे, न ई इहो मापे सघिजे थो. इन करे ब्रह्म के 'अगाध', बेअंतु चयो वयो आहे. 'ज्ञानी' मनुष ब्रह्म जे स्वरूप में पवित्रु बणिजी वेंदा आहिनि. 'भक्त'/भगत वरी 'ईश्वर जे स्वरूप' में पवित्र/पावन थींदा आहिनि. प्रेम जे करे, भगितीअ जे करे भक्त खे साख्यात ईश्वर-स्वरूप जी प्रापती थिए थी त ज्ञान जे द्वारा 'ब्रह्म-स्वरूप' जी प्राप्ती थिए थी.

सामी साहिब पिणु बेअंत ब्रह्म या परमेश्वर जे बारे में बुधाइनि था, जंहिंजी थाह उहो ई संतु-सत्पुरुखु लही सघे थो, जंहिंखे अंतर्ज्ञानु थियो आहे, जेको सुजागु थियलु आहे, इन लाइ हुन मन मां बियाई (भेदु) कढी करे परमात्मा जो दर्शनु कयो आहे. प्रभूअ जे दीदार थियण सां हू अहिड़े सचे सुख / आनंद में इएं मगनु थी वियो आहे, जीअं का कामिनी, सुहिणी स्त्री पंहिंजे प्रियतम पतीअ के प्राप्त करे हुन जे प्रेम-रंग में लिंवलीनु थी वेंदी

नयनों की करि कोठरी, पुतरी पलँग बिछाय ।
पलकों की चिक डारिकै, पिय को लिया रिझाय ।।

बेहदि बेपरिवाह, सामी डि॒ठा संत जन,
रखनि न रतीअ जेतिरी, चित में चिंता चाह,
चड़हिया अनभइ अछ ते, रहति सचीअ जी राह
जाडे॒ कनि निगाह, ताडे॒ सज॒णु सामुहूं.

वेदांत जा अभ्यासी ऐं कवी सामी साहिब हिन श्लोक में संतनि जे बारे में बु॒धाईंदे चवनि था त मूं संतनि खे हद खां वधीक बेपरिवाहु डि॒ठो. संतनि खे ईश्वर खां सवाइ बि॒ए कंहिंजी बि परिवाह कान थिए. संतनि जे मन में तिर जेडी॒ बि चिंता कान डि॒ठी ऐं न ई रतीअ जेतिरी चाहना/कामना डि॒ठी. सचनि संतनि खे ज्ञानु, आत्मज्ञानु प्रापति थियलु हूंदो आहे. हू निर्मलु हूंदा आहिनि ऐं सची राह ते हलंदड़ हूंदा आहिनि. हू हर पदार्थ में ईश्वर खे पसंदा/ डि॒संदा आहिनि. संत जेडां॒हुं बि निहरींदा आहिनि त परमात्मा समुहूं नज़रि ईंदो अथनि.

पूरन पद ते पहुतल संत संसार में रहंदे बि सदाईं निर्लेप रहंदा आहिनि - कंवल जे गुल समान! 'ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप , जैसे जल मे कंवल अलेप।' (गुरू अर्जुन देव) सचनि संतनि खे कंहिं गा॒ल्हि जी, पर्वाह, फ़िकिरु या चिंता कान हूंदी आहे. भला जिनि जे मन में ज्ञान जो प्रकाशु थी वियो आहे, जंहिं ईश्वर खे जा॒तो-सुञातो आहे, जिनी जे मन में प्रभू पाण वसे थो ऐं जा संसार जे हर वस्तूअ में परमात्मा जो दीदारु कयो आहे, उन्हनि खे चिंता छाजी थींदी ? उन्हनि जूं मनोकामनाऊं त पहिरीं ई ईश्वर पूरियूं करे छडि॒यूं हूंदियूं आहिनि. संदनि हिर्दे मां बि॒याई, द्वैतु वग़ेरह विकार निकिरी वञण करे उहे निर्मलु बणिजी पवंदा आहिनि. इन करे हू जेडां॒हुं बि नज़र कंदा आहिनि त सज॒ण जो, ईश्वर जो ई सामुहूं दीदारु कंदा आहिनि. जग॒त जे जड़ ऐं चेतन पदार्थनि में खेनि परमात्मा ई डि॒सण में

आशा तजि, माया तजै, मोह तजै अरू मान ।
हरष शोक निंदा तजै, कहैं कबीर संत जान ।।

ॿधो सभु जहानु, माया फासीअ फंद रे,
पर्चिया रहनि पिंड सां, भुलाए भॻिवानु,
जाॻी कढनि कीनकी, अंदर मों अभिमानु,
को सामी पुरखु सुज़ाणु, समुझी चड़हियो सीर ते.

सामी साहिब चवनि था त माया सारे संसार खे पंहिजे फंदे में ॿधी छॾियो आहे. माया जे ज़ार में फाथल इन्साननि पंहिंजे शरीर खे ई सभु कुझु ऐं सचो समुझी भॻवान खे भुलाए/ विसारे छॾियो आहे. इन्सान सुजाॻु थी पंहिंजे अंदर मां अभिमानु/ अहंकारु कोन था कढनि. दुनिया में विर्लो को अहिड़ो सुजाॻु ऐं ज्ञानवानु पुरुषु हूॾो जंहिं सचु समुझी हिर्दे मां विकारनि खे कढी छॾियो आहे. अहिड़ो ई इन्सानु प्रवाह जे विच में घिड़ण जी करे थो ऐं ईश्वर खे पाए थे.

माया ईश्वर ई निर्माणु कई आहे,जा सची न हूंदे मिथ्या (कूड़ी) आहे. माया जा अनेक रूप हूंदा आहिनि. सारे जॻत में माया फहिलियल आहे. अलॻि अलॻि रंग रचाइणु माया जो खेलु आहे. अविद्या, अज्ञानु,वग़ेरह माया जा ई ॿिया रूप आहिनि. माया बेहद ॿलवानु हूंदी आहे. माया पंहिंजीअ ताक़त जे ज़ोर ते सारे संसार जे साहवारनि / इन्साननि ते राॼु कंदड़ हूंदी आहे. सामी साहिब पिणु माया जे ज़ोर जो ज़िकिरु कंदे चवनि था त माया पंहिंजी फाहीअ जे फंदे में सारे संसार जे माणहुनि खे ॿधी जकिड़े छॾियो. अर्थात अहिड़नि माणहुनि खे, जे पंहिंजी देहि खे, सरीर खे ई सचु समुझी, सरीर सां प्रेमु कंदे परमेश्वर खे विसारे छॾियो आहे. माया जे असर हेठि हू अहंकारी बणिजी पिया आहिनि. अंदर मां अहंकारु आदी पंज विकार तड़े कोन था कढनि. अज्ञान जे हुअण करे हू माया जे ज़ार मां पाणु छॾाए कोन था सघनि. मगर को अहिड़ो सचो ऐं ज्ञानी पुरुष हूंदो आहे, जेको सत्गुर - संतनि जी किर्पा सां सुजाॻु थी,अंदर मां अज्ञानु कढी ईश्वर - प्राप्तीअ जे लाइक़ु बणिजंदो आहे, अहिड़ो ई को विर्लो ज्ञानी माया खां पाणु बचाए सघंदो आहे. संत कबीर पिणु चवे थो

कबीर माया मोहिनी, सब जग घाला घानि।
कोई इक साधु ऊबरा, तोड़ी कुल की कानि।।

भ॒गति ड॒िनी भ॒गवान, जनि खे परिची पांहिंजी,
सहजे थिया सामी चए, से नेही निरिब॒ाण,
जनम मरण दुख सुख जी, कलिपत करिनि कान,
रहनि मंझि जहान, सदा अलेपु आकास जां.

जिनि प्रेमियुनि खे भ॒गवान परिची करे, राज़ी थी करे पंहिंजी भ॒गिती (भक्ती) ड॒िनी, उहे सहजता सां इच्छा रहित थी विया, मुक्त थी विया,सन्सनि भरमनि खां छुटी विया. भ॒गवान जी भ॒गिती करण करे हू जनम-मरण जी या सुख दुख जी बि चिन्ता कान था कनि. हू हिन संसार में आकास जियां अलिप्त /न्यारा/बेदाग़ रही भ॒गिती कंदा रहनि था.

भ॒गिती आहे भ॒गवान निस्बति प्रेमु. भ॒गिती हिर्दय जो सौदो आहे. भ॒गिताअ जो रसु सचो भ॒गतु ई वठी सघे थो. ईश्वर जी कि्रपा थींदी, ईश्वरु राज़ी थींदो, त॒ड॒हिं भ॒गिती कारण जी चाहना पैदा थींदी. भा॒गवान वटां मनुष खे ई भ॒गिती कारण जी प्रेरणा मिलंदी आहे. जिनि खे भ॒गिती मिलंदी आहे, उहे प्रेमी जीव संसार जे सन्सनि-भरमनि खां छुटी पवंदा आहिनि. न फ़क़ति एतिरो बल्कि हू संसार जे सुखनि-दुखनि ऐं जनम-मरण जी का बि चिंता कान कंदा आहिनि. हिन दुनिया में रहंदे, घर गिरहस्ती संभालींदे या पंहिंजा दुनियवी फ़र्ज़ निबाहींदे बि कंहिं मोह में कोन फासंदा आहिनि. हू आकाश जियां निर्लेपु ऐं निर्मल बणिजी पवंदा आहिनि. अहिड़ा भ॒गत सन्सार या परलोक जे सुखनि निस्बति उदासीन हूंदा आहिनि. हुननि जूं सभेई कामनाऊं ज॒णु नष्टु थी वेंदियूं आहिनि. भ॒गितीअ जे रंग में रङिजी वञण करे खेनि सरीर जो मोहु कोन हूंदो आहे. हू मृत्यूअ खा बि कोन ड॒कंदा आहिनि.भला जिनि खे भ॒गवान पाण ई राज़ी थी भ॒गिती ड॒ेई छड॒ी आहे, उन्हनि खे डपु छाजो थींदो या खेनि ब॒ी कहिड़ी इच्छा थींदी कुझु प्रापति करण जी? हू त निर्मोही ऐं उदासीनु बणिजी विया हूंदा अहिनि. आस्मानु पिणु धरतीअ खां न्यारो, अलग॒ि हूंदो आहे.

भ॒गितीअ जी अहिड़ाई अनुभूती महाराष्ट्र जे संत तुकाराम पिणु हिननि लफ़्ज़नि में बयानु कई आहे-

आम्ही जरी आस। जालों टाकोनि उदास।।
आता कोण भय धरी। पुढे मरणाचे हरी।।

सामी साहिब जो हिकु ब॒ियो सलोकु पिणु अहिड़े ई अर्थ वारो आहे-

भ॒गिती ड॒िनी भ॒गवान, जनि खे परिची पांहिंजी,
से पीअनि पीआरिनि प्रेम रसु, नेही निर्अभिमान,
सामी साध संगति रे, ब॒ी सुधि रखनि कान,
रहनि मंझि जहान, सदा नियारा नभ जां.

भॻति बिना भॻवानु, कंहीं पातो कीनकी,
समुझे को सामी चवे, नेही निर्‌अभिमानु,
जंहिं खे ॾिनो सतिगुरूअ, दीखिया दरसनु दानु,
करे अमिरतु पानु, इस्थित थियो आकास जां

सामी साहिब चवनि था त भॻिती (बंदगी) करण खां सवाइ कंहिं बि परमात्मा जी प्राप्ती कान कई आहे. को सचो प्रेमी अभिमान खां आजो थी इहा ॻाल्हि महिसूसु करे थो. अहिड़े प्रेमी भॻत (भक्त) खे सत्गुरू महिर करे दीक्षा ॾियनि था, प्रभूअ जो दर्शनु करण जो दानु ॾियनि था. उन खां पोइ उहो भक्तु अमृत पी करे, भॻिती-रस जो आनंदु वठंदे आकाश वांगरु स्थित ऐं निर्मलु बणिजी पवे थो.

परमात्मा सां प्रेम करणु भॻिती आहे. ईश्वर जे प्राप्तीअ लाइ, ईश्वर सां एकता स्थापित करण लाइ भॻिती ज़रूरी आहे. मोख जी प्रापती करण लाइ टे मार्ग ॿुधाया विया आहिनि, जिनि में भॻिती श्रेष्ठ आहे. परमेश्वर जी भॻिती ९ प्रकारनि जी मञी वेई आहे- श्रवण, कीर्तन,स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य ऐं आत्म-निवेदन. इनहनि मां कहिड़ी बि भॻिती करे परमेश्वर खे राज़ी करे फलु हासिल करे सघिजे थो. याने भॻिती करणु लाज़िमी आहे. उन खां सवाइ मुक्ती कान मिलंदी.भॻितीअ जो पदु भारी हुंदो आहे, जेको अनुभव, विश्वास ऐं संतनि या भॻवान जे ई किर्‌पा सां मिले थो. भॻितीअ खां सवाइ ॿियो सभु कूड़ु आहे. भॻिती करणा सां ई अविद्‌या, माया दूरि थी वञे थी.

भॻितीअ खां सवाइ भॻवंतु कोन थो मिली सघे. जीअं गुलनि में सुॻंध समायल हूंदी आहे, तीअं भॻितीअ में भॻवानु समायलु हूंदो आहे. गुलाब जे गुल जी सुॻंध खपे त गुलाब जो गुलु वठिणो पवंदो आहे, तीअं भॻवान खे प्रापति करण लाइ भॻिती करिणी पवंदी आहे. भॻिती करण सां ई सचो ग्यानु, आत्मज्ञानु हासिल करे माया जे ज़ार खां छुटी सघिबो, परमात्मा जो दर्शनु करे अलोकिक आनंदु प्रापति करे सघिबो, जीवनु सफलु करे मोखु हासुल करे सघिबो, जनम-मरण जे दुखनि खां हमेशह लाइ छुटी सघिबो.

भक्ति पदारथ तब मिलै, जब गुरु होय सहाय।
प्रेम प्रीति की भक्ति जो, पूरण भाग मिलाय।। (कबीर)

भगति मंझि भगवंतु, जीएं गंधु फुलनि में,
कोड़िनि में को हिकिड़ो, समुझे संतु महंतु,
जो कलिपत कढी जीअ मों, सामी थियो बलवंतु,
जंहिंजो आदि न अंतु, सो डेवु डिठाईं डेहि में.

सामी साहिब चवनि था त जीअं गुलनि में ख़ुश्बूइ समायल हूंदीआहे, तीअं भगवानु भगितीअ में समायलु आहे. किरोड़ें इन्साननि में हिकिड़ो को अहिड़ो सत्पुरुषु, संतु-महंतु हूंदो, जंहिं इहा गाल्हि समुझी पंहिंजे अंदर मां सभु सन्सा, फुरिणा (कलिपत) कढी छडी हूंदी. अहिड़ो शख़्सु बलवानु, सघारो थी वियो हूंदो. अहिड़ो जीवु ई पोइ भगितीअ द्वारा पंहिंजीअ देहि (सरीर, डेहि) में अनादी अनंत परमात्मा जो दर्शनु करे थो.

शांडिल्य रिषीअ जे लफ्ज़नि में **'ईश्वर सां परम अनुराग (प्रीति) हुअणु भगिती आहे.'** भगवानु भगितीअ जो, भावना जो बुखायलु हूंदो आहे. भग्वान जे दर्शन लाइ, प्रभूअ जी प्राप्ती करण लाइ,आत्म - साख्यात्कार लाइ भगिती करणु ज़रूरीआहे. ईश्वर खे फ़क़ति पनु, गुलु, फलु या पाणी बि अगर भगिती-भाव सां अर्पुणु कयो वञे त प्रभू परसनु थींदो. छकाणि त भगवानु भगितीअ में ई समायलु आहे. भगवान खे भगितीअ खां बाहिर गोल्हणु ठीकु नाहे. जिते भगिती आहे, उते भग्वानु जरूरु हृंदो. भगितीअ जा ९ क़िस्म बुधाया विया आहिनि. उन्हनि मां कहिड़े बि क़िस्म जी भगिती करे सघिजे थी. श्रवण, कीर्तन,अर्चना, वंदना वग़ेरह सभिनी भगितियुनि में ईश्वर आहे. ईश्वर सां अनन्य भाव सां, एकनिष्ठ भाव सां, परम भगिती करणु ज़रूरी आहे. अहिड़ो अटल प्रेमु हूंदो तडहिं उहा सची भगिती बणिजे थी.

भगवंतु भगितीअ में ई समायलु आहे, इहो राज़ु करोड़नि में को विरलो सत्पुरुषु, संतु या महंतु ई समुझी सघंदो. आम माण्हू पंहिंजे सरीर सां प्रेमु कंदड़ हुअण करे पंहिंजी आत्मा खे, पंहिंजे आत्मस्वरूप खे सुञाणे या समुझी कोन था सघनि. इन करे हू संसार जा सुख दुख भोगींदा रहनि था. लोभ, मोह, अहंकार आदीअ में फाथल रवाजी माण्हू पंहिंजे अंदर मां सन्सा, भरम या बिया विकार कढण में समरथु कोन हूंदा आहिनि. मगर अपवाद रूप में को अहिड़ो संतु-सत्पुरुखु हूंदो आहे, जेको परमेश्वर जी भगिती करे ज्ञानी बणिजी पवे थो. आत्मज्ञान द्वारा हू पंहिंजे ई अंदर में, मन में उन परमेश्वर जो दर्शनु करे थो, जेको बेअंतु आहे, अनंतु आहे, जंहिंजो आरंभु बि कोन्हे.
परमेश्वर जी भगिती जणु मुक्तीअ/मोख जी डाकणि आहे. इन डाकणि ते संत ऐं आत्मग्यानी पुरुष चड़ही सघनि था. इहा गाल्हि कबीर जे लफ़्ज़नि में,

भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाम।
जिन - जिन मन आलस किया, जनम-जनम पछेताय।।

भावना करे भगतु,मिलाए महबूब सां,
भावना विझी भरम में, नितु रुआरे रतु,
समुझी डिसु सामी चए, छडे मोहु ममतु,
गिरहस्ती अऊं विरिखतु, भावना में भासी रहियो.

सामी साहिब भावना (मनुष जी मानसिक धारणा, विर्ती) जी प्रबलता जो वर्णनु कंदे चवनि था त इन्सान जी भावना ई हुन खे भक्तु थी बणाए ऐं महबूब परमेश्वर सां मिलाए. इहा ई भावना वरी किनि मनुषनि खे भरमनि-सन्सनि में विझी दुखी करे सदाईं पेई थी डाढो रुआरे. तंहिंकरे, सामी साहिब समुझाइनि था त तूं सोचु वीचारु करि ऐं मोह - ममता खे छडे डे. भावना त सभिनी में हूंदी आहे, चाहे गिरहस्तीअ वारो (प्रपंच वारो) हुजे या विरक्तु (वैरागी) हुजे, उहो भावना में भासिजी, नज़रि अची रहियो आहे.

भावना मानॅ मन जी विर्ती. भावना जो अर्थु आहे मानसिक धारणा या मनोकाना. वाल्मीकीअ जे शब्दनि में, **'यादृशी भावना यस्य सिध्दिर्भवति तादृशी।'** याने जहिड़ी जंहिंजी भावना हूंदी, तहिड़ी गाल्हि या सिध्दि प्रापति थींदी. पंहिंजीअ भावना अनुसार सभिनी के फलु मिलंदो आहे. **'जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी'।** भावना शुध्दि हूंदी त सुठो फलु मिलंदो, अशुध्दि हूंदी त फलु बि उहड़ो ई मिलंदो. भावना जा ब क़िस्म थियनि **१) लैकिक २)** ईश्वरी. लैकिक भावना जा ब क़िस्म थियनि -१) घटि दर्जेवारी भावना. इन में दुनियवी/संसारी भोग भोगण माणण जी कामना हूंदी आहे. २) श्रोत्रीया. यज्ञ आदी करे परलोक जा भोग भोगण जी **इच्छा. ईश्वरी** भावना में मोख-मुक्ती अ लाइ ईश्वर जो चिंतनु हूंदो आहे.

भावना जे करे, पंहिंजे मन जे विर्तीअ करे इन्सानु चङो-बुरो, सचो - कूड़ो, सियाणो-अयाणो, मोहग्रस्तु-वैरागी वग़ेरह बणिजे थो. सामी साहिब पिणु इन भावना जो असाराइतो वर्णनु कयो आहे. असांजा वेद-पुराण बि इहा ई गाल्हि चवनि ता त भावना मूजिबु ई हर कंहिं के फलु मिले थो. इहा भावना ई आहे, जेका कंहिं मनुष खे भक्तु/भगतु बणाए प्रियतम परमेश्वर सां थी मिलाए त कंहिं खे भरम-सन्से में विझी उन खे सदाई रुआरींदे बर्बादि थी करे छडे. इन करे सामी साहिब मन खे समुझाणी डींदे मोह - ममता खां परे रहण जी, इहे विकार मन मां कढी छडण जी सलाह डियनि था. संसार जा माण्हू भावना जे करे ई डिसण में अची रहिया आहिनि-उहे चाहे घर गिरहस्तीअ वारा हुजनि या हुजनि विरक्त, वैरागी. **स्वामी टेऊंराम** साहिब जनि जे लफ्ज़नि में-

हे संसारी चित्त उदारी, भावना तूं करि भली ।
करि हुश्यारी, बणु विचारी, ग़ैर वारी छडि गली ।।

मनु मथुरा, दिलि दुवारिका, काया मंझि कासी,
चेतन वसे चित में, अलखु अबिनासी,
पेही डिसे पाण में, को विर्लो वेसासी,
वञी थिए वासी, बेहद बेगम पुरि जो.

अखियुनि सां डिसण में न ईंदडु (अलखु, अलक्ष्य), शाश्वत, चेतनु (परमेश्वरु) मनुष (जीव) जे चित में ई रहे थो . (परमात्मा असांजे अंदर में ई आहे) तंहिं करे असांजो मनु ई मथुरा आहे, दिलि द्वारिका आहे. ऐं असांजे शरीर में ई काशी (तीर्थस्थान) आहे. इहा गाल्हि विर्लो को वेसाही मनुषु पंहिजे अंदर में पेही (घिड़ी, प्रवेशु करे) डिसे थो. पोइ उहो अंतर्ज्ञानी बेगमपुर (परलोक) में वञी रहण लगे थो, परमेश्वर जे वेझो विहे थो.

चेतनु (परमात्मा) जीव (मनुष) जे चित्त में वसे थो. परमात्मा, परमेश्वरु चम जे अखियुनि सां डिसण में कोन ईंदो आहे. परमात्मा अविनाशी आहे. इहो परमात्मा असांजे अंदर में रहे थो. माया जे पर्दे करे असीं उन के डिसी कोन था. सघूं. माया जो पर्दो हटाए, अंदिरियुनि अखियुनि सां असी उन खे डिसी सघूं था. जीअं सूरज जे किर्णो में प्रकाशु अभिन्न हूंदो आहे, किर्णे खां अलगि कोन हूंदो आहे, तीअं परमात्मा जीव में हूंदो tहे एं जीवु परमात्मा म`, जीवु ऐ चेतनु (परमात्मा) जुदा नाहिनि. मगर मनुषु पंहिंजे इन आत्म-स्वरूप खे कोन थो डिसे. जाहिड़ीअ तरह कस्तूरी हरणु जे अंदरि ई कस्तूरी (खथूरी) रहंदी आहे, मगर हरणु पाण में कस्तूरीअ खे न गोल्हे, बाहिर गाह में पियो गोल्हींदो आहे. सागीअ तरह मनुष जे मन में ई परम सत्य (परमात्मा) हूंदो आहे. संत कबीर जो हिकु मशहूरु पदु आहे, जंहिं में परमेश्वरु पाण ई जीव (मनुष) खे चवे थो -

मोको कहाँ ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ।
ना मैं देवल (मंदिर) ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में ।
ना तो कौन क्रिया - कर्म में, नहीं योग वैराग में ।
खोजी होय तो तुरतै मिलिहैं, पल भर की तलास में ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब स्वासों की स्वाँस में ।

परमेश्वरु असांजे हिर्दे में ई आहे. तंहिंकरे सामी साहिब पिणु चवनि था त मनुष जो मनु मथुरा आहे त दिलि द्वारिका. शरीर अंदरि ई काशी आहे. पंहिंजे मन में पेही डिसो त सभु नज़रि ईंदुव. ईश्वर के बाहिर न गोल्हियो. विर्लो मनुषु ई पंहिंजे मन में प्रवेशु करे परमात्मा पसे थो ऐं पोइ वञी प्रीतम परमात्मा सां गडु अलोकिक आनंदु माणे थो.

महबत जी मिसिरी, खाधी जंहिं गुर गियाति सां,
सामी सुख संसार जा, तंहिंखों विया विसिरी,
कलपत काल दीवार खों, पियो परिची पारि किरी,
अचे कीन फिरी, जनम मरण जे दुख में.

ईश्वर निस्बति प्रेम भावना जो ज़िकिरु कंदे सामी साहिब चवनि था त जंहिं मनुष गुरूअ जे ज्ञान या बोध द्वारां मुहबत/प्रेम रूपी मिसिरी खाधी आहे, उन खे एतिरो त आनंदु आयो/मिलियो आहे, जो हुन खां संसार जा, दुनियवी सुख विसिरी विया आहिनि. अहिड़नि ईश्वर-प्रेमियुनि जा सभई भरम ऐं सन्सा मिटिजी विया आहिनि. संदनि जनमु सफलो थी वियो आहे ऐं हू वरी जनम मरण जे चकर में फासी दुख कोन था सहनि, हू मुक्त थी वञनि था.

मुहबत मानॉ प्रेमु. मुहबत या प्रेमु क़ुदिरती शक्ती आहे. पंहिंजे पिरींअ सां, महबूब सां, परम पिता परमेश्वर सां मुहबत करणु रूहानी प्रेमु आहे. ईश्वर निस्बति तिखी प्रीति भगितीअ जो असुली/मूलु ततु आहे. संतनि जे साहित्य मां प्रेम-भावना जे जुदा जुदा पहलुइनि जो दर्शनु थिए थो. मुहबत ऐं भगिती बुई दिलि सां लिंव लाइण खे चवंदा आहिनि. जंहिंजे हिर्दे में मुहबत आहे, उहे प्रभूअ जे वेझो आहे, छाकाणि त प्रभू बि प्रेमु/मुहबत ई आहे. हर हिक जीव या साह वारे जे अंदर में / हिर्दे में सर्वसाक्षी आत्मा ई निवासु करे थी, उहा ईश्वर जो अंशु आहे. इहा गाल्हि समुझ में अचण खां पोइ मन में उन आत्मा जी, आत्म-तत्व जी छिक पैदा थिए थी. इहा ईश्वर निस्बति मुहबत (प्रेम) आहे.

सामी साहिब चवनि था त गुरूअ जे, सत्गुरूअ जे बोध या ज्ञान द्वारा मनुष खे पंहिजे सचे स्वरूप जो, आत्म-तत्त्व जो अहसासु थिए थो. पोइ हू परमेश्वर सां प्रीति करण लगे थो. ऐं हिकु भेरो परमात्मा सां प्रेमु करे आनंदु वठे थो त हमेशह लाइ प्रभूअ जे प्रेम में बधिजी थो वञे. मुहबत जी मिसिरी अहिड़ी त मिठी थी लगेसि जो हुन खां संसार जा सभई आनंददाइक सुख विसिरी था वञनि. संसार जा सुख त खिन पल जा, नश्वर हूंदा आहिनि मगर प्रभूअ जे प्रेम जो आनंदु नष्टु थियण जहिड़ो कोन हूंदो आहे. प्रभूअ जे प्रेम या भगितीअ सां मनुष संसार जे सन्सनि एं भरमनि खां आज़ादु थी वञे थो, काल (मौत) जी दीवार बि टपी वञे थो ऐं जनम-मृत्यूअ जे दुखनि खां छुटी वञे थो, मोक्षु हासिल करे थो.

जंहिं मुहबत जी मिसिरी खाधी आहे, जंहिं प्रियतम परमेश्वर जे प्रेम जो प्यालो पीतो आहे, उहो प्रेमी सदाईं उन ख़ुमार में रही अलोकिक आनंदु माणे थो.

प्रेम पियाला जो पियै, सीस दच्छिना देय ।
लोभी सीस न दे सकै, नाम प्रेम का लेय ।।

मानुख जो अवतारु, कंहिं मिलियो पूरन पुन ते,
तंहिंजी करियां केतिरी, वडाई विसतारु,
सहसनि में सामी चए, को जाणे संतु सचारु,
कयो जंहिं दीदारु, गुरगम परिची पांहिंजो.

सामी साहिब चवनि था त मनुष जो जनमु मिलणु कंहिं कयल पुञ जो फलु आहे. इन मनुष-जनम जी मां केडी महिमा बुधायां ऐं केडो विस्तारु करियां ? हज़ारनि में को विर्लो सचो संतु हूंदो , जंहिंखे इन जी जाण हूंदी, जंहिं गुरूअ जे डिनल ज्ञान सां पंहिंजो (अंतरात्मा जो, पांहिंजे 'स्वरूप' जो) दर्शनु कयो हूंदो.

मनुष जो जनमु हीरे जियां अमुल्हु लेखियो वियो आहे. चोरासी लख जूणियुनि में भटिकण खां पोइ कंहिं पुञवान प्राणीअ खे मनुष-देहि मिले थी, जा सभिनी देहुनि में उत्तमु आहे. इन देहि में ई अंतरात्मा रहंदी आहे. सभिनी देहुनि में आत्माराम (पुरुषोत्तम परमेश्वर) हूंदो आहे. आत्मा खे धारणु करण लाइ मनुष-देहि पैदा थिए थी. देहि करे ई आत्मा टिके थी. बिन्ही जे संग सां संसार में वडा वडा कम थींदा रहनि था. मनुष देहि हुअण जे करे ई मुख्य परमात्मा जी प्राप्ती देहि में ई थिए थी. देहि ज़रीए ई कर्मयोग, उपासना मार्ग ऐं ज्ञानमार्ग जो आचरणु थिए थो. योगी, वैरागी ऐंतपस्वी या संत-सत्पुरुष दुर्लभ मनुष-देहि द्वारां ई जतनु कंदा आहिनि. आत्मा खे पिणु देहि द्वारां ई पर्‌घटु थियणो पवंदो आहे. देहि जे करे ई हीउ लोकु या परलोकु सजायो थिए थो. देहि खां सवाइ सभु बेमानॉ आहे. कंहिं पुञ जे करे प्रापति थियल मनुष-देहि द्वारां ई दान धर्म करे सघिजनि था. देहि ब्रह्मा रूपी, विश्वरू पी वण जो सभिनी में उत्तमु फलु आहे. इन करे मनुष जे अंदर में विश्व जो मूलु संकल्पु नज़रि अचे था., जेको कुझु इन्सान खे करिणो आहे, सो देहि खां सवाइ नथो करे सघे. इन लाइ मानुख-देहि सफलु करणु जोगी गाल्हि आहे. मनुषु ई भगिती करे सघे थो. भगिती करे मोखु पाए सघण जो अधिकारी मनुषु ई हूंदो आहे, बिया साहवारा न.

सामी साहिब पिणु इन मनुष जनम जी महिमा बुधाइनि था. चे को सचो संतु इन खे सही अर्थ में जाणी सघे थो. संतनि, सत्गुरुनि जे बोध सां, ज्ञान सां मनुख जनम जी अहमियत समुझी सघिजे थी. अंतरात्मा, परमेश्वर खे जाणण सां अविद्या-अज्ञानु दूरि थी वञे थो. पोइ मनुषु पंहिंजे हिन अमुल्ह जनम में ई ईश्वर जो साख्यात्कारु करे सघे थो. तुलसीदास

मोक्ष-मंदिर का द्वार, मानुष चोला है ।
आनंद का आगार, मानुष चोला है ।
भक्ति का भंडार, मानुष चोला है ।
ज्ञान-ध्यान गुलज़ार, मानुष चोला है।

माया मंझि मग़रूरु, मूरख रहनि मति रे,
सति ज॒ाणी संसार खे, सामी सहनि सूर,
कालु न डि॒सनि कंध ते, थो करे नितु कलूरु
राणा राव मज़ूर, मारे जंहिं मिटी कया.

सामी साहिब चवनि था त मूरख, अज्ञानी इन्सान माया (धन, मोह, लोभ आदी) में फासी पंहिंजी ज॒ाण विञाए मग़रूर, घमंडी, अभिमानी बणिजी पिया आहिनि. हिन कूड़े ऐं फ़ानी संसार खे सचो समुझी सभई इन्सान नाना क़िस्मनि जा दुख पिया था सहनि. मौतु संदनि मथां अची बीठो आहे पर हू अभिमान जे अंध में हुअण करे सदा कहरु कंदड़ मृत्यूअ खे कोन था डि॒सनि; अहिड़े काल खे कोन था डि॒सनि, जंहिं राजाउनि, अमीर सरदारनि ऐं मज़ूरनि वग़ेरह खे मारे मिटी बणाए छडि॒यो.

अध्यात्म जे लिहाज़ खां मूरखु उहो इन्सानु आहे, जेको अज्ञानी आहे, जंहिंखे आत्मबो॒धु कोन थियो आहे.

सामी साहिब अग्यानी या मूरख मनुषनि जो बयानु कंदे चवनि था त अहिड़ा जीव माया में, धन दौलत में अभिमानी बणिजी विया आहिनि. संदनि समुझ हली वेई आहे. सदाईं पैसे जे पुठियां पिया डोड़नि. माया खेनि अंधो बणाए छडि॒यो आहे. जंहिंकरे हिन मिथ्या/ कूड़े जग॒त खे सचो समुझी अनेक प्रकारनि जा दुख पिया था भोगि॒नि. संदनि अखियूं अंध में बंदि हुअण करे सिर जे मथां अची बीठल काल खे, मौत खे कोन था डि॒सनि - अहिड़ो कालु जेका सदाईं मौत जे घाटि उतारींदो रहे थो, जेको ज़ालिमु आहे ऐं जेको अमीर, गरीब सभिनी खे मारे मिटी बणाए थो छडे॒.

काल फिरै सिर ऊपरै, हाथों धरी कमान ।
कहै कबीर गहु ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान ।।

मूरख करि न ख्वारु, चोरासीअ में पाण खे,
अगॖहीं रुलिएं केतिरो, हाणे थीउ होशियारु
मिली महद जननि सां, पंहिंजो करि उधारु
अहिड़ो समो सारु, सामी लहंदें कीनको.

सामी साहिब मूरख, अग्यानी इन्सानिनि खे उपदेशु कंदे ऐं समुझाइंदे चवनि था त जीव खे चोरासी लख जनमनि में भटिकिणो पवे थो. मसें मसें तोखे मनुष-देहि प्रापति थी आहे इन करे तूं पाण खे सभिनी जूणियुनि में बदिनामु न करि. हे जीव, तूं केतिरो न रुली आयो आहीं. हाणे हिन जनम में त होशियारु थीउ. तूं संतनि, महापुरुषनि या सत्गुरुनि जो संगु करे पंहिंजो जीवनु सफलो करि. मोखु (मोक्ष) हासिल करण लाइ, पंहिंजो उद्धारु करण लाइ वरी अहिड़ो वक़्तु कोन मिलंदुइ, वरी मनुष-जनमु प्रापति कोन थींदुइ.

मनुष जो जनमु हिकु भेरो ई प्रापति थींदो आहे. सभिनी प्राणियुनि में मनुष जो जनमु मिलणु श्रेष्ठ आहे, नरदेहि धनु आहे. इन जनम जे मिलण सां असीं ईश्वर जे प्राप्तीअ लाइ भगॖती करे सघूं था, जीवनु सफलु बणाए मोखु हासुल करे सघूं था. इन लाइ अंदर जो ग्यानु ज़रूरी आहे. अंदर मां अग्यान जो अंधकारु मिटाए अंदरु उजारण लाइ सत्गुरू - संतनि जी ओट वठणु ज़रूरी आहे. साधारण जीव अग्यानी हूंदा आहिनि. अहिड़नि अग्यानी इन्सानिनि खे सुजागॖु थियणु घुरिजे. नर देहि मसें मसें मिलण करे खेनि पंहिंजे उद्धार लाइ, मुक्तीअ लाइ महा पुरुषनि, सचनि संतनि सां मिली करे पंहिंजो मनुष - जनमु सफलु बणाइणु घुरिजे. न त वरी जनम - मृत्यूअ जे चकर में फासिणो पवंदो, नाना प्रकारनि जा दुख भोगॖिणा पवंदा. संत

रात गँवाई सोय कर, दिवस गँवाये खाय।
हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाय।।

मूरख करि न माणु, काया माया कुल जो,
अचे हणंदुइ ओचितो, कालु क़हारी ब॒ाणु,
संगी थींदुइ कोन को, बुढो ब॒ारु जुआणु
सभुको समय साणु, हलियो वञे हेकिलो.

अग्यानी, मूरख माण्हूअ खे समुझाईंदे सामी साहिब चवनि था त तूं पंहिंजे सरीर (काया), माया (धन) ऐं कुल (वंश, ख़ानदान) ते अभिमानु न करि. कड॒हिं ओचितो ई ओचितो कालु (मौतु) अची अहिड़ो त ज़बरदस्तु ब॒ाणु हणंदुइ जो तूं खिन पल में ख़तमु थी वेंदें. जिनि ते तो अभिमानु कयो हो,उनहनि मां हिकिड़ो बि तोसां गडु॒ कोन हलंदो, मरण खां पोइ तुंहिंजो साथी कोई कोन बणिबो - न बु॒ढो, न जुवानु ऐं न ई को ब॒ारु.वक़्त अनुसार सभिनी खे मरिणो आहे ऐं पोइ अकेलो ई वञिणो आहे.

मनुष जो जनमु भाग॒नि सां मिलंदो आहे. इन्सान जो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजो मनुष - जनमु सफलो करे. जनमु वठी आयल मनुष खे हिक डीं॒हुं हीउ संसार छडे॒ हलिणो पवे थो. मौतु कंहिं खे बि कोन थो छडे॒, न अमीर खे ऐं न ग़रीब खे; न ब॒ार खे न बु॒ढे खे. हिन धरितीअ खे इन करे ‘मृत्यूलोक’ पिणु चवंदा आहिनि. सभिनी साहवारनि खे, प्राणियुनि खे मृत्यू प्रापति थिए थो ग्यानी पुरुष इहा ग॒ाल्हि ज॒ाणी संतनि जी या ईश्वर जी ओट वठी भगि॒ती करे पंहिंजो जनमु सफलु कनि था.

मगर जेकी मूरख, अग्यानी ऐं अणज॒ाण माण्हू हूंदा आहिनि, उहे प्रपंच में फासी पवनि था, माया जे प्रभाव करे अहिड़ा इन्सान पंहिंजे सरीर, धन-दौलत या कुल-खानदान ते घमंडु करण लग॒नि था. किनि अग्यानी माण्हुनि खे पंहिंजे सुहिणे या सघारे सरीर जो अभिमानु हुंदो आहे त किनि खे अथाह कमायल नाणे जो. के वरी ऊंचे ख़ानदान जो अहंकारु धारींदा आहिनि. चे ‘मां राजाई वंश जो आहियां’ वग़ेरह. मगर उनहनि खे इहा कल कान थी पवे त काल भग॒वानु (मौतु) अचानक अची मथां कड़िकंदो ! कहिड़ो बि वडो॒ छो न हुजे, उन खे मरिणो पवंदो ऐं अकेलो ई काल सां गडु॒ वञिणो पवंदो. साणु कोई बि कोन हलंदो. जिनि ते अभिमानु क्यो हुआईं, से सभु हिते ई रहिजी वेंदसि. दर असल सभिनी साहवारनि खे हिक डीं॒हुं अकेलो ई काल भग॒वान सां गडु॒ वञिणो आहे.

तंहिंकरे सामी साहिब उपदेशु कनि था त इन्सान खे कंहिंजो बि अभिमानु न कंदे,

काल फिरै सिर ऊपरै, हाथो धरे कमान।
कहै कबीर गहु ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान।।

मूरख कीन ड॒िसनि, सनमुखु सुपेरियनि खे,
अविद्या जीअ अंधा कया, ड॒िनो पटु पिरियुनि,
भरम मंझि भुली करे, था पना नितु पड़हनि,
तप तीरथ बिरित नेम, जग॒ जुहिदु कयो जाग॒नि,
गुफ़ा बन पहाड़ में, बुख उञ दुख सहनि,
नाना बेख धरे करे, था देहि अमोल दहनि,
बिना साध - संगति जे, सभि वहन मंझि वहनि,
के लखाया लहनि, सामी सुपेरियनि खे.

मूरख (अग्यानी) इन्सानिनि जो बयानु कंदे सामी साहिब चवनि था त अग्यान जे हुअण करे हू पंहिंजे सामुहूं प्रीतम परमेश्वर खे बीठलु ड॒िसी बि कोन था ड॒िसनि. अविद्या (अग्यान, मिथ्या, ग्यान, मोह) सभिनी माण्हुनि खे, जीवनि खे अंधो बणाए छड॒ियो आहे ऐं अंध जो पर्दो हटाए प्रीतम परमात्मा खे ड॒िसी कोन था सघनि. अहिड़ा अग्यानी इन्सान भ्रम में पइजी विया आहिनि. परमेश्वर खे पाइण लाइ के वड॒ा वड॒ा ग्रंथ था पड़हनि त के तपस्या था कनि त के नेम सां विरतु पिया था रखनि या तीर्थ पिया था भेटिनि. के जाग॒ी करे परमेश्वर खे पिया था जग॒ में तलाशण जी कोशिश कनि, के वरी पहाड़नि जे गुफ़ाउनि में वञी या झंगल में वञी पिया था तपस्या कनि. के बुख ऐं उञ सहनि त के शरीर खे क्लेश ड॒ियनि. के अग्यानी अनेक क़िस्मनि जा वेस धारणु करे (गेड़ू कपिड़ा वग़ेरह पाए) पंहिंजी अनमोल देहि (सरीर) पिया था जलाईनि. अहिड़ा मूरख इन्सान सचनि संतनि जी या सत्गुरुनि संगति करण बदिरां दरियाह जे प्रवाह में पिया था वहनि. मगर प्रीतम परमात्मा खे उहे ई था प्रापति करे सघनि, जिनि संतनि जी कर्पा सां उन खे पंहिंजे हिर्दे में ज॒ातो सुञातो आहे.

हिन सलोक में सामी साहिब ज॒ाणाइणु चाहिनि था त अग्यानी इन्सानिनि जो ईश्वर जे दर्शन लाइ या उन खे हासिलु करण लाइ ऐं जनमु सफलो करण लाइ ब॒ाहिरीं का बि साधना या कर्म करण जे भेट में सचनि सत्पुरुषनि जी ओट वठणु बहतर आहे.परमात्मा असांजे अंदर में ई आहे, जंहिंजो ज्ञानु संत / सत्गुर ई कराए सघनि था.

मूरखु विञाए, थो हीरो जनमु हथनि मों,
मिली साध संगति सां, लेखे न लाए,
डांवर जियां पाण खे, थो फंद रे फासाए,
मुंहुं मड़हीअ पाए, सामी डिसे कीनकी.

मूरखु/अज्ञानी इन्सानु हीरे जहिड़ो अनमोलु मनुष-जनमु पंहिंजे हथनि मां विञाए थो छडे. हू साधू-संतनि सां मिली करे विवेक सां विचारु कोन थो करे. मूरखु मनुषु पाण के फंदे/जार में पियो फासाए, ठीकु अहिड़ीअ तरह जीअ कोरीअड़ो (डांवर) पंहिंजो ठाहे जारु पाण ई उन में फासी पवंदो आहे. सामी साहिब चवनि था थो अहिड़ो अज्ञनी जीवु पंहिंजे अंदर में, झाती पाए कोन थ डिसे.

मनुष खे जीवन-रूपी वस्त्रु, हीउ चोलो ईश्वर डिनो आहे. मनुष जो जनमु मिलणु वडे भाग_ जी निशानी आहे. पोंयनि जन्मनि में कयल पुञनि जे प्रताप सां ई मनुष जो जनमु मिले थो, जेको वरी वरी कोन मिलंदो आहे. हीउ जनमु जणु सुठो मोक्ओ/वझु आहे. भगिती करे जनम-मरण जे दुखनि, यातनाउनि कां हमेशह लाइ मुक्ती (मोखु) छोटिकारो पाइण जो. हीरे जहिड़ो अमुल्हु मनुष-जनमु सजायो, सफलो करणु घुरिजे. इन में कल्याणु आहे. इन करे ई सामी साहिब पिणु चवनि था त मनुष खे, ख़ास करे अज्ञानी मनुष खे साधू-संतनि सां मिली, विवेकु धारे सोचणु घुरिजे. सत्गुरू या संतनि जी किर्पा हासिल करे अंदर में झाती पाए पंहिंजे आत्मस्वरूप खे डिसणु, सुञाणणु घुरिजे.

अध्यात्म जे लिहाज़ खा संसार में बिनि क़िस्मनि जा माण्हू रहनि था - हिकिड़ा ज्ञानी ऐं बिया अज्ञानी. ज्ञानी उहे आहिनि जिनि पाण खे जातो आहे, जिनि पंहिंजे अंतःकरण में वेठल ईश्वर खे , आत्म - स्वरूप खे सुञातो आहे. ज्ञानी मनुषनि खे ब्रह्म-ज्ञानु, ब्रह्मस्वरूप आत्मा जो ज्ञानु थियलु हूंदो आहे. ज्ञानी पुरुष ऐं परमात्मा में अंदरिएं नमूने कोई भेदु/फ़रकु कोन हूंदो आहे. ज्ञानी मनुषु ईश्वर जियां सभु कुछु करे बि अकर्ता ऐं सभु भोग भोगे बि अभोगीअ जी अवस्था में हूंदो आहे. मगर देहि जे अहंकार में बुडल अहिड़ा मनुष कोरीअड़े जे जार जियां पंहिंजे ई जार में फाथा पिया हूंदा आहिनि. हू कडहिं बि संतनि-सत्पुरुखनि जे संग में कोन अचनि ऐं ई विवेक धारे सोचीनि. पोइ अंदर में झाती पाए अंतरात्मा, परमेश्वर खे डिसण जी त गाल्हि ई परे आहे. ईश्वर खां मुंहुं मोड़े उन खे विसारे

बारस ब घड़ियूं, जीवति जाणु जगत में,
समुझी साधि संगति मां, कटि कर्म - कड़ियूं,
न त भोलाए जूं भरियूं, खणी घुमंदें केतिरियूं !

मूरखु सो आहे, जो सचु सुञाणे कीनकी,
पाणु पंहिंजो पाण में वेठो विञाए,
समुझ रे सामी चए, धिका नितु खाए,
झाती कीन पाए, घिड़ी पंहिंजे घर में.

हिन जगु॒त में मूरखु (अग्यानी) इन्सानु केरु आहे ? सामी साहिब चवनि था त उहो इन्सानु मूरखु आहे, जेको अग्यानी आहे, जंहिं सच खे कोन सुञातो आहे. सच (परमात्मा) खे सुञाणे न सघंदड़ु इन्सानु मांपुणे में पाण खे विञाए वेठो आहे, भुलिजी पियो आहे, भरम में पई सदाईं धिका/ ठोकरूं पियो थो खाए. ईश्वर जे तलाश में बा॒हिर पियो थो भटिके पर पंहिंजे मन में झाती पाए कीन थो डि॒से, जिते परमात्मा वेठो आहे.

हिन संसार में बि॒नि क़िस्मनि जा माण्हू रहनि था,हिकिड़ा सियाणा ऐं बि॒या अयाणा. सार–असार, चङे–मठे जो वीचारु करे, विवेकु धारे हलंदड़ माण्हू सियाणा हूंदा आहिनि.पंहिंजीअ अंतरात्मा जी ज॒ाण हूंदड़ मनुष ग्यानी हूंदा आहिनि. इन जे उबतड़ि हलति हलंदड़ मनुष मूरख या नासमझ हूंदा आहिनि. अध्यात्म या परमार्थ जे खेत्र में मूरखु उन खे चयो वेंदो आहे, जंहिंखे आत्मबो॒धु कोन थियो आहे, जंहिं अंतिम सत्य (परमेश्वर, परब्रह्म) खे कोन सुञातो आहे. प्रपंच या घर – गिरहस्तीअ खे ई सचो ज॒ाणी ज़िंदगी गुज़रींदड़ु अग्यानी इन्सानु मूरखु आहे. 'मां', 'मुंहिंजो' चवंदड़ु अभिमानी शख्सु मूरखु आहे. ईश्वर खे, पंहिंजे सचे स्वरूप खे विसारे छड॒ींदड़ु मनुषु मूरखु हूंदो आहे. हू संसार जा नाना दुख भोगीं॒दा रहंदा आहिनि. अभिमान जे अंध में हुअण करे पंहिंजे ई मन–मंदर में वेठल परमात्मा खे डि॒सण जी थोरी बि कोशिश कोन कंदा आहिनि.माया में फाथल अग्यानी जीव अगर संतनि जी किर्पा हासिल करे पंहिंजे अंदर में लीओ पाए डि॒सनि त परमेश्वरु पसिनि (डि॒सनि)! संत कबीर जे लफ़्ज़नि में –

ज्यों नैन न में पूतली, त्यों ख़ालिक घट माँहिं।
मूरख लोग न जानहीं बाहर ढूँढन जाहिं।।

रही कीन सघे, हीअ दासी दरिसन रे,
तिखो तीरु इश्क़ जो, वियो लुअं मों लंघे,
सामी चितु चातरिक जां, सुंवाती बूंद मंगे,

ईश्वर जी प्रेमिणि प्रियतम परमेश्वर खे बा॒ड॒ाए चवे थी, तुंहिंजी हीअ दासी तुंहिंजे दर्शन खां सवाइ रही नथी सघे. तुंहिंजे प्रेम जो अहिड़ो तिखो तीरु लग॒ो, जो मुंहिंजी लुअं लुअं मां, रग॒ रग॒ मां लंघे वियो, मूंखे घाइलु करे वियो, सामी चवनि था, प्रेमिणि चवे थी त मुंहिंजो प्यासो चितु, मनु, हिर्दो चातक (पपीहो) पखीअ वांगुरु स्वाती नक्षत्र जे बरसात जी हिक बूंद थो घुरे. तंहिंकरे हे प्यारा, मूंखे अची दर्शनु डे॒ ऐं पंहिंजे प्रेम जे रंग में रडे. छडि॒.

ईश्वर निस्बति परम प्रेमु मानॉ भगि॒ती (शांडिल्यसूत्र). देव-रिषी नारद, भगि॒तीअ जी व्याख्या कंदे भगि॒तीअ खे 'परम प्रेम रूपा' ऐं 'अमृत-स्वरूपा' चयो आहे. इन्हनि लफ़्ज़नि में प्रेम-भावना जी उत्कटता ऐं मधुरता जो समावेशु थियलु आहे. चई सघिजे थो त भगि॒तीअ जूं सभेई भावनाऊं या क़िस्म मधुरता सां भरियल हूंदा आहिनि. जीअं गु॒ड़ु ऐं गु॒ड़ जो मेठाजु (मिठासु) हिक बि॒ए सां गडि॒यलु, हिकु थी वियल हूंदा आहिनि, तीअं प्रेम-भावना पिणु मेठाज वारी हूंदी आहे. इन्सानी रिश्तनि मे पिणु मधुर भावना हुअण करे उहे जुड़ियल रहनि था. भक्तु जडहिं कहिड़े बि नमूने परमेश्वर सां पंहिंजो नातो जोड़ींदो आहे त उन वक़ति संदसि अभिव्यक्ती (इज़हारु) मधुरता जी भावना सां तारूंतार भरियलु हूंदो आहे.

भगि॒तीअ जे नंवनि प्रकारनि खां सवाइ हिकिड़ो बि॒यो प्रकारु पिणु लेखियो वियो आहे, जंहिंखे 'मधुरा भक्ती' चवंदा आहिनि. 'कान्ता – आसक्ती' या पती – पत्नीअ जे प्रेम-भाव खे पिणु ईश्वर-अनुभूतीअ लाइ अहमु मञियो वियो आहे. हिंदी, मरहिटी, गुजराती, कन्नड़, तमिल संतनि, भक्त-कवियुनि मधुरा-भगि॒तीअ जी कविता लिखी आहे. पाण खे प्रियतमा या पत्नी समुझी परमेश्वर खे प्रियतमु या पती समुझी भगि॒ती करे सुंदर कविता रची आहे. कबीर, मीरांबा॒ई इन जा मिसाल आहिनि.

हिन सलोक में मधुरा भगि॒तीअ अनुसार हिक विरहिणी प्रभूअ जे दर्शन लाइ पेई थी तड़पे, फथिके. चवे थी, 'मां प्रितयम परमेश्वर खां सवाइ रही कान थी सघां.' प्रभूअ जे प्रेम जो अहिड़ो त तिखो तीरु मूंखे लग॒ो, जेको मुंहिंजे रग॒-रग॒ खे घायलु करे वियो. मुंहिंजो मनु चातक पखीअ जियां स्वती-नक्षत्र जे बारिश जी हिक बूंद प्रापति करण लाइ पियो थो तड़पे. शल प्रियतमु

पिय रो पंथ निहारतां, सब रैण विहाणी हो।
ज्यूं चातक घन कूं रटै, मछरी ज्यूं पाणी हो ।।
मीराँ व्यकुल विरहणी, सुध बुध विसराणी हो ।।।

रोइनि ज़ारूं ज़ार, फटिया दरद फ़िराक़ जा,
सिसी लाहे धड़ खों, कियाऊं धारूं धार,
हार जीत दुख सुख जी, रखनि कान संभार,
रहनि मंझि खुमार, सामी सुपेरियनि जे.

प्रियतम (परमेश्वर) जे विछोड़े/विरह जे दर्द करे फटिजी पियल (भक्त) ज़ारूंज़ार रूंअंदा रहनि था. हुननि पंहिंजो सिरु वढे सरीर खां धार करे छडि॒यो. देवाननि खे पंहिंजे दुख-सुख या हार जीत जी बि सुधि कान हूंदी आहे. सामी साहिब चवनि था त उहे सदाईं प्रियतम परेश्वर जे खुमार(नशे) में रहंदा आहिनि.

प्रीतमु परमेश्वरु मनुष जे हिर्दे में हूंदो आहे, जो हिकु अहिड़ो प्रेम-प्यालो आहे, जेको सदाईं भरियलु हूंदो आहे. प्रेमी भक्तनि जे जीवन जो आधारु परमेश्वरु ई हूंदो आहे. भक्त जो तनु, मनु ऐं धनु ईश्वर खे ई अर्पणु कयलु हूंदो आहे. सचा प्रेमी भक्त ईश्वर जे दर्शन जा प्यासा हूंदा आहिनि. हू प्रीतम परमेश्वर खे प्रापति करण लाइ पिया तड़पंदा आहिनि. परमात्मा जे विरह जो दर्दु उन्हनि खे रुआरींदो रहंदो आहे. संत्याणी मीरांबा॒ई हुजे या राबिया. बे॒ई विरह जूं मूर्तियूं आहिनि, विछोड़े जे दर्द जूं फटियल आहिनि ऐं अंदर में ज़ारूंज़ार पेऊं रुअनि. श्रीकृष्ण जे मथुरा वञण खां पोइ गोपियुनि जो हालु बेहदि क़्यास जोगो॒ थी वियो हो. श्रीकृष्ण सां प्रेमु कंदड़ गोपियूं संदसि विछोड़े में राति डीं॒ह पेऊ रूअंदियूं हुयूं. हू ज॒णु दीवानियूं बणिजी वेऊं हुयूं, सदाईं श्रीकृष्ण जे प्रेम में मगनु हूंदियूं हुयूं. विरह में व्याकुल गोपियूं बा॒लकनि वांगुरु पेऊं बा॒डा॒इनि. मीरराबा॒ई त चवे थी, 'मुंहिंजी निंड ई ग़ाइबु थी वई आहे. प्रीतम जे इंतज़ार में पेई थी रूआं. अखियूं श्रीकृष्ण जे दर्शन जूं प्यासी आहिनि. अंदर में विरह जी गहिरी वेदना आहे. मुंहिंजो विछोड़ो चातक पखीअ ऐं मछीअ जियां आहे, जे स्वाती नक्षत्र जे बादलनि ऐं पाणीअ खे यादि कंदा रहंदा आहिनि.

सामी साहिब अहिड़े ई ईश्वर-प्रेम जी ऐं उन प्रेम जी विरह - अवस्था बयानु कई आहे. प्रीतम परमेश्वर जे विरह में वढिजी, फटिजी वियल दर्द सां कीअं न तड़पंदा ऐं फथिकंदा? ज़ारूंज़ारु छोन रूअंदा? जिनि जो साहु ई ईश्वरु आहे, जिनि जे प्राणनि जो आधारु परमेश्वरु आहे, उन खां परे कीअं रही सघिबो? अहिड़ा परवाना प्रेमी पंहिंजे प्रीतम लाइ सिरु कटे छड॒ण लाइ बि तयारु थियनि था. अहिड़नि देवाननि खे वहिंवारी संसार जी का बि सुधि बुधि कान हूंदो आहे. प्रभूअ जे प्रेम जे खुमार में सदाईं मगनु रहंदड़ प्रेमी ई सचा प्रेमी आहिनि. मीरां

प्यारे दरसण दीज्यो आय, थां बिन रह्यो न जाय ।।
जल बिन कमल चंद बिन रजनी, थां बिन जीवण जाय ।।
आकुल व्याकुल रैण बिहावूं, विरह कलेजो खाय ।।

वञे कीन कही, महिमा साधूअ संग जी,
मन, बुधि, वाणीअ खों परे, ऊन्ही अणमई,
साख ड्रियनि सामी चए, आशिक़ अनभई,
पांहिंजीअ मंझि पई, सदा माणिनि सांति सुखु.

सामी साहिब चवनि था त साधू / संत जे संगति जी महिमा बयानु नथी करे सघिजे. संतनि जे संग / सहवास जी महिमा एडी त ऊन्ही ऐं मापे सघण खां बाहिर आहे जो उहा मन, बुधी ऐं वाणीअ द्वारा वर्णनु करणु कठिन आहे. (इहे टेई उन महिमा खे बुधाए सघण में समरथु नाहिनि.) अनुभवी ईश्वर-प्रेमी इन गाल्हि जा साखी / शाहिद आहिनि. अहिड़ा सचा प्रेमी ई संतनि जी संगति जो लाभु हासुल करे पंहिंजे अंदर में ई आत्मा खे पाए सदाईं शांती ऐं अलोकिक सुखु प्रापति कनि था.

परमार्थ में 'सत्संग' अहम साधनु लेखियो वियो आहे. सत्पुरुषनि जो सहवासु मिलणु भाग जी निशानी आहे. संतनि ऐं साधू पुरुषनि जो संगु करणु, संदनि सहवास में रहणु, उन्हनि जी छांव में रहणु पिणु साधारण मनुष लाइ बेहद काराइती गाल्हि आहे. श्रीमद्भागवत में बुधायो वियो आहे त सत्संग द्वारा अनेक जीवनि जो उद्धारु थियो आहे. संतनि जहिड़नि आत्मज्ञानी पुरुषनि जो संगु प्रापति थियण सां ई मोखु मिले थो. संतनि जे संगति सां सुग्रीव, जटायू, जांबुवंत, गजेंद्र, कुब्जा ऐं गोकुल जे गोपियुनि जो उद्धारु थियो. भागवत पुराण में इनहनि जो ज़िकिरु अचे थो.

हक़ीक़त में सत्संग जी महिमा एडी वडी आहे, एडी त ऊन्ही, गहनु ऐं अणमई आहे, जो संदसि वर्णनु करे सघण में इन्सान जो मनु, बुद्धी / दिमागु या वाणी समरथु नाहे. इहा इन खां बि परे आहे; असांजूं इंद्रियूं उन जो आकलनु करे नथियूं सघनि. इहा महसूसु करण जी गाल्हि आहे. साधू-संत जे संग जी महिमा ऐं वडाईअ खे अनुभवी आशिक़(परमात्मा जा भक्त) ई महसूसु करे सघनि था तथा साख डेई सघनि था त सचुपचु सत्संग जी महिमा वर्णनु करे सघण खां परे आहे. अहिड़नि प्रभूअ जे प्यारनि पंहिंजे अंदर में झाती पाए अंतरात्मा जो दर्शनु करे परम शांती ऐं परम सुख जो अनुभवु कयो हूंदो आहे. सत्संग जे प्रभाव करे हू प्रभूअ जी भगितीअ में रङिजी लाल थी विया हूंदा आहिनि.

मराठी 'एकनाथी भागवत'ग्रंथ में श्रीकृष्ण भगवान जो वचनु आहे, **'अगर कहिड़े बि साधन सां मुंहिंजी प्रापती साख्यात नथी थी सघे त संतनि जी शरणि में वञो ऐं फलु पायो.'** चवण जो मतिलबु त संत महान हूंदा आहिनि ऐं संदनि संगु-सुहिबत-सहवासु पिणु साधारण मनुष खे तारींदडु

सतसंगति को फल यही, संसय रहइ न लेस ।
ह्वै असथिर शुचि सरल चित, पावैं पुनि न कलेस ।।

वड़ी वड़ाई, सामी जाणु भगति जी,
नीच ऊच थिया केतिरा, करे कमाई,
ढेढ चमार जुलाहा, पेञारा नाई,
जनीं लिंव लाई, से सभेई सुधिरिया.

सामी साहिब चवनि था त भगितीअ जी महिमा तमामु वड़ी समुझणु घुरिजे. भगिती करण सां ई केतिरा नीच/घटि कुल वारा ऊच बणिजी विया. इहो फलु खेनि भगितीअ जे करे ई मिल्यो. ढेढ, चमार (चमिड़े जो कमु कंदड़), पिञारी (कपह साफ़ु कंदड़) ऐं नाई (हजम) वग़ेरह प्रभूअ सां लिंव लाए, भगिती करे सुधिरी विया, तरी विया, मुक्त थी विया.

भगवान निस्बति परम प्रेमु भगिती आहे. सगुण परमात्मा ऐं जीव जे निष्काम प्रेम-सन्बंधु खे भगिती चयो वियो आहे. भगिती (भक्ती) परमेश्वर जी शेवा करणु आहे. बियनि मार्गनि जे भेट में एकनिष्ठ भगितीअ सां ई ईश्वर जो दर्शनु थी सघणु सवलो आहे. भगिती-मार्गु श्रेष्ठ/उत्तमु आहे. भगिती कहिड़ो बि मनुषु करे सघे थो. कहिड़ीअ बि ज़ाति, समाज या पंथ जो इन्सानु प्रभूअ जी भगिती करण जो अधिकारी आहे. वड़नि-वड़नि संतनि महात्माउनि खां वठी समाज जे घटि दर्जे वारनि ताईं जीवनि भगिती-मार्गु अपनायो आहे. ईश्वर सां हिकु रूपु बणिजण लाइ भगिती करणु ज़रूरी आहे. भगिती हिर्दे जो सौदो आहे. जिते स्वार्थु आहे, उते भगिती नथी थी सघे, निष्ठा रखी भगवान खे प्रापति करण लाइ भगिती करणु घुरिजे. सचो भक्तु भक्ती-रस जो आनंदु माणे सघे थो. भगितीअ जा ९ प्रकार आहिनि.

सामी साहिब पंहिंजे मार्मिक सलोकनि में भगितीअ जी ज़रूरत ऐं अहमियत जो असरदारु वर्णनु कयो आहे. मथिएं सलोक में पिणु भगिती अ जे प्रभाव ऐं महानता जो वर्णनु कंदे चव निथा त भगिती सभिनी खे मोखु ड़ींदड़ हूंदी आहे. जेकी मनुष ईश्वर सां लिंव लाइनि था, प्रीतम परमेश्वर जी सचीअ दिलि सां भगिती कनि था, से सभु सुधिरी वञनि था, संदनि जनमु सफलो थी वञे थो, हू मोखु हासिल कनि था. इन लाइ ज़ाति-पाति जो कोई बंधनु नाहे. मिसाल बुधाए चवनि था त मोची ऐं सोची, कपिड़ो उणंदड़, कपह साफ़ु कंदड़ ऐं हजम पिणु परमात्मा जी भगिती करे संसार-सागर मां तरी विया. संत नामदेव (दर्ज़ी), संत कबीर (कोरी, जुलाहो), सेना (नाई, हजमु),नरहरी (सोनारो), तुकाराम (कुण्मी), सावता (माली) वग़ेरह भगिती करे जनमु सफलो करे विया. भगितीअ जे खेत्र में ज़ाति-पाति जी अहमियत न बल्कि प्रभूअ सां लिंव लाइणु ज़रूरी आहे.

विरिली माउ जणे, का प्रेमी पुटु गरभ मों,
सामी सुपेरियनि जी, जंहिंखे भगति वणे,
जाण विञाए पांहिंजी, सभ जो दासु बणे,
लिखिया कीन गणे, डिसो अलेखु अखिनि सां.

संसार में विर्ली का अहिड़ी माता हूंदी, जेका पंहिंजे गर्भ मां प्रेमी (ईश्वर सां प्रेम कंदड़) पुट खे जनमु थी डिए. हिकु अहिड़ो पुटु, जंहिंखे प्रियतम परमेश्वर जी भगिती (भक्ती) वणे. जेको पंहिंजी सुञाणप/जाण गुमु करे सभिनी मनुषनि जो दासु/बान्हो/शेवकु बणे. अहिड़ो ईश्वर-भक्तु पंहिंजे अखियुनि सां उन अलेख / अलख / परमेश्वर खे डिसी लिखियल (प्रालब्ध) खे कोन गणींदो आहे.

भाग वारनि जीवनि खे मनुष जो जनमु मिलंदो आहे. माता जे गर्भ मां मनुषु जनमु वठे थो. माता जननी आहे, जनमु डींदड़ आहे. अलगि अलगि रंगनि ऐं रूपनि वारा, जुदा जुदा क़द बुत ऐं स्वभाव वारा बार माता ई जणींदी आहे. माता जे गर्भ मां जावल सभई बार को हिक ई विर्तीअ जा कोन हूंदा आहिनि ऐं न ई सभई माताऊं हिकिड़े ई स्वभाव या विर्तीअ वारा बार जणींदियूं आहिनि. सुठे या बुरे स्वभाव वारा बार को हिक ई विर्तीअ जा कोन हूंदा आहिनि. अछा कारा, सुठे या बुरे स्वभाव वारा बार, प्रेमी या गुसे वारा जीव माउ ई जणींदी आहे. जिनि जे हिर्दे में प्रेमु भरियलु आहे, आहिड़ा पुट का विर्ली माता ई जणींदी आहे. जंहिं बालक जे मन में प्रभूअ लाइ प्रेमु ओतप्रोत भरियलु आहे, जेको ईश्वर जे भगितीअ में लिंवलीनु थी रहे थो, अहिड़ो सुपात्र पुटु भागनि वारी नारी ई जणींदी आहे. सामी साहिब अहिड़ीअ माता जो ज़िकिरु कनि था. पहलाजु (प्रह्लाद) ऐम ध्रुव जहिड़ा प्रेमी बालक माता ई जणिया हुआ, जिनि परमेश्वर जी भगिती करे नालो अमरु कयो. माता तीर्थबाईअ जहिड़ी विर्ली नारी ई कंवरराम जहिड़े प्रभू-प्रेमी संत (भक्त) खे जनमु डिए थी.

अहिड़नि सुपात्र ऐं प्रेमी पुटनि खे ई प्रीतम परमेश्वर जी भगिती करणु वणंदी आहे. अहिड़ा सचा संत अंदर मां आपो (मां पुणो, अहंकारु) कढी, देहि जो अभिमानु त्यागे पंहिंजे अंतःकरण में आत्मा-परमात्मा जो दर्शनु करे इहो अनुभवु कनि था त परमात्मा घट घट वासी आहे, सभिनी साहवारनि में परमात्मा वसे थो. तंहिंकरे अहिड़ा प्रेमी भक्त सभिनी इन्सानिनि जा दास बणिजनि था. उन्हनि लाइ सभई जीव परमात्मा समान आहिनि. अंदरि चाहे बाहरि परमेश्वर के पसण वारा भक्त पंहिंजे प्रालब्ध या भाग जो लेखो जोखो कोन कनि, भला जिनि अलख खे, अखियुनि सां डिसण में न ईंदड़ परमात्मा खे, पंहिंजे अंदिरियनि नेत्रनि सां डिठो आहे,

विरिलो विलोड़े,को मखणु कढे मन मों,
करे मांधाणी महबत जी, थिरता थंभ खोड़े,
सेली पाए सच जी, जुगति सां जोड़े,
डिसे मुंहुं मोड़े, पांहिंजे अखिएं पाण खे.

संसार में विर्लो को अहिड़ो मनुषु हूंदो, जेको मंथनु करे पंहिंजे मन मां मखणु कढंदो आहे. इन लाइ हू मुहबत जी मांधाणी खणी, स्थिरता सां थंभो खोड़े मथण जो कमु कंदो आहे. सच जी सेली(टोपी) पाए जुगति (अटिकल), युक्तीअ सां कमु कंदो आहे. हू पंहिंजे अंदर में झाती (लीओ) पाए पंहिंजे अखियुनि सां पाण खे, अंतरात्मा खे डिसंदो आहे.

संसार जे हर हिक पदार्थ (शइ) जा ब रूप हूंदा आहिनि - हिक बाहिरियों रूपु ऐं बियो अंदिरियों रूपु .बहिरियों रूपु देहि (शरीरु) आहे मगर आत्मा अदृश्य, नज़रि न ईंदड़ हूंदी आहे. इन आत्म-तत्व खे समुझण, डिसण जा अनेक जतन दर्शनशास्त्र ऐं तत्वज्ञानी कंदा नज़रि अचनि था आत्मा देहि में हूंदे बि देहि खां परे आहे, निर् विकार आहे. आत्मा चिन्तन - मनन ज़रीए सुञाती, जाती वञे थी. इन लाइ मनुष खे मन मंथनु करिणो पवंदो आहे. जीअं पौराणिक काल में सुर-असुरनि समुंड जो मंथनु करे अनेक रतन उन माँ कढिया हुआ, तीअं मनुष खे चिन्तन-मनन सां मन के विलाड़णु खपे, विवेक-अविवेक जो वीचारु करणु खपे.

सामी साहिब पिणु अहिड़े मन - मंथन जी गालहि था कनि. रूपक ज़रीए समुझाईंदे चवनि था त संसार में विर्लो को अहिड़ो मनुषु हूंदो, जेको सत्गुरूअ जो सहारो वठी मन खे विलोड़े, सार - असार जो, आत्म - अनात्म जो वीचारु करे पंहिंजे मन मां मखणु (अंतरात्मा) हासिल करण जी कोशिश करे थो. इन लाइ हू मनरूपी डहीअ वारे बर्तन में प्रेमरूपी मांधाणी विझी, स्थिरता जो थंभो खोड़े विलोड़ण जी क्रिया करे थो ऐं पाइ आत्मारूपी मखणु थो कढे. आत्मा, परमात्मा प्रेम सां, भगितीअ सां, विवेक-वीचार सां ऐं मन खे स्थिर बणाइण सां ई मिले थो. इन लाइ सच जी राह ते पिणु हलिणो पवंदो आहे. अंदर में झाती पोए, मन मां बुरा विकार कढी, मनु निर्मलु बणाए पंहिंजीअ अंतरात्मा जो, परमेश्वर जो दर्शनु करे सघिजे थो, मोखरूपी मखणु पिणु प्रापति करे सघिजे थो. आत्म-स्वरूपु नितु आहे, शाश्वत आहे. परमात्मा सत् आहे, उहो ई चित् आहे ऐं इहो ई आनंदु (सच्चिदानंद) आहे. उहो ई ज्ञान जो मेघु (बादलु) आहे ऐं आनंदरूपु आहे. मन-मंथनु करे त डिसो !

विसनि विञायो, पिरतखि पूरनु आतमा,
देही जाणी पाण खे, फाहीअ फासायो,
विरले कंहिं गुरमुख खे, अनभइ में आयो,
सामी समायो, जल पपोटो जल में.

भरमनि, सन्सनि पूरन आत्मा खे विञाए छड़ियो आहे. मुंझियल, भरमनि में पियल इन्साननि साख्यात् पूरन परमात्मा खे विसारे छड़ियो आहे. मनुषु पाण खे शरीरु जाणी, पंहिंजे शरीर खे ई सभु कुझु समुझी पाण खे फाहीअ में, बन्धननि में बधी छड़ियो आहे. विर्‌ले कंहिं मनुष खे इहा गाल्‌हि समुझ में आई हूंदी, जेको गुरूअ जे वचननि ते हले थो. जीअं पाणीअ जो फूकिणो पैदा थी करे वरी पाणीअ में ई समाइजी वेंदो आहे, तीअं, सामी साहिब चवनि था त असीं उन परमात्मा में ई समाइजी वेंदासीं,

देहि मानॉ सरीरु. मनुष खे मिलियल देहि आत्मा जो अझो आहे. सरीर में आत्मा समायल हूंदी आहे. इन करे देहि खे 'अध्यात्म' बि चवंदा आहिनि. जीवन में मनुष-देहि (शरीर) जी अहमियत त आहे ई. देहि जे करे ई अंतरात्मा जो साक्षात अनुभव थी सघे थो. देहि/शरीर खांसवाइ परमारथु नथो थी सघे, तंहिकरे देहि खे घटि लेखणु न खपे. मगर इहो बि समुझणु न घुरिजे त मां देहि ई आहियां याने पंहिंजी अ देहि खे ई सभु कुझु समुझी, देहि ते अभिमानु करणु न घुरिजे छो त देहि जो अभिमानु मानॉ अज्ञान ! अज्ञानु सभिनी अनर्थनि जो, बरबादियुनि जो मूल कारणु आहे. आत्मा सभिनी अवस्थाउनि में अलिप्त हूंदी आहे, इहा गाल्‌हि सुञाणणु ऐं देहि जो अभिमानु छडे डियणु ई ज्ञानु आहे.

सामी साहिब पिणु इहा गाल्‌हि चवनि था. देहि जी अहमियत त सामी साहिब पिणु समुझनि था मगर हू इहो समुझाइनि था त देहि खे ई सभु कुझु न समुझो, देहि ते अभिमानु न कयो. न त फाहीअ में फासी पवंदौ. जेको समुझे थो त 'मां देहि ई आहियां', उहो माण्हू पंहिंजो घातु पाण करे थो. इहा हक़ीक़त आहे त देहि/शरीर खां सवाइ भगिती नथी करे सघिजे, देहि खा सवाइ भगवान जी प्राप्ती बि नथी थी सघे. भगवान जे भजन जो मूलु कारणु देहि आहे. देहि न हूंदी त भगवान जी पूजा करे कान सघिबी. मतिलबु त देहि जे करे ई सभु कुझु करे सघिजे थो. मगर देहि ते घमंडु न करणु घुरिजे ऐं न ई देहि खे तमामु घणी अहमियत डियणु घुरिजे. अहमियत डिजे अंतरात्मा खे, जेका देहि में आहे. अंतरात्मा/परमात्मा खे पंहिंजे शरीर में ई डिसणु घुरिजे. सामी साहिब चवनि था त इहो राज़ु कंहिं विर्‌ले गुरमुख ई सही कयो हूंदो आहे. परमेश्वरु ज्ञान जी दृष्टीअ सां डिसणु में ईंदो आहे, उन सां ई हिक रूपु बणिजी वञणु घुरिजे-पाणीअ जे फूकिणे जियां !

वेद पुरान पढ़ही, पंडित थियड़ा केतिरा,
बिना ग्यान गुरूअ जे, विया अविद्या मंझि अड़ी,
विर्ले कंहिं गुरमुख डिठो, वचन मंझि वड़ी,
तंहिंखे हथि चड़ही, सामी लख सरूप जी.

गुरूअ जे ग्यान जी अहमियत बुधाईंदे सामी साहिब चवनि था त हिन संसार में केतिराई माण्हू वेद ऐं पुराण ग्रंथ पढ़ही करे पंडत बणिजी विया. मगर गुरूअ जे ज्ञान बिना अविद्या/अज्ञान में ई अड़िजी पिया रहिया. उहे परमात्मा जो दर्शनु करे कोन सघिया. पर विर्ले कंहिं गुरमुख खे परमात्मा जे स्वरूप जी जाण पई, छो जो उन गुरूअ जे वचननि खे समुझियो हो ऐं पोइ अंदर मे झाती पाताईं त परमात्मा खे डिठाई, प्रापति कयाईं.

वहिंवारी अर्थ अनुसार ज्ञानु/ग्यानु मानॉ मइलूमियत, जाण, संसार जे स्थूल शयुनि जे रूप वग़ेरह जी जानकारी. मनुष खे इहो संसारी/भौतिक ज्ञानु त हुअणु ई घुरिजे. इन ज़रीए ज़िंदगीअ जा वहिंवार कया वञनि था. मगर सिर्फ़ु अहिड़े ज्ञान सां इन्सान खे संतोषु कोन थो थिए. आत्मिक/रूहानी ज्ञान खां सवाइ पूरनता प्राप्ति कान थी थिए याने सारे भौतिक ज्ञान जो हर प्रकार सां फाइदो थी सघणु मुमकिन नाहे. ज्ञानी, सचो ज्ञानी थियण लाइ कर्मकांड, वेद पुराण, ज्योतिष, नीतिशास्त्र वग़ेरह में चाहे केतिरो बि को मनुषु होशियारु पंडतु थी वञे मगर उहो आत्मज्ञान जे विषय में अंधो ई हूंदो आहे. अनेक विद्याऊं ऐं कलाऊं हासिल करे मनुषु मोखु प्राप्ति करे कोन सघंदो. मनुष जीवन जो आख़रीन मक़सदु सायुज्य-मुक्ती आहे. इहा मुक्ती या मोखु जंहिं ज्ञान. जरीए मिले थो, उहो ई सचो ज्ञानु आहे. शुध्द स्वस्वरूप खे जाणणु ई आत्मज्ञानु आहे ऐं इन खे ई ब्रह्मज्ञानु चयो वियो आहे. जेसिताई आत्मज्ञानु कोन थियो आहे, तेसिताईं जीवु/मनुषु जनम-मरण जे चकर खां छुटी कोन सघंदो, अहिड़ो ज्ञानु डींदो आहे सत्गुरू. उहो शिष जो अज्ञानु दूरि करे ब्रह्मज्ञानु, आत्मज्ञानु डींदो आहे. अंदर में वेठल आत्मा जो, परमात्मा जो बोधु कराईदड़ु उहो ई मोक्ष-गुरू हूंदो आहे.

सामी साहिब पिणु इहो ई बुधाइनि था. वडा वडा ग्रंथ पढ़हण सां कोई सचो ज्ञानी, अंतर्ज्ञानी कोन थो सघे, अविद्या खां छोटिकारो कोन थो मिली सघे. सत्गुरूअ जे ज्ञान द्वारां ई पंहिंजे स्वरूप जो, आत्म जो ज्ञानु थी सघे थो. जंहिंजे करे सचे शिष खे, गुरमुख खे स्व स्वरूप जो, हिर्दे में वेठल परमात्मा जो बोधु थिए थो ऐं पोइ संदसि अविद्या/अज्ञानु दूरि थी वञण करे, परमात्मा से सचो, प्रेमु थी वञण करे हू अलोकिक आनंदु माणे थो. इहो प्रेमु.जरूरी आहे.

पढ़ पढ़ के ज्ञानी भये, मिट्यौ नहीं तन ताप ।
राम नाम तोता रटें, कटे न बन्धन पाप ।।

वेदनि जा महा वाक, सुतह लखाइनि समता
समुझी थिया सामी चए, महबती. मुश्ताक़,
चड़हिया चेतन चिट ते, सटे सभि संग साक,
पर्चिया रहनि पाक, पाणु वराए पाण में.

वेदनि में आयल 'महावाक' (वडा/अहम वाक्य/जुमिला) पाणही समता था डेखारीनि. इहा गाल्हि समुझी करे उहे माण्हू मुहबत सां भरिजी विया, जिनि जे मन में ईश्वर जे दर्शन जी ख़्वाहिश हुई, जे सचा शाइक़ हुआ. अहिड़ा प्रेमी संसार जा सभई संग, नाता, सन्बंध टोड़े करे सारे विश्व जे आत्म-चेतना सां भरियल आकाश ते चड़ही विया, चिद् आकाश सां हिकरूपु बणिजी विया. हुननि पाणु वराए, पंहिंजे अंदर में झाती पाए परमात्मा खे डिठो. शुध्दि, पवित्रु बणिजी प्रीतम परमेश्वर सां परिची विया, राज़ी थी विया.

जंहिं वाक्य (जुमले) में जीव ऐं ब्रह्म जी एकता बुधाई वियल हूंदी आहे, उन खे **'महावाक्य'** चवंदा आहिनि. अद्वैत वेदान्त उपनिषदनि जे किनि वाक्यनि/जुमलनि खे 'महावाक्य' जो दर्जो डिनो वियो आहे. इन्हनि महावाक्यनि जो लिकलु मतिलबु या अर्थु जाणण खां सवाइ अद्वैत जो बोधु नथो थी सघे. जीव-ब्रह्म जी समता या एकता जो ज्ञानु थियण लाइ चइनि वेदनि जा चार महावाक्य हिन रीति आहिनि-

(१) ऋग्वेद में - **'प्रज्ञानं ब्रह्म'** याने आत्मज्ञानु, ऊचे में ऊचो ज्ञानु.

(२) यजुर्वेद में - **'अहं ब्रह्मास्मि'** याने 'मां ई ब्रह्मु आहियां'.

(३) सामवेद में - **'तत्त्वमसि'** याने 'उहो (ब्रह्मु) तूं ई आही.'

(४) अथर्ववेद में - **'अयात्मा ब्रह्म'** याने 'इहो (तुंहिंजो) आत्मा ब्रह्मु आहे.'

इन्हनि महावाक्यनि में इंद्रियुनि द्वारां ज्ञानु हासिल कंदड़ जीव एं विश्व में हरहंधि हाज़िर ईश्वर, हिर्दे में वेठल ईश्वर ऐं सर्व व्यापक परमेश्वर जी एकता, समता बुधाई वेई आहे.

वेदनि जे इन्हनि महावाक्यनि में परमार्थ जे उपदेश जो सारु ज़रूरु आहे, मगर महावाक्यनि जो सिर्फ़ु जपु करण सां अग्यान जो अंधकारु दूरि कोन थी सघंदो. महावाक्यनि में समायल अर्थ जी साख्यात अनुभूती / ज्ञानु हासिल करणु आत्म-कल्याण जे लिहाज़ खां तमामु ज़रूरी आहे. सामी साहिब पिणु इहाई गाल्हि चवनि था. ऐं अहिड़ी अनुभूतीअ लाइ ज़रूरी आहे सभिनी जे संग-सुहिबत जो त्यागु. आत्म-अनुभव तमामु अहमु आहे ऐं महावाक्यनि जी सफलता साधक खे एकता, समता या समाधीअ जो अनुभवु थियण में आहे. 'ब्रहमु मां ई आहियां ऐं मां ई उहो ब्रह्म आहियां' जो स्वरूप-अनुभव थियणु ई समाधी, समता या एकता आहे.

वेदनि जो वाखाणु, सरोतिनि कियो साख्यातु रे,
नेष्टी वेद वीचार रे, तारियो पंहिंजो पाण,
सरोती नेष्टी, गियानवानु को, सभिनी अंगनि साणु,
कोटनि जो कल्याणु, तंहिं सामी कयो शक्ति सां.

वेदनि जी महिमा बुधाईंदे सामी साहिब चवनि था त साक्षात् श्रेत्रिय (श्रोत्री) ब्राह्मणनि, वेदनि जे ग्यानी, जाणू, वेद-विद्या प्रापति पुरुषनि पिणु वेदनि जी साराह कई आहे. श्रुती ग्रंथनि में (वेदनि में) निष्ठा रखंदड़ साधकनि त वेदनि जो वीचारु करे, वेदनि जो चिंतनु मननु करे पंहिंजो पाण खे भवसागर मां तारे छडियो. श्रुती ग्रंथनि (वेद, उपनिषदनि) में निष्ठा रखंदड़ ज्ञानवान पुरुषनि वेदनि जे सभिनी अंगनि जो सहारो वठी किरोड़ें माण्हुनि जो उन शक्तीअ, समरथीअ सां कल्याणु करे छडियो.

वेद मानॉ ज्ञानु, डिसणु. रिषियुनि खे वेद डिसण में आया उन्हनि खे साख्यात्कारु थियो, तंहिंकरे इन्हनि खे 'वेद' चवंदा आहिनि. मानव - सृष्टीअ खां पहिरीं परमेश्वर वेद निर्माणु कया, इन करे वेद अनादी आहिनि. वैदिक मञिनि था त परमात्मा जो पसाहु (निःश्वास) वेद आहिनि. वेद भारतीय अध्यात्म जा मूल ग्रंथ आहिनि. वेद चार आहिनि १) ऋग्वेद २) यजुर्वेद ३) सामवेद ४) अथर्ववेद. इन्हनि चइनी जा वरी चार चार भाङा आहिनि, जिनि खे १) संहिता २) ब्राह्मण ३) आरण्यक ४) उपनिषद चयो वियो आहे. इन्हनि सभिनी ग्रंथनि खे मिलाए 'श्रुती' चवंदा आहिनि. याने वेदसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ऐं उपनिषद - इन सारे साहित्य खे 'श्रुती' चयो वियो आहे. इन्हनि सभिनी ग्रंथनि, शास्त्रनि जो अभ्यासु कयल पुरुष, ब्राह्मण खे 'श्रोत्रिय' चवंदा आहिनि. श्रोत्रिय (श्रोती) वेदवेत्ता, वेदनि जो जाणू हूंदो आहे.

सामी साहिब अहिड़नि वेद-विद्या संपन्न पुरुषनि, श्रोत्रियुनि जे बारे में बुधाइनि ता त उन्हनि वेदनि जो साख्यात्कारु करे वेदनि जी वाखाणि (साराह) कई आहे. वेदनि (श्रुतीग्रंथनि) में निष्ठा, विश्वासु, श्रध्दा रखंदड़ अहिड़नि साधकनि त पंहिंजो जनमु सफलो करे छडियो. हू संसार सागर माँ तरी विया. मोखु प्रापति करे विया. न सिर्फु एतिरो, बल्कि कंहिं ग्यानवान ऐं श्रुती ग्रंथनि में विश्वासु रखंदड़ त वेदनि जे सभिनी अंगनि सां, उन्हनि जे शक्तीअ सां किरोड़ें माण्हुनि जो कल्याणु कयो. वेदनि जा इहे छह अंग आहिनि, जिनि खे 'वेदांग' चयो वियो आहे - १) शिक्षा २) कल्प ३) व्याकरण ४) निरुक्त ५) ज्योतिष ६) छंद.

सजु़ण जी सोभिया, चई वञे न वाच सां,
सूरिज, चंदिर चिराख़ लख, लजामान थिया,
सामी मोहिया सूरमा, जनि दीदार किया,
लंघे पारि पिया, अविद्या जे आड़ाह खों.

सजु़ण जी, परमेश्वर जी सूंहं वात सां, वाणीअ सां बयानु नथी करे सघिजे. परमात्मा अहिड़ो त सूंहांरो आहे, जो संदसि सूंहं जे सामुहूं सिजु, चंडु, लखें दीपक पिणु बिही नथा सघनि ऐं पोइ लजी थी पवनि था. परमेश्वर जे सूंहं जी को बि बराबरी नथो करे सघे. अहिड़े सुंदर प्रीतम परमेश्वर ते मोहित थी के विर्‌ला वीर दीदारु कनि था. अहिड़ा ग्यानी पुरुष अविद्या (अग्यान, माया) जे गहिरे आड़ाह मां, ऊन्हे सागर मां लंघे पारि पहुचनि था.

सुहिणी सृष्टी पैदा कंदड़ु परमेश्वरु बेहदि सुहिणो हूंदो आहे. संदसि सुंदरता जो बयानु नथो करे सघिजे. असांजी वाणी, ज़बान भगवान जी सुंदरता जो बयानु करे सघण में समरथु नाहे. परमात्मा जे सूंहं जी भेट बिए कंहिंसां बि नथी करे सघिजे. सिजु, चंडु या दीपक सुंदर हूंदा आहिनि. मगर उहे सभई परमात्मा जे सूंहं जी बराबरी नथा करे सघनि ऐं जे करण जी कोशिश कनि था त आख़िर शरमसारु था थी पवनि. परमेश्वरु सिज, चंड वग़ेरह खां बि वधीक तिजलेदारु आहे. संदसि सुंदरता लासानी ऐं वर्णनु करे सघण खां परे आहे. अहिड़े ईश्वर जी सुंदरता जो दर्शनु को विर्‌लो ऐं सचो सूरिमो (अंतर्‌ग्यानी) करे सघे थो, जो उन सूंहं ते मोहिजी उन जे दीदार लाइ मांदो थिए थो. अहिड़ो वीरु ई परमात्मा पसे थो, अंदर में प्रीतम परमेश्वर जो दर्शनु करे थो ऐं अविद्या जे कुन मां, संसार-सागर मां लंघे पारि पवे थो, मोखु प्रापति करे थो.

निर्गुण ऐं सगुण ईश्वर जी महिमा जो, वर्णनु कंदे संदसि सुंदरता जो वर्णनु करण लाइ लखें कविताऊं लिखियूं वेऊं आहिनि. हज़ारें कवियुनि ईश्वर जो बयानु कयो आहे. मगर परमेश्वर जे सची सूंहं जो सही बयानु कोई बि कोन करे सघियो आहे. उहा त वर्णनु करे सघण खां परे आहे. तमामु घणे रूपवान वारे सर्वेश्वर जे सुंदर रूप जो बयानु करण जी कोशिश ज़रूरु कई वेई आहे. भारत जे सूरदास, तुलसीदास जहिड़नि संत - कवियुनि सगुण परमेश्वर (श्रीकृष्ण ऐं राम) जी सूंहं जो सुहिणो वर्णनु कयो आहे. महाराष्ट्र जो वडो संत तुकाराम पिणु पंहिंजे आराध्य देव भगवान विठ्ठल जे रूप जो, मोहिणी मूरत जो वर्णनु कयो आहे, जे को हिक सिर ('ब्रिक') ते बीठी आहे. ऐं जंहिंजे दर्शन सां सुर्ग खां बि वधीक सुखु मिले थो -

सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। कर कटावरी ठेवूनिया।।
तुळसीचे हार गळां कासे पीतांबर। आवडे निरंतर ते चि रूप।।

सजण सूर चया, वञनि न विछोड़े जा,
तुंहिंजीअ सिक अंदर में, छेक अनेक कया,
सामी चए चकोर जां, सुकी नेण रहिया,
कडी करे दया, दरिसु डींदें दास खे.

विरही भक्तु प्रीतम परमेश्वर खे चवे थो त हे सजण (प्रीतम, महबूब), तुंहिंजे विछोड़े (विरह) जा सूर, दर्द (पीड़ा) मां पंहिंजे मुंहं सां बुधाए नथो सघां. तुंहिंजे प्रेम त मुंहिंजे हिर्दे में छेद/टुंग करे छड्िया आहिनि. मुंहिंजा नेण रोई रोई चातक (चकोर पखी) वांगुरु सुकी रहिया आहिनि. तूं हिन दास ते दया करे कडहिं दर्शनु डींदें ?

ईश्वर निस्बति बेहदि प्रेमु ई भगितीअ जो मर्मु आहे. परमेश्वर सां परम प्रेमु हुअणु ई भगिती आहे. नारद मुनीअ भगितीअ खे 'अमृतस्वरूपा' चयो आहे, जंहिं में मधुर भावना अची वञे थी. याने प्रेम भावना मधुरता सां, मेठाज सां भरियल हूंदी आहे. भगतु जडहिं परमेश्वर सां कहिड़े बि नमूने सन्बंधु जोड़े थो, तडहिं संदसि अभिव्यक्ती (इज़हारु) मधुरता जी भावना सां तर् थियल हूंदी आहे. परमेश्वर खे पंहिंजो पती या प्रीतमु मञी करे पत्नीअ या प्रियतमा जी भावना सां भगिती करण के 'मधुरा भगिती' चयो वेंदो आहे. इन में भक्त ऐं भगवान जो नातो निरालो ऐं मधुर हूंदो आहे, जंहिं में प्रेमु, उकीर, रुसणु, दर्दु, दुखु ऐं सुखु वग़ेरह थिए थो. शृंगार वारो नातो हूंदे बि उहो आख़िर में निर्मल भगितीअ में ई बदिलजी वेंदडु थिए थो. गोपियुनि जो श्रीकृष्ण सां प्रेमु अहिड़े ई क़िस्म जो हो. गोपियूं मधुरा भगितीअ जो आदर्शु आहिनि. संत्याणी मीरां ऐं राबिया जी भगिती पिणु आहिड़े क़िस्म जी आहे. प्रीतम परमेश्वर जे विछोड़े/विरह में फथिकंदड़ ऐं ईश्वर-दर्शन लाइ तड़पंदड़ भक्तनि या भक्त्यणियुनि जे अंदर जो कहिड़ो हालु सुणाइजे? विरह जे दर्द में पिया था तड़पनि ऐं पुकारीनि-

'प्यास में, प्रीतम ! पेई तो पुकारियां,
अंदर में उकीरूं, वर वर उथारियां, सचु थी चवां ! सचु थी चवां !' (दादा जशन वास्वाणी)

प्रियतम परमात्मा जे प्रेम लाइ घर जो त्यागु कंदड़, ज़हर जो प्यालो बि खिलंदे चपनि सां लगाईंदड़ ऐं श्रीकृष्ण जे दशन जी प्यासी मीरांबाई, **'ए री मौं तो प्रेम दिवानी, मेरा दर्द न जाणै कोय।'** चवंदड़ मीरां जी हालति **'घायल की गति घायल जाणै, जो कोई घायल होय.'** जियां आहे. **'सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस बिध होय'** चवंदड़ मीरां या परमेश्वर जे दर्शन लाइ फथिकंदड़ राबिया ऐं सामी साहिब जे बयानु कयल विरही भक्त में फ़रकु नज़रि कोन ईंदो. इहो भक्तु पिणु विरह जे दर्द जो कुठलु आहे. प्रीतम जे दर्शन लाइ रुअंदे रुअंदे संदसि अखियुनि जा आँसू ई सुकी विया आहिनि. पियो थो परमेश्वर खे पुकारे- मूंखे दर्शनु कडहिं मिलंदो ?

सतिगुर रहमु कयो, तड़ी अखियूं खुली आयूं
दरिसनु पंहिंजे दोस जो, सुतह सिधि थियो,
भारी भवसागर खों, लंघे पारि पियो,
बिना बोध बियो, सामी सुझे कीनकी.

सामी साहिब चवनि था त सत्गुरूअ मूं ते दया कई, तड़हिं मुंहिंजूं अखियूं खुली पेऊं (मुंहिंजे अंदर मां अज्ञानु निकिरी वियो, मां सुजागु थी पियुसि) सत्गरूअ जी किर्पा थियण करे मूंखे जल्दु ई पंहिंजे दोस्त जो, प्रीतम परमेश्वर जो दर्शनु थियो. जंहिंजे करे हिन भारी संसार-सागर खे तरी पारि पहुचणु, मोखु हासिल करणु सवलो थी वियो. हाणे त मूंखे सत्गुरूअ जे बोध/ज्ञान खांसवाइ बियो कुझु बि कोन थो सुझे.

मनुषु हिन दृश्य जगत जो पंहिंजे इंद्रियुनि द्वारां अनुभवु करे सघे थो. पर इंद्रियुनि खां परे हूंदड़ परमात्मा जो अनुभव कंदडु ऐं कराईंदडु को विर्ले महापुरुषु हूंदो आहे. सत्गुरू आत्म स्वरूप जो साख्यात अनुभव कंदडु हूंदो आहे. विश्व जे अंदरि ऐं बाहिर व्यापियल परमेश्वर सां सत्गरू ई पुरीअ तरह हिकुरूपु थी सघे थो. सत्गुरु मानॉ निर्दोषु, पूरनु ऐं सभिनी सां हिक जहिड़ो वहिंवारू कंदडु मनुष देहि धारी परमात्मा ई हूंदो आहे. अहिड़ो सत्गुरु अगर पंहिंजे सचे शिष ते किर्पा करे थो त उहो शिषु पूरन पद ते पहुची सघे थो. गंगा नदी सागर सां मिली सागर रूपु बणिजी थी वञे. तीअं सचो शिषु पंहिंजे सत्गुर में विलीनु थी वञण खां पोइ विश्व जेडो विशाल बणिजी थो वञे. सत्गुरू सूरज खां बि श्रेष्ठ हूंदो आहे. ज्ञान-सूर्य हूंदड़ सत्गुरू शिष जो अज्ञानरुपी अंधकारु हमेशह लाइ दूरि करे छडींदो आहे. हू पंहिंजे शिष खे पाण जहिड़ो बणाए छडींदो आहे. हक़ीक़त में सत्गुरू मानॉ मनुष ऐं ईश्वर जो मधुर संगमु आहे.

सामी साहिब पिणु इहा ई गाल्हि बयानु कनि था. चे सतिगुरूअ जी किर्पा, दया थियण सां ई शिष जूं अंदिरियूं अखियूं, ज्ञान जूं अखियूं खुली पवनि थियूं. अंदर मां विकार निकिरी वञण करे हिर्दो साफ़ु, निर्मलु बणिजी पवे थो, जंहिंजे करे अंदर में, अंतःकरण में सवलाईअ सां परमात्मा जो दर्शनु थिए थो, असीं अंतरात्मा जो दीदारु करे सघूं था. पोइ हीउ अणांगो भव-सागरु पारि करणु, मुक्ती या मोखु हासिल करे सघणु आसानु बणिजी पवे थो.

सतगुरु मिला जु जानिये, ज्ञान उजाला होय ।
भ्रम का भाँडा तोड़ि करि, रहै निराला होय ।।

सतिगुर वचनु उतो, वेद पुरान मथे करे,
विरिले कंहिं गुरुमुख खे, हिरिदे मंझि खुतो,
कढियो तंहिं अंदर मों, अविद्या लोभु कुतो,
सदाईं अछुतो, सामी रहे सुभाव में.

वेद ऐं पुराण ग्रंथ विलोड़े करे (मंथनु करे, ग्रंथ पड़ही चिंतनु मननु करे) सत्गुरूअ हिकिड़ो वचनु (वाक्यु/जुम्लो/शब्दु) चयो, जेको विर्ले कंहिं गुरमुख जे मन में वञी तीर जियां खुपी पियो. उन वचन जो असरु थियण करे गरमुख पंहिंजे मन मां अविद्या (अज्ञान)-लोभ रूपी कुतो बाहिर कढी छडियो. तंहिं करे हू सदाईंअ लाइ निर्मल (साफु) सुभाव वारो थी रहण लगो.

'श्रीगुरु गीता' नाले संस्कृत ग्रंथ में चयो वियो आहे त गुरू अंतरात्मा आहे. गुरू परमात्मा आहे, गुरू सभिनी जी आत्मा आहे. गुरू ईश्वर जो ई बियो रूपु आहे, गुरू ब्रह्मरुपु आहे. ब्रहमु गुरूअ जे रूप में परघटु थिए थो. तंहिंकरे गुरू-भगिती ई परमात्मा के प्रापति करण जो आख़रीन साधनु आहे. गुरू ई इन्सान खे ईश्वर सां मिलाए सघे थो. मनुष जे अज्ञान खे फ़क़ति गुरू ई दूरि करे सघे थो. सभु इन्सान आत्मज्ञान जे अभाव सां दुखी आहिनि. विषय-भोगनि जे करे सभिनी जे जीवन में अशांती आहे. अज्ञानु, अशांती, तनाउ सिर्फु आत्मज्ञान सां ई दूरि थी सघे थो. आत्मज्ञानु हासिल करण जो हिकिड़ो ई उपाउ आहे - गुरूअ जी शरणि में वञणु. गुरूअ जे किर्पा सां ई परमेश्वरु प्रापति थिए थो. संत कबीर जे लफ़्नि में -

गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट ।
सतगुरु बचन प्रताप सों, मन के मिटे उचाट ।।

गुरू साक्षात् परमेश्वर जो रूपु आहे. गुरू ज्ञानरूपी सागर जो घाटु आहे, जिते मेरे मन खे धोई सघिबो आहे. सत्गुरूअ जे वचननि सां, शक्तिशाली वाणीअ सां मन जा विकार दूरि थीं वेंदा आहिनि ऐं हिर्दे खे परम संतोषु मिलंदो आहे. सामी साहिब चवनि था त अंतर्ज्ञानी सत्गुरूअ वेदनि ऐं पुराण ग्रंथनि जो चिंतनु-मननु करे उपदेशु कयो. पर गुरूअ जा शब्द, गुरूअ जो बोधु कंहिं विर्ले गुरमुख खे मन सां लगो. तीर जियं खुपी वेंदड़ गुरू - उपदेश - बोध जे करे उन शिष पंहिंजे मन मां अविद्या/अज्ञान ऐं लोभरूपी कुतो तड़े कढी छडियो. पोइ संदसि मनु निर्मलु बणिजी पियो. हूं सदाईं लाइ साफु सुथिरे सुभाव वारो थी पियो. अहिड़ीअ तरह सत्गुरू शिष खे श्रेष्ठ/उत्तमु बणाए थो छडे. स्वामी विवेकानंद जे लफ़्ज़नि में - 'गुरू-भगिती' अध्यात्मिक/रूहानी विकास जो आधारु आहे. भगवानु असां वटि गुरूअ जे वेस में ईंदो आहे. गुरू आत्म - साख्यात्कारी हूंदो आहे. गुरू ई शिष खे जनम-मृत्यूअ जे चकर खां मुक्ती

सदाईं वैरागु, रखनि संत अंदर में,
साफु कियाऊं दिलि खे, लाहे दुतिया दागु,
जागी अविद्या निंड मों, सामी थिया सुजागु,
सहजे खेलनि फागु, चड़िही मेर महल में.

संतनि जे अंतर्मन जो बयानु कंदे सामी साहिब चवनि ता त संत वैरागी विर्ती वारा हूंदा आहिवि, संदनि मन में सदाईं वैरागु हूंदो आहे. संतनि पंहिंजे मन मां द्वैतु (बियाई) कढी मन खे साफु (निर्मल करे) छडियो आहे. हू अविद्या (अज्ञान) जे निंड मां जागी चुका आहिनि. हाणे मेरू परबत ते स्थित महल में (आकास में) प्रियतम परमेश्वर सां सहज रूप में फागु (होली) पिया था खेडनि.

हिन लोक या परलोक जा विषय (सुख आदी) भोगण निस्बति जेको उदासीनु हूंदो आहे, उन खे वैरागी चवंदा आहिनि. प्रपंच या परलोक जे गाल्हियुनि लाइ आसक्ती (प्रेमु, मोहु) न रखणु वैरागु आहे. संसार जे बंधननि खां छोटिकारो पाइणो आहे त उन जी शुरूआत वैराग खां ई करिणी पवंदी आहे. आत्मा - अनात्मा जे विवेक द्वारां, वेदान्त शास्त्र जे बुधण द्वारां या सत्गुरूअ जे उपदेश सां अगर इहो महसूसु कयो वञे थो त हीउ संसारु खिनभंगुरु या विनाशी आहे, संसार जा सभई सुख अंत में दुख डींदड़ ई आहिनि ऐं जीव (इन्सान) खे जनम मरण जे चकर में फासाइण वारा हूंदा आहिनि, त पोइ विर्तियुनि खे अंदर में झाती पाए डिसण सां वैरागु जागे थो. सचा संत पंहिंजे अंदर में वैरागु धारणु करण वारा हूंदा आहिनि. सचा संत अंदर वारे वैराग रूपी अग्नीअ सां विषय-विकारनि रूपी सेना (फ़ौज) जलाए छडींदा आहिनि ऐं जलियल इंद्रियुनि खे धीरज सां सोघो झलींदा आहिनि, संजम जे फंदे में विझी अंतर्मुख करे छडींदा आहिनि. (संत ज्ञानेश्वर) वैराग खां सवाइ परमेश्वर जी प्राप्ती कान थी सघंदी आहे.

सामी साहिब पिणु अहिड़े अंदर जे वैराग जो वर्णनु कनि था, जेको सचनि संतनि जे अंदर में सदाईं रहे थो. अहिड़ा संत पंहिंजे हिर्दे मां विकार कढी छडींदा आहिनि. बियाईअ जी भावना कढी हिर्दे खे निर्मलु, साफु बणाए छडींदा आहिनि. उहे अविद्या-अज्ञानू जे निंड मां उथी खड़ा थींदा आहिनि, अविद्या-अज्ञान जो अंधकारु मिटाए मन खे पवित्रु बणाए छडींदा आहिनि. अहिड़ा निर्मल, पवित्र संत ई पोइ पंहिंजे अंतःकरण में प्रियतम परमेश्वर जो साक्षात्कारु करे हुन सां गडु होली मल्हाइण जो आनंदु माणींदा आहिनि. प्रभूअ सां मिलण ऐं होली खेडण जो इहो परम अनंदु अलोकिक हूंदो आहे. इन आनंद जो बयानु नथो करे सघिजे.

अजु पीआ मूंसां खेलीनि होली ।।
रतड़ी थी हीअ मुंहिंजी चोली ।।
जनम जनम में आ 'अंजली' गोली (दादा जशन वास्वाणी)

सन्यासी सेई, माणिनि सुखु सरूप जो,
सामी जनि जी साध संगि, ममत मिटी वेई,
पीअनि पियालो पिरमे जो, तनु मनु धनु ड॒ेई

उहे ई इन्सान सन्यासी आहिनि, जे स्वरूप जो (अंतरात्मा, ईश्वर जो) सुखु माणिनि था. सामी साहिब चवनि था त उन्हनि माण्हुनि जी साधू संतनि जे संग में अचण करे ममता मिटी वेई हूंदी आहे. अहिड़ा सन्यासी तनु, मनु, धनु ड॒ेई प्रेम जो प्यालो पीअनि था. उन्हनि जी दृष्टी इएं खुली पवंदी आहे, जीअं गुलाब जी मुखिड़ी टिड़ी गुलु बणिजी पवंदी आहे.

सन्यासु मानॉ संसार जे, प्रपंच जे ब॒ंधननि खां मुक्तु थियणु. सन्यासु मानॉ त्याग॒ु. सन्यासु ज़िंदगीअ जो चोथों आश्रमु आहे, जंहिं में सभिनी जे संग-सुहिबत जो त्याग॒ु करिणो पवंदो आहे. 'मनुस्मृती' पिणु इहा ई ग॒ाल्हि थी चवे. भग॒वतगीता में कंहिं फल जी इच्छा सां कयल कर्मनि जे त्याग॒ खे सन्यासु चयो वियो आहे. याने सन्यासीअ लाइ त्याग॒ु करणु, आसक्तीअ खां मुक्तु थियणु ज़रूरी आहे. सन्यासीअ खे के नियम, ब॒ंधन पालिणा पवंदा आहिनि. सन्यासीअ जा ब॒ाहिरियां उहिञाण आहिनि-लांगोटी, कमंडलु ऐं सौंटो (दंड) धारणु करणु. सन्यासीअ लाइ मौन धारणु करणु, सचु ग॒ाल्हाइणु ऐं नामु जपणु (ॐ कार उच्चारणु) लाज़िमी हूंदो आहे. सन्यासीअ खे चइनी वर्णनि जे माण्हुनि वटि वञी बिख्या वठिणी पवंदी आहे. जेको मिले उन में संतोषु करिणो पवंदो आहे. सन्यासियुनि जा चार प्रकार थियनि था-हंस, परमहंस, बहूदक ऐं कुटीचक्र. थोरे में चई सघिजे थो त सन्यासु त्याग॒ ते आधारियलु हूंदो आहे, जंहिं में शरीर-सन्यास जे भेट में इच्छाउनि जे त्याग॒ रूपी मानसिक सन्यास खे सचो सन्यासु लेखियो वियो आहे.

सामी साहिब मथिएं श्लोक में सन्यासीअ जी परिभाषा कुझु ब॒िए नमूने ब॒ुधाई आहे. सामी साहिब जे वीचार अनुसार उहे ई मनुष सचा सन्यासी आहिनि, जेके पंहिंजे अंदर/मन में परमात्मा जो दर्शनु करे सचो सुखु-संतोषु प्रापति कनि था. उन्हनि लाइ घर-संसार जो त्याग॒ु करण जी ज़रूरत कान हूंदी आहे. अहिड़ा इन्सान अंदर मां सन्यासी हूंदा आहिनि, मन सां त्याग॒ी हूंदा आहिनि. साधुनि-संतनि जे संग में हुअण करे उन्हनि इन्साननि जी ममता ऐं मोहु आदी नासु थी वियो हूंदो आहे. संसार में रहंदे बि हू पाण त प्रेम जो प्यालो पीअंदा ई आहिनि पर ब॒ियनि खे ईश्वर-प्रेम जो प्यालो पीआरींदा रहंदा आहिनि. खेनि अंतर्ग्यानु थियण करे, अंदर जी ब॒ूझ पवण करे हू परमेश्वर जे दर्शन जो सुखु माणण जोग॒ि बणिजी वेंदा आहिनि, अहिड़नि इन्साननि खे सचो सन्यासी समुझणु घुरिजे. मन जा छह विकार त्याग॒ण

सभ खे कालु कहारु, मारे अची ओचिते,
खंयो वञे खिण में, जवानु बुढो अऊं बारु,
छडे तमअ तन धन जी, तूं भी थीउ तियारु,
मतां करें इतिबारु, सामी विहें सुवास ते.

सामी साहिब मनुष खे चेताइण, जागाइण जो जतनु कंदे चवनि था ते जनमु वठी आयल सभिनी साहवारनि या इन्सानिन खे क़हिरी, ज़ालिम कालु (मौतु) ओचितो, अचनाक अची मारे थो. निर्दई कालु खिन पल में कंहिं बि बुढे, बार या जुवान खे खणी वञे थो. मौत जो कोई भरवसो नाहे. तूं पिण शरीर ऐं धन जो मोहु या लोभु छडे मृत्यूअ लाइ तयारु थी वेहु. हे मनुष, मतां तूं पंहिंजे साह ते विश्वासु करीं. साह जो कहिड़ो भरवसो ?

कालु मानॉ वक़्तु ऐं कालु मानॉ मौतु, यमु या मृत्यूअ जो देवता. काल जो विश्व-व्यापक रूपु आहे मौत. कालु नितु ऐं बेअंतु आहे. प्राणीअ जे जमण खां वठी संदसि पुठियां पुठियां हलंदड़ु कालु ई हूंदो आहे. याने जमण खां वठी कालु साणु रहे थो. ख़बर नाहे त अगिते छा थींदो. जहिड़ो जंहिंजो करमु हूंदो, तहिड़ो मौतु स्वदेश या विदेश में थींदो. हीअ शरीर खिन पल में छडे वञिणो पवे थो. काल जा दूत यकिदम अचनि था, जीव खे मारे मौत जे रस्ते ते गिहिले वञनि था. हिकु भेरो मौत जो वेड़हो पियो मानॉ मनुष खे पोइ कोई कोन थो बचाए सघे. मृत्यू कंहिं खे कोन छडे-चाहे राजा हुजे या फ़क़ीरु, जोधो हुजे या निबलु, जुवानु हुजे या बुढो या बारु. मौतु/कालु सभिनी साहवारनि खे मारे भोरि थो बणाए छडे. मौतु जणु काल जी ज़बरदस्तु काठी आहे, इन काठीअ जो धकु सभिनी खे लगे थो. केरु बि मौत जे सामुहूं टिकी नथो सघे. मौतु न कंहिं ते दया करे ऐं न कंहिंजी परवाह करे, वडीअ शान-शौकत वारा, वडीअ उमिरि ऐं नामूस वारा मनुष मृत्यूअ जे रस्ते तां ई वेंदा रहिया. जनमु वठी आयलु प्राणी कडहिं न कडहिं मौत जे रस्ते तां अवसि वेंदो, हीउ लोक इन करे ई त 'मृत्यूलोक' जे नाले सां मशहूरु आहे. इन गाल्हि जो अहासासु करे मनुष खे पंहिंजो जीवनु सफलु करण जी कोशिश करणु घुरिजे.

सामी साहिब पिणु इन गाल्हि डांहु ध्यानु छिकाइनि था ऐं ख़बरदारु कंदे चवनि था त हे मनुष, तूं सुजागु थी, आत्मज्ञानु प्रापति करि. पंहिंजे अंदर में प्रभूअ जो दर्शनु करि. पंहिंजे शरीर ऐं धन मोहु ऐं लोभु छडे डे. अहंकार खां परे रहु. पंहिंजे साह ते बि ऐतिबारु न करि. कालु, मौतु डाढो

सदा नगारा कूच का, बाजत आठौ याम ।
रहिमन जग में आइकै, को करि रहा मुकाम ।। (रहीम)

सभ खे रुआरे, मोहे माया मोहिणी
भवाए भव सिंध में, नाना रूप धारे,
सामी बचो को सूरमो, सतिगुरु संभारे,
बेहदि डि॒ओ बा॒रे, पूरनु डि॒ठो जंहिं पीअ खे.

सामी साहिब माया जे प्रभाव जो वर्णनु कंदे चवनि था त माया मोहिणी आहे, जेका सभिनी खे मोहे (मोह में विझी) पेई थी रूआरे. माया अनेक रूप धारणु करे माण्हुनि के संसार रूपी सागर (भव-सागर) में पेई रुलाए, भटिकाए. मनुषनि में विर्लो को अहिड़ो वीरु पुरुषु हूंदो, जंहिं सतिगुर खे यादि करे, सत्गुरूअ खां ज्ञान पिराए, बेअंत जो दीपकु जलाए पंहिंजे प्रियतम परमेश्वर जो दर्शनु कयो आहे.

जीवात्मा सचे अर्थ में ब्रह्म (परमेश्वरु) हूंदे बि हुन खे पंहिंजे सचे स्वरूप जी ज॒ाण कान थी थिए ऐं हू पाण खे ब्रह्म खां अलगि॒ थो समुझे. इहो माया जे करे ई थिए थो. माया जे पर्दे जे करे जीवु पाण खे ब्रह्म/परमेश्वर खां जुदा थो समुझे. माया खे ई अज्ञानु या अविद्या चयो वियो आहे. इन्सान जो मनु माया जे असर हेठि अची सभु कुझु सोचींदो आहे. संसार जा सभु दुख ऐं फ़िकिर माया जे करे ई आहिनि. भग॒वानु पिणु माया जे पर्दे में लिकलु आहे. जेको साधकु सचे हिर्दे सां भग॒वान जी तलाश में लग॒लु आहे. उन लाइ हू माया जो पर्दो हटाए परघटु थिए थो. स्वामी विवेकानंद जे शब्दनि में, 'माया प्रकृती आहे; माया जीवन ऐं मृत्यू, सुठे ऐं बुरे, ज्ञान ऐं अज्ञान जो मिश्रणु (मिलावत)आहे. जंहिं में असी ब॒धिजूं था, उहा माया आहे.' संत कबीर त माया के 'ठगि॒णी' चयो आहे, जा सभिनी देशनि जे माण्हुनि खे पेई ठगे॒ -

माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देस ।
जा ठग ने ठगनी लगी, ता ठग को आदेस ।।

सामी साहिब पिणु अनेक रूप धारणु करण वारीअ इन माया खे **'मोहिणी'** चयो आहे. मोह में विझंदड़ इहा माया अनेक प्रकारनि जा वेस या रूप धारे सभिनी जीवन खे भव-सागर पेई ती भटिकाए. जीव खे अनेक जूणियूं, अनेक जनम मिलनि था. जीवु पियो थो भटिके. मोख-मुक्तीअ जो को वसीलो कोन्हे. मगर मनुष देहि मिलण सां जीवु मुक्ती पाए सघे थो, माया जे ब॒ंधन खां, फाहीअ खां बची सघे थो. माया जो पर्दो हटाए अंतरात्मा/परमेश्वर खे पसी सघे थो. सामी साहिब चवनि था त संसार में विर्लो को अहिड़ो वीरु मनुषु हूंदो, जेको सत्गुरूअ जी ओट वठी, अंदर जो ज्ञानु पाए, मन मां अज्ञान जो अंधकारू दूरि करे, उन असीम (अपार) जो दीपकु जलाए पंहिंजे प्रियतम परमेश्वर जो दर्शनु कयो आहे. सत्गुर जे ज्ञान ऐं किर्पा सां माया - मोहु पूरीअ तरह नष्टु ती वञे थो ऐं पोइ मनु शांती - संतोष सां भरिजी वञे थो.

कबीर माया मोहिनी, सब जग घाला घानि ।
कोइ इक साधु ऊबरा, तोड़ी कुल की कानि ।।

सभ में सुञाणनि, आशिक़ पंहिंजे यार खे,
अंदरि बाहरि दह दिसा, साणु सदा जाणनि,
नंहं चोटीअ ताईं चूरि थिया, बेधिया जे बाणनि,
सामी सियासनि , अहिड़ो पदु पचायो.

परमेश्वर जा प्रेमी/भक्त पंहिंजे दोस्त (परमेश्वर) खे सभिनी में पिया पसनि, सुञाणनि. हू प्रियतम परमेश्वर खे अंदरि चाहे बाहरि, डहनि ई तर्फ़नि में सदाईं पाण सां गडु था समुझनि. हू प्रेम जे तीरनि सां घायल थियण करे नंहं कां वठी चोटीअ ताईं मदहोश थिया पिया आहिनि. सामी साहिब चवनि था त सियाणनि, ज्ञानियुनि ई अहिड़ो पदु पातो आहे, अहिड़ा ई इन मंज़िल ते पहुची सघिया आहिनि.

जंहिंजे मन में प्रेमु या इश्कु आहे, उहो सचुपचु ईश्वर जे वेझो आहे. छो त परमेश्वरु पाण बि प्रेमु आहे. ईश्वर जे इश्क़ रूपी सागर में पाण खे बोड़े छडींदडु प्रेमी-भक्तु ई अनंत सुख जा मोती पाए थो. पंहिंजे अंदर में परमात्म खे पसंदड़, परमेश्वर जो दीदारु कंदड़ सचनि भक्तनि खे पोइ इहो बोधु बि थींदो आहे त मां परम - आत्मा जो अंशु आहियां. न, मां परमात्मा ई अहियां 'अहं ब्रह्मस्मि । परमात्मा हर इन्सान जे अंदरि आहे. इहो बोधु (ज्ञानु) थियण करे सचा प्रेमी भक्त पंहिंजे प्रीतम खे हर मनुष में मौजूदु डिसनि था. हू महसूसु कनि था त परमेश्वर घट घट वासी आहे. ईश्वर जे प्रेम में लिंवलीन थी वियल भक्त पंहिंजे अंदर में या बाहिर संसार में प्रीतम परमेश्वर खे पाण सां गडु था समुझनि. हू परमेश्वर खे पाण खां जुदा करे ई नथा सघनि. संत तुकाराम लफ़्ज़नि में,

जेथे जातों तेथें तू माझा सांगाती, चालविसी हाती धरूनियां ।
चालों वाटे आम्ही तुझाचि आधार । चालविसी भार सवे माझें ।।

चवे थो त हे भगवान, मां जिते जिते वञां थो, उते मूं सां गडु हली मुंहिंजो हथु पकिड़े तूं ई हलाईं थो. मां तुहिंजे ई सहारे परमार्थ जे मार्ग ते हली रहियो आहियाँ... हक़ीक़त में भगितीअ जे मार्ग में हिक अहिड़ी मंज़िल ईंदी आहे, जंहिं में प्रभूअ जे प्रेम.बाणु लगण करे प्रेमी भगतु जणु घायलु थी पवंदो आहे, ऐं पोइ प्रभूअ जो ई थी पवंदो आहे. अहिड़े साधक खे ई साक्षात्कार जो अनुभवु थींदो आहे. ऐ हू ईश्वर जे नज़दीक़ विहण जो सुखु माणण जो हक़दारु थी पवंदो आहे. अहिड़ो पदु पाइणु डाढो दुर्लभु हूंदो आहे ऐं उहो पचाइणु, माणणु उन खां बि वधीक अणलभु/डुखियो हूंदो आहे. ईश्वरी प्रेम जो पंहिंजे अखियुनि सां कयलु/थियलु साक्षात्कारु 'ब्राह्मी स्थिती' हूंदी आहे, परमेश्वर जो दिव्य दर्शनु करण जी स्थिती हूंदी आहे, जा संत तुकाराम जहिड़नि विर्लो संतनि खे नसीबु थींदी आहे !

सभोई संसारु, माया कयो वसि पांहिंजे,
ख़ाली छड़ियाईं कोन को, जुवानु बिरिधु ऐं बारु,
विझी जारु भरम जो, कियाईं ख़लक खुवारु.
को सामी पुरखु सचारु, जागी छुटे जिन खों.

माया सारे संसार खे पंहिंजे वस में, क़ब्ज़े में करे छड़ियो आहे. हुन कंहिंखे बि कोन छड़ियो - न जुवान खे, न बुढे खे ऐं न बार खे. पंहिंजो भरम/सन्से जो जारु विझी माया सभिनी माण्हुनि खे बुछिड़ो/बेमनो/दुखी करे छड़ियो आहे. सामी साहिब चवनि था त विर्लो को अहिड़ो सचो पुरुषु हूंदो जेको सुजागु थी इन जिन खां छुटी सघंदो.

का वस्तू, शइ जीअं आहे तीअं न समुझण खे भ्रमु, भरमु चवंदा आहिनि. भरमु, भ्रांती या मिथ्या ज्ञान खे ई संत - साहित्य में अज्ञानु चयो वियो आहे. हीउ संसारु माया-रूप आहे; जंहिंखे सचु समुझी हलणु हिक क़िस्म जो भ्रमु ई आहे. अंधकार में नोड़ीअ खे नांगु समुझणु भरमु आहे. अविद्या मां पैदा थियल भरम जे करे हिन संसार जो कूड़ो सुपनो अनुभवु कजे थो. **'देहोहं'** (देहि मां ई आहियां) जो अभिमानु संसार जे भरम जो बुनियादु आहे. भरम जो मुख्यु सूत्रु इहो ई आहे - मां देहि आहियां-मुंहिंजी ज़ाल, मुंहिंजो पुटु, मुंहिंजो घरु वग़ेरह. मगर 'मां ब्रह्मु आहियां' **(अहं ब्रह्मास्मि)** जो आत्मज्ञानु प्रापति थियण खां पोइ जीव (मनुष) खे संसार जे भरम मां छोटिकारो मिले थो.

वेदांतियुनि माया खे प्रकृती चयो आहे. माया जे करे हीअ स्थूल ऐं सूख्याम सृष्टी ब्रह्म ते आश्रित (आधारियल) भासमानु थिए थी. माया न हूंदड़ जगत जो अनुभवु कराए थी ऐं आत्मा पाण हूंदे बि उन जो अनुभवु मनुष खे कोन थी कराए. जीअं हवा महसूसु करे सघिजे थी पर हवा जो रूपु, डिसण में कोन ईंदो आहे, तीअं माया भासिजंदी आहे पर डिसण में कान ईंदी आहे. 'मा' याने नाहे, 'या' जो अर्थु आहे जेका न हूंदे बि महसूसु थिए थी ! माया ईश्वर जी शक्ती आहे. इहा निर्गुण ब्रह्म में निर्गुणता सं हूंदी आहे. विश्वरूप में जड़हिं इहा परघटु (ज़ाहिरु) थिए थी, तड़हिं इन खे कार्य-रूपिणी माया चइजे थो. माया ब्रह्म जे अधीनु आहे, माया जो निर्माणु ऐं नासु ब्रह्म जो सहज सुभाउ आहे.

इहा ई शक्तिस्वरूपु माया जीवनि / मनुषनि लाइ 'अज्ञानु' थी बणिजे. आत्मज्ञान सां अविद्या/अज्ञानु नष्टु थी वञे थो. सामी साहिब चवनि था त अहिड़ीअ शक्तिशाली माया सारे संसार जे माण्हुनि खे पंहिंजे वस में करे छड़ियो आहे, जंहिं कंहिं खे बि कोन छड़ियो आहे. भरम जे जार में सभिनी खे फासाए बदिनामु कयो अथाईं. को विर्लो सचो संतु, सत्पुरुषु माया जे प्रभाव खां पाण खे बचाए थो. सतगुर जी शरणि में अची सचो साधकु माया-जार खां

साध संगति डे पेरु, खंयो जंहिं ख़ुशीअ सां,
मिटियो तंहिंजे मन मों, अविद्या भरमु अंधेरु,
पाए सुखु सरूप जो, थियो सामी चए सुमेरु,
करे सघे केरु, महिमा तंहिंजी मुंहं सां.

सामी साहिब चवनि था त जेको मनुषु ख़ुशीअ सां संतनि जे संगति में, सत्संग में वञे थो, तंहिंजे मन मां अविद्या/अज्ञान जो अंधकारु ऐं भरमु दूरि थी वञे थो. अहिड़ो इन्सानु पंहिंजे स्वरूप जो / परमात्मा जो सुखु हासिल करे थो ऐं उहो ज़णु सुहिणो मेरू परबतु बणिजी पवे थो, सोन जो पहाड़ु बणिजी पवे थो. उन जी महिमा केरु बि पंहिंजे मुख सां नथो करे सघे.

साधू-संतनि ऐं सत्पुरुषनि जो संगु 'सत्संगु' आहे. संत पाण सत् जो आचरणु कंदड़ हूंदा आहिनि. सत्संग में संत उपदेशु, सिख्या, सुमति, भगिती-भावु ऐं ज्ञानु-ध्यानु डींदा आहिनि. सत्संग सां उध्दारु थिए थो. परमार्थ जो लाभु वठण लाइ सत्संगु, संत-समागमु काराइतो हूंदो आहे. संतनि जे सहवास सां मनुषु साधू-सुभाव वारो बणिजी पवंदो आहे. सत्संगु ज़णु संजीवनी बूटी आहे, जंहिं सां जीवनु कल्याणमय बणिजी पवे थो. जंहिं मनुष संतनि जी संगति कान कई आहे, उन खे वेद-पुराण पड़हण खां पोइ बि फलु कोन मिली सघंदो. जीअं वाढो काठ खे, सोनारो सोन खे ऐं माल्ही बाग़ खे सुंदरु बणाईंदो आहे, सीअं सत्संगु मनुष खे अंदिरां बाहिरां सुहिणो बणाईंदो आहे.

'सतसंगति को फल यही, संशय रहइ न लेस ।
ह्वै असथिर शुचि सरल चित्त, पावै पुनिन कलेस ।।'

संतनि जे संग जी अहमियत बुधाईंदे सामी साहिब पिणु इहाई ग़ाल्हि चवनि था. छाकाणि ते संतनि जी संगति करण सां मनुष जे मन मां अविद्या, अज्ञानु मिटिजी वञे थो, भरम दूरि थी वञनि था. ज्ञान जो प्रकाशु पाइण लाइ संतनि जे संग जहिड़ो बियो को सवलो उपाउ कोन्हे. मनुष खे पंहिंजे सरूप जो, आत्मा जो बोधु कराईंदड़ संत ई हूंदा आहिनि. असांजे अंदर में वेठल परम पिता परमेश्वर जे हुअण जो अहसासु संत ई कराईंदा आहिनि. तंहिं करे जेको राज़ी ख़ुशीअ संतनि जी शरणि में वञे थो, सत्संगु करे थो, उहो अंतरात्मा जो, परब्रह्म जो, पंहिंजे असुली रूप जो दीदारु करे परम सुखु माणे थो. अहिड़े मेरू परबत

सत संगति में सुख बड़ा, जो करि जाने कोय ।
आधो छिन सत्संग को, कलिमल ढारें खोय ।।

साधू जन सुगमु, मारिगु ॾसिनि मोख जो,
सामी रखियो कंहिं सूरमें, कलिपत पारि क़दमु,
मारे कयो जंहिं मन जो, भोलाओ सभु भसमु,
घर में घरु अगमु, पाए वेठो पाकु थी.

सचा साधू संत मनुष खे मोखु प्रापति करण जो सवलो रस्तो ॾसिनि था. सामी साहिब चवनि था त विर्ले कंहिं शूर वीर मनुष पाण खे सन्सनि वहमनि खां छॾाए मन जा सभु भरम (अविद्या-अज्ञानु) मारे भसमु करे छॾिया. पोइ हू पवित्रु (निर्मल, साफ़ु) बणिजी पंहिंजे घर (देहि, शरीर) में अगम (अगम्य, अथाह, बेअंत) परमेश्वर प्रापति करे वेठो.

परमात्मा जीव खे मनुष जो चोलो ॾिनो आहे. इहो चोलो संभाले रखणु, उन ते को दागु लॻणु न ॾियणु इन्सान लाइ ज़रूरी आहे. मगर इहो कमु आहे ॾाढो कठिनु ! मनुष खे , प्रभूअ जी भॻिती कंदड़ भॻत खे पिणु राति ॾींहं मन सां जंगि जोटिणी पवंदी आहे, प्राणनि जी बाज़ी लॻाइणी पवंदी आहे. न त मनुषु पतन (ज़वालियत) जे खाहीअ में वञी किरंदो. भॻिती करणु को मामूली ऐं सवलो कमु नाहे. को विर्लो वीरु पुरुषु ई इन खेत्र में ॿलिदान लाइ तयारु थिए थो. संत कबीर जे लफ़्ज़नि में,

कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहिं ।
सीस उतारै हाथि करि, सो पैसे घर माहिं ।।

अगर भॻवान जी भॻिती करणु कठिन आहे त छा कजे? पंहिंजो मनुष-जनमु कीअं सफलु कजे? परमेश्वरु कीअं प्रापति कजे? मोखु कीअं हासिल कजे? साक्षात्कारु करण जो सवलो रस्तो कहिड़ो आहे? जवाबु सामी साहिब जे मथिएं सलोक में आहे.

सचा साधू-संत साक्षात्कारी हूंदा आहिनि. संसार जे कल्याण लाइ मनुष देहि धारणु करे आयल संत ॼणु साख्यात परमेश्वर हूंदा आहिनि. माता जियां ममता रखंदड़ संत सभिनी खे मोख-प्राप्तीअ जो सवलो रस्तो ॾेखारिनि था. उहो आहे, पंहिंजे मन-मंदिर में ई भॻवान जो दर्शनु करण जो मार्गु. मन खे निर्मलु, साफ़ु पवित्रु बणाइण लाइ चवनि था. मन मां विकार कढी छॾणलाइ चवनि था. इहा ॻाल्हि सभिनी लाइ कठिन हूंदे बि को व्रिलो वीरु निकिरी मैदान में अचे थो, जेको सत्गुर जे उपदेश अनुसार पंहिंजे मन खे युध्दि करे मन में स्थित हूंदड़ भरम-सन्सनि रूपी, बुरनि विकारनि रूपी दुश्मननि खे मारे, जीत हासिल करे, मन में ई प्रभूअ खे प्रापति करे दर्शन जो आनंदु माणे थो.

सामी कीम सडाइ, ग्यानी पंडतु पाण खे,
इनहीअ ममता मुठा केतिरा, तूं समुझी पाणु बचाइ,
आग्या मनी अगस्ति जियां, अविद्या सिंधु सुकाइ,
झाती झरोके पाइ, त सनमुखु डिसीं सुपिरीं.

सामी साहिब समुझाईंदे चवनि था त तूं पाण खे ज्ञानी या पंडतु न सडाइ. इनहीअ ममता ऐं अहंकार त केतिरनि ई खे मुसीबत में विधो आहे, तंहिंकरे इहा गाल्हि समुझी तूं पाण खे बचाइ, अभिमान खां परे रहु. तूं अगस्ती ऋषीअ जियां आग्या मञी अविद्या (अज्ञान) रूपी समुंड खे सुकाइ, तूं पंहिंजे अंदर में, मन में झाती पाए डिसंदें त तोखे प्रियतम परमेश्वरु सामुहूं डिसण में ईंदो.

अध्यात्मा जे लिहाज़ खां माण्हू या त ज्ञानी हूंदा आहिनि या अज्ञानी. ज्ञानी मनुषनि में आत्मा जो विवेक हूंदो आहे त अज्ञानी मनुषनि जे जीवन में देहि जो अविवेकु हूंदो आहे. अविवेकी इन्सान अज्ञानी या मूर्ख हूंदा आहिनि. उहे अहंकारी पिणु हूंदा आहिनि. आत्मज्ञान ऐं विवेकु न हुअण जे अभाव में हू ईश्वर खे विसारे वेठल हूं आहिनि. मोह-ममता में फाथल मनुषनि के पंहिंजीअ दहि जो अभिमानु हूंदो आहे. मोह में फाथलु इन्सान मूरखु ई हूंदो आहे, हुन जी बुध्दी भ्राष्ट थियल हूंदी आहे. अविद्या (अज्ञान) जो ज़ोरु तमामु घणो प्रबलु हूंदो आहे. वक्ते सियाणा, पड़हियल-गड़हियल माण्हू बि मोह - ममता जे वस में थी करे मूरखनि जहिड़ी हलति हलंदा आहिनि. पड़हियल इन्सान पाण खे ज्ञानी ऐं पंडत सडाईंदा आहिनि. मगर पोथियूं सिर्फु पड़हण सां भला को पंडतु थी सघियो आहे ? संत कबीर चवे थो -

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोइ ।
ढाई आखर प्रेम का , पढ़ै सु पंडित होइ ।।

वहिंवारी संसार में नज़रि ईंदड़ पड़हियल मूरख रजोगुणी ऐं तमोगुणी हूंदा आहिनि. विकारानि सां भरियल अहिड़े ममता-मोहग्रस्त मनुष खे समुझाईंदे सामी साहिब चवनि था - अड़े, तूं पाण खे ज्ञानी-ध्यानी या पंडतु न सडाइ. तूं विवेकु धारणु करे इन ममता खां, देहि जे अभिमान या मांपुणे खां पाण खे बचाइण जी कोशिश करि. इहे तुंहिंजा दुश्मन अथई, मारे मिटी कंदइ. तूं अगस्ती (अगस्त्य) रिषीअ वांगुरु अविद्यारूपी (माया, अज्ञानरूपी) समुंडु पी करे उहो सुकाए छडि, याने अविद्या खे नष्ट करे छडि. (अगस्ती ब्रम्हज्ञानी सपस्वी हो, महा रिषी हो. जडहिं कालकेय नाले राकासु समुंड में वञी लिको हो, तडहिं अगस्तीअ समुंड जो सजो पाणी पी समुंड खे सुकाए छडियो. जंहिंजे करे उहो राकासु मारियो वियो.) सामी सहिब अगिते चवनि था त तूं पंहिंजे अंदर में, मन में, हिर्दे में लियो पाए डिसु, तोखे प्रियतम परमेश्वरु सामुहूं डिसण में ईंदो. दादा वास्वाणीअ जे लफ्ज़नि में -

सामी सभ जो देवु, आहे पुरखारथु पांहिंजो,
कोड़िनि में को हिकिड़ो, गुरमुखु ॼाणे भेवु,
अविद्या जो अहन्मेवु, कढियो जंहिं अंदर मों.

सामी साहिब चवनि था त सभिनी इन्साननि जो देवु पुरुषार्थु (कोशिश, उदमु, जतनु) आहे.इहो भेदु (राज़ु) करोड़नि में कंहिं हिकिड़े गुरमुख ॼातो आहे, अहिड़े गुरमुख, जंहिं पंहिंजे अंदर (हिर्दे) मां अविद्या जो अहंकारु / मांपुणो, ख़ुदी (अहन्मेवु/ अहंमति/ अज्ञानु) कढी छड़ियो आहे.

भारतीय संस्कृतीअ में मनुष लाइ चार पुरुषार्थ बुधाया विया आहिनि, जिनि जी प्राप्ती करणु मनुष जो फ़र्ज़ु समुझियो वियो आहे. धर्म, अर्थ, काम ऐं मोक्ष - इहे चार पुरुषार्थ ज़िंदगीअ जा मुल्ह या क़दुर आहिनि. इन्हनि में अजु फेरो अची वियो आहे ऐं अर्थ खे वधीक अहमियत मिली वेई आहे. ॿिया के नवां पुरुषार्थ या मुल्ह पिणु शामिल थी विया आहिति. महाकवी सामी साहिब जनि हिन श्लोक में कोशिश या जतन खे पुरुषार्थ चयो आहे, जंहिंखे हू देवु या ईश्वरु था चवनि.

असीं जंहिं धरितीअ ते रहूं था, उहा कर्मभूमी आहे. हिते कर्म करिणा ई पवनि था. कर्म करण खां सवाइ जीवनु अजायो आहे. का बि शइ हासिल करण लाइ कोशिश करिणी पवे थी. बिना कोशिश या जतन जे कुझु मिलिणो नाहे. इहा कोशिश इन्सान जो पुरुषार्थ आहे, जंहिं खे सामी साहिब ईश्वरु (देवु) था चवनि. कर्मरूपी कोशिश या जतनु / उदमु ई देवु आहे. बेहदि, अथक कोशिशूं करण खां पोइ सफलता या जसु मिलणु ई घुरिजे. कोशिश करण जी शक्ती इन्सान खे पाण में धारणु ई घुरिजे न त मक़्सद पूरा कोन थी सघंदा.

ईश्वर खे प्रापति करण लाइ, मोखु पाइण लाइ पिणु कोशिश करिणी पवे थी. हर इन्सानु ईश्वर जो मंदरु आहे. इन्सान जो कमु आहे पंहिंजे हिर्दे में वेठल परम तत्व खे, प्रीतम परमेश्वर खे सुञाणण जी कोशिश करे. इन लाइ सतिगुरूअ जी शरणि में वञी आत्मज्ञानु हासुल करे ऐं अविद्या / अज्ञानु कढी हिर्दो निर्मलु बणाए. तड॒हिं ईश्वर खे अंदर में ई ड॒िसी सघंदो. छाकाणि त जेसिताईं अंदर मां अविद्या (या अज्ञानु) कान निकिरंदी याने अंदर मां मांपुणो या अहंकारु कोन वेंदो, तेसींताईं हिर्दो निर्मलु कोन बणिजी सघंदो. ऐं इन लाइ जतनु त करिणो ई पवंदो.इहा ग॒ाल्हि विर्लो को गुरमुखु समुझी करे पुरुषार्थ/ जतन खे भग॒वानु ॼाणी उदम ऐं आसीस सां जसु पाए थो. चवंदा आहिनि त 'प्रयत्नांति परमेश्वर'.

श्री समर्थ रामदास जे लफ़्ज़नि में - **'यत्न तोचि देव जाणावा।'**

सारो जगु पचे, थो अविद्या जे अहंकार में,
जिएं बांदरु बाज़ीगर जे, हथ में नितु नचे,
विरिले कंहिं गुरमुख खे, वेई सांति अचे,
जंहिं खे संत सचे, सामी लायो लख में.

सारो संसारु अविद्या (अज्ञान) जे अहंकार में पियो थो जले/ब॒रे. ठीकु अहिड़ीअ तरह जीअं को बांदरु बाज़ीगर जे इशारे ते नचंदो आहे (अविद्या पिणु मनुष खे नचाईंदी रहंदी आहे. अहिड़ा मनुष अंदर में अशांति हूंदा आहिनि.) सामी साहिब चवनि था त विर्ले कंहिं गुरमुख खे शांती हासिल थी हूंदी, जंहिंखे सचे संत ईश्वरी ज्ञानु ड॒िनो हूंदो.

असत/कूड़ी वस्तूअ जो आभासु पैदा कराईंदड़ शक्ती मानॉ अविद्या. जीवात्मा परमात्मा/परब्रह्म खां अलगि॒ न हूंदे बि अविद्या जे करे जीवस्वरूपु अलगि॒ थो ड॒िसण में अचे, ब॒ीअ तरह चई सघिजे थो त परमात्मा, जीव ऐं विश्व जे हिक ब॒िए सां हूंदड़ संब॒ंध निस्बति अज्ञान खे अविद्या चवंदा आहिनि. अविद्या खे ई माया ऐं अज्ञानु चयो वियो आहे. अविद्या माया वांगुरु ई ब॒धी छड॒ीदड़ आहे. अविद्या जीव (मनुष) खे मेरो थी करे छड॒े, पाप-कर्मनि में थी विझी छड॒े. सारे संसार जा जीव/माण्हू इन अविद्या/अज्ञान जे अभिमान में पिया था पचनि, जलनि.

सामी साहिब पिणु इहा ई ग॒ाल्हि चवनि था. चे अविद्या संसार जे सभिनी जीवनि खे पेई नचाए, जीअं को बांदरु बाज़ीगर जे वस में हुअण करे, जीअं बाज़ीगरु चाहे, तीअं पियो नचंदो आहे. साग॒ीअ तरह अविद्या जे हथ में नोड़ी हुअण करे उहा जीअं चाहे तीअं पेई जीवनि/साहवारनि खे नचाए. असीं अविद्या जा ग़ुलाम आहियूं. इन करे असीं अशांति आहियूं. अंदर में पिया था ब॒रूं. अहिड़ीअ हालति में पंहिंजे स्वरूप खे, परमात्मा खे कीअं पसी सघंदासी? परमेश्वर सां एकाकारु कीअं थी सघंदासीं? अविद्या जे असर करे आम इन्सान कीअं ज्ञानु प्रापति करे महसूसु कंदा त जीव ऐं ब्रह्मु हिकु ई आहे या असांजे अंतःकरण में ई परमात्मा वसे थो.

जवाब में सामी साहिब इहो जताइनि था त को विर्लो गुरमुख हूंदो, जंहिं पंहिंजे मन में शांतीअ जो अनुभव कयो हूंदो, अहिड़े गुरमुख खे संदसि गुरूअ, सचे संत ईश्वरी ज्ञानु ड॒िनो हूंदो, ईश्वर जो ब॒ोधु या ज॒ाण कराई हूंदी. सचे संत जे करे ई उन जे अंदर मां अज्ञानु दूरि थी वियो हूंदो ऐं उन गुरमुख अंदर में अलख / परब्रह्म जो दर्शनु कयो हूंदो. तात्पर्जु इहो त अज्ञानु दूरि करण ऐं ज्ञानु प्रापति करण लाइ सत्गुर जी ओट वठणु, सत्संग जो सहारो वठणु,

सुहागि̱णि साई, जा पिर परिची कई पांहिंजी,
बिना हार सींगार जे, खसम खे भाई,
केहिड़ी ग̱णियां मुख सां, तंहिंजी वड̱ाई ?
सामी सदाई, मिली रहे महबूब सां.

सामी साहिब सुहागि̱णि स्त्रीअ जा, भग̱तिणि जा लक्षण (उहिञाण) ब̱ुधाईंदे चवनि था त उहाई सची सुहागि̱णि आहे, जंहि प्रियतम परमेश्वर खे राज़ी करे पंहिंजो करे छड̱ियो आहे. पतीअ जी भगि̱ती कंदड़ अहिड़ी ई स्त्री पतीअ खे वणंदी आहे, पोइ चाहे उहा हारु सींगारु न बि करे. अहिड़ीअ निष्ठावान सुहागि̱णि जी मां कहिड़ी ऐं केड̱ी स्तुती/वड̱ाई करियां? सामी साहिब चवनि था त इहा सुहागि̱णि सदाईं पंहिंजे प्रीतम पतीअ सां गड̱ु रहंदी आहे.

सुहागि̱णि मानॅ वराइती, घोट वारी या सधवा स्त्री. भगि̱तीअ जे खेत्र में परमात्मा खे पंहिंजो पती मञी उन सां प्रेमु करणु माधुर्य भाव जी भगि̱ती आहे. अहिड़ीअ भगि̱तीअ लाइ समर्पण जी भावना लाज़िमी हूंदी आहे. परमेश्वर रूपी पतीअ जे प्रेम में पुरि थी पाणु विसारे सदाईं प्रीतम सां साणु हूंदड़ स्त्री सची सुहागि̱णि लेखिबी. पार्वती, सीता, सावित्री आदी अहिड़ियूं ई सुहागि̱णियूं हुयूं. मीरांब̱ाई ऐं राबिया बि इन परंपरा जा मिसाल आहिनि. इहे संतियाण्यूं, सुहागि̱ण्यू कड̱हिं बि पिरींअ खां, प्रीतम खां, परमेश्वर खां परे थियणु न चाहींदियूं हुयूं.

महाकवी सामी साहिब पिणु रूहानी सतह ते अहिड़ीअ सुहागि̱णि जा लक्षण (निशानियूं) ब̱ुधाया आहि नि. हू ज̱णु सुहागि̱णि जी व्याख्या या परिभाषा था बयानु कनि. प्रतीकात्मक शब्दनि जो प्रयोगु कंदे हू प्रभूअ जे प्रेमिणि जो, सब̱ाझे साईंअ जे सुहागि̱णि जो शब्द-चित्रु हींअ था चिटिनि-उहा स्त्री (भगि̱तिणि) सुहागि̱णि आहे, जा प्रीतम-परमेश्वर खे राज़ी करे पंहिंजो बणाए थी छड̱े आहे. पतीअ जो प्रेमु पाइण लाइ स्त्री हारु-सींगारु कंदी आहे, जीअं पती हुन ते मोहितु थिए. मगर सचीअ सुहागि̱णि खे अहिड़ो ब̱ाहिरियों ड̱ेखाउ करण जी ज़रूरत कान हूंदी आहे. उहा त पंहिंजे सचे प्रेम सां, निष्ठा ऐं श्रध्दा सां, अंदर जे गुणनि सां ई प्रीतम खे पसंदि पवंदी आहे. अहिड़ीअ स्त्रीअ जी स्तुती खणी केतिरी बि कजे, उहा थोरी थींदी. अहिड़ी प्रेमिणि, सुहागि̱णि, भग̱तिणि ई सदाईं पंहिंजे प्रीतम सां गड̱ु रहे थी; मिली हिकु थी वञे थी, जीअं जीउ/जीवु ब्रह्म/परमात्मा

सो नांगो निरबानु, सो अवधूती आतमा,
जो कटे फास गिचीअ मों, अविद्या आस्मानु,
असतमालु, अवले जां, डिसे अनभइ भानु,
सामी सभु जहानु, आहे जंहिंजे आसिरे.

उहो ई इच्छा रहित नांगो फ़क़ीरु आहे ऐं उहोई अवधूत (वैरागी, सन्यासी, जोगी) आहे, जंहिं पंहिंजे गले मां अविद्या (अज्ञान) जी फासी कटे छडी आहे. अहिड़ो पुरुषु तिरीअ ते रखियल आंवड़े जियां आत्मिक (ईश्वरी) ज्ञान रूपी सिजु साफु साफु डिसे थो, उन अंतरात्मा जो दर्शनु करे थो, जंहिंजे आसिरे ते हीउ सारी संसारु बोठलु आहे.

नाथपंथी योगीअ खे **'अवधूत'** चयो वियो आहे. सिध्द मार्ग जे योगी पुरुषनि के 'अवधूत' चवंदा आहिनि. सिध्द मार्गु आदिनाथ (शंकर) मां निर्माणु थियलु आहे . (संत ज्ञानेश्वर नाथपंथी, नाथ संप्रदाय जो हो.) ब्रह्मा - विष्णू - महेश इन्हनि टिनि देवताउनि जो अवतारु 'दत्तात्रेय' पिणु योगी, सिध्द जे रूप में सुञातो वञे थो, जंहिं मां 'गुरुमार्ग' जो आरंभु थियो. वर्ण ऐं वर्ण- आश्रम धर्म जे बदिरां सिर्फु आत्मा खे ई डिसंदड़ योगी 'अवधूत' सडाईंदा आहिनि. संत एकनाथ जी लिखियल 'अवधूत गीता' अनुसार - जेको पंहिंजे अहंकार (मांपुणे) खे धोई थो छडे उहो अवधूत आहे, उहो ई योगी ऐं पवित्रु आहे .हू संकल्प-विकल्प खां रहित हूंदो आहे. सजे सरीर ते शुध्द भस्म लाईंदड़ु, संसार जा बन्धन काटे ब्रह्मानंद में बुडलु अवधूत हूंदो आहे.

सामी साहिब अहिड़े कंहिं अवधूत जो ज़िकिरु करण सां गडु अहिड़े इच्छा रहित नंगे फ़क़ीर, जोगीअ जो बि बयानु कयो आहे, जे घरु बारु त्यागे उन अवस्था में ई ईश्वर (ब्रह्म) जी तलाश कंदा रहंदा आहिनि. सामी साहिब चवनि था त नांगो फ़क़ीरु ऐं अवधूत सही अर्थ में उहो ई आहे, जंहिं अविद्या-अज्ञान जो अंधकारु पंहिंजे अंदर मां कढी छडियो आहे, जंहिं आत्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) प्रापति कयो आहे, याने घरु बारु त्यागण जे भेट में अंतरज्ञानु हासिल करणु वडी गाल्हि आहे, अविद्या तड़े कढणु अहमु गाल्हि आहे. उन खां सवाइ केरु बि पंहिंजे सचे स्वरूप जो, परमात्मा जो अनुभवु नथो करे सघे. जीअं तिरीअ ते आंविड़े (आंवले-) खे साफु साफु डिसी सघिजे थो, तीअं उन अवधूत खे ईश्वरी ज्ञानु, आत्मिक ज्ञानु पिणु चिटीअ तरह थिए थो; हू रूहानी ज्ञान रूपी सूरज खे डिसे थो; परमात्मा जो दीदारु करे थो; अहिड़े परब्रह्म जो दर्शनु करे थो, जंहिंजे आधार ते हीअ सारी सिरिष्टी टिकियल आहे.

सो जोगी जाक मन में मुद्रा । राति दिवस ना करई निद्रा ।।
मन में आसण मन में रहणा । मन का जप तप मनसूं कहणा ।।
मन में खपरा मन में सींगी । अनहद बैन बजावै रंगी ।।
पंच परजारि भसम करि मूका । कहै कबीर सो लहसै लंका ।।

सो प्रेमी पूरनु, सो साधू जनु सूरमो,
जो आणे सीता सुरिति खे, मारे मन रावणु,
कढे डेहि डहीअ मों, सामी मथे मखणु,
अचणु अऊं वञणु, डिसे कोन आकास में.

सामी साहिब प्रेमी शख़्स ऐं साधू-संत जा लक्षण (निशानियूं) बुधाईंदे चवनि था त उहो ई पूरनु प्रेमी (भगतु) आहे ऐं उहो ई शूर वीरु साधू आहे, जंहिं सुर्ति (स्मृती, यादि, जाण, बूझ) रूपी सीता खे हासिल करण लाइ मन रूपी रावण खे मारे छडियो. पोइ उन वीर पंहिंजे शरीर रूपी डहीअ खे विलोड़े, मंथनु करे, उन मां अंतरात्मा/परमात्मा रूपी मखणु कढियो. परब्रह्म जो रूपु डिसण में, आनंदु वठण में एतिरो त हू मगनु थी वियो जो कंहिंजे अचण वञण डांहुं बि हून जो ध्यानु कोन थो वञे ऐं न ई उहो परमेश्वर सां एकागरु थी वञण करे आकास डांहुं नज़र करे थो.

वेदान्त जीव (प्राणी, साहवारे) खे परब्रह्मु ई चयो आहे. **'जीवो ब्रह्मैव नापरः'.** तंहिंकरे ब्रह्मदेव खां वठी सूख्यम जीव-जंतुनि-कीड़नि खे 'जीव' चयो वयो आहे. कंहिंजे लागापे (उपाधी) जे करे जीव खे श्रेष्ठ या ओछो रूपु प्रापति थिए थो. अविद्या जे उपाधीअ करे जीवु वासना-इच्छा वारनि कर्मनि में बधिजी वञे थो ऐं पोइ सुख - दुख, मान-अपमान, जनम-मरण जे चकर में पवे थो. पंहिंजे मूल (असुली, बुनियादी) रूप खे विसारे जीवु पंहिंजे स्थूल शरीर (देहि) खे ई 'मां' याने आत्मा समुझण लगे थो. कर्मरूपी फल खाईंदडु जीवु पंहिंजे आत्मस्वरूप (अहं ब्रह्मस्मि) खे विसारे माया जे जार में फासी वञे थो. जीवु जडहिं 'मां कर्ता, मां भोक्ता' जी भावना मां पाण खे अलगि थो करे, तडहिं हू उन बंधन खां पाणु छडाए थो. पोइ हू साधना, भगिती करे या साधू-संतनि जे संग में, सत्गुरूअ जे बोध-ज्ञान द्वारां पंहिंजे असुली सूरत खे सुञाणी सघे थो.

सामी साहिब इहा ई गाल्हि रूपक अलंकार द्वारां समुझाइण जी कोशिश कनि था. हिते पूरनु प्रेमी (भक्तु) आहे. सचो सूरिमो संतु आहे. बेई परमात्मा खे पसणु चाहिनि था. बिन्ही खे परब्रह्म जो साख्यात्कारु करे अलोकिक आनंदु माणिणो आहे, जेको अपवाद रूप में ई कंहिंखे नसीबु थिए थो. हिते रूपकु आहे सीता रूपी सुर्ति जो. सीतारूपी स्मृती, यादि, त मां ई ब्रह्मु आहियां. इहा यादि विसिरी वेई आहे जीव खां. सीतारूपी इहा सुर्ति (स्मरणु) मनरूपी रावणु खणी वियो आहे. श्रीराम सीता खे रावण जे बंधन खां छडायो हो - रावण खे मारे करे. तहिड़ीअ तरह मन रूपी रावण खे मारे स्मृती (सुर्ति) रूपी सीता खे आज़ादु करे शरीर रूपी

सो साधू जनु जा॒णु, जो साधे मनु सुधि करे,
दुख सुख लाभ अलाभ में, रहे साबूती साणु,
सामी सभकंहीं जो, केवल घुरे कल्याणु,
कढी पांहिंजो पाणु, पिए पियारे राम रसु.

सामी साहिब साधू-संत जी परिभाषा बु॒धाईंदे चवनि था त साधू पुरुषु उन खे चइजे जेको पंहिंजे मन मां इच्छाऊं-ख़्वाहिशूं या बि॒या विकार कढी मन खे शुध्दि/पवित्रु थो बणाए. मन खे साधण वारो साधू-संतु सुख या दुख जी हालति में, नफ़े-नुक़्सान जी स्थितीअ में पिणु स्थिर, अडो॒लु या पुख़्तो रहे थो, हिकजहिड़ीअ हालति में रहे थे. उहो ई सचो साधू आहे, जेको सभिनी जो कल्याणु, भलो थो चाहे, कंहिंजी मंदाई नथो चाहे. हू पंहिंजे अंदर मां मांपुणो कढी, अहंकारु कढी पाण त प्रभूअ जी भ॒गि॒तीअ जो रसु पिए थो पर बि॒यनि माण्हुनि खे बि पिआरे थो, अलोकिक आनंदु वठाराए थो.

साधू-संत हलंदड़ - चलंदड़ देव ई हूंदा आहिनि. परमात्मा जो नांउ सिध्दि करे डि॒यणु ई संतनि जो संसार ते कयलु वडो॒ उपकारु हूंदो आहे. हज़ारें मनुषनि खे नामु डे॒ई ईश्वर डा॒हुं मोड़णु संतनि जो सचो कार्यु आहे. हू सूरज जियां संसार ते सचो उपकारु कंदा आहिनि. संत माता जियां हूंदा आहिनि, जे असांखे परमेश्वर यादि डि॒यारींदा आहिनि. संतनि जे सरीर रूपी मंदर में समाधी रूपी देवता वासो कंदो आहे. संतनि जो चरित्रु ज॒णु सफल जीवन जो ज़ाहिर रूपु हूंदो आहे.

सामी साहिब पिणु साधू-संतनि जो बयानु कंदे बु॒धाइनि था त सचा साधू या संत ज़िंदगीअ जी हर हालति में हिक जहिड़ा ई अडो॒लु रहंदा आहिनि. सुख या दुख में, लाभ या हाञीअ में संदनि मनु अस्थिर कोन थींदो आहे. हू सभु समान रूप में सहंदा आहिनि. वडी॒ ख़ासियत इहा अथनि जो 'करि भलो त थियई भलो' जी विर्ती धारींदड़ साधू पुरुष पंहिंजे अंदर मां अभिमानु कढी प्रभूअ जे प्रेम जो प्यालो पाण बि पीअंदा आहिनि त बि॒यनि खे बि पिआरे अलोकिक आनंद जो अनुभव कराईंदा आहिनि उन्हनि जे मन में कंहिं क़िस्म जो द्वैतु

आशा तजि माया तजै, मोह तजै अरु मान ।
हरष शोक निंदा तजै, कहै कबीर सन्त जान ।।

सोई संतु भग़तु, सोई पंडतु ग्यानवानु,
मिर्ग तिरिष्ना जे जल जां, ड्ठिो जंहिं जग़तु,
मिटायाईं मन मों, सामी ममता मतु,
अनभइ आतम ततु, पाए परिचो पाण सां.

संत, भग़त (भक्त), पंडत ऐं ग्यानवान पुरुष जे निशानियुनि या गुणनि जो वर्णनु कंदे सामी साहिब ब़ुधाइनि था त जंहिं हिन संसार खे मिर्ग तिरिष्ना (मृगतृष्णा) जे जल जियां, रुञ जियां कूड़ो समुझो आहे, जंहिं पंहिंजे अंदर मां ममता, मोहु आदी कढी छड्डियो आहे, जंहिं ग्यान जे प्रकाश सां परमात्मा खे ज़ातो आहे ऐं अंदर ई अंदर में आत्म-तत्व जे दर्शन जो आनंदु मणियो आहे, उहो ई सचो संतु, भक्तु, पंडतु या ग्यानवानु पुरुषु आहे.

हिन जग़त में संत, भक्त या पंडत वग़ेरह सड्डाइण वारा त घणा ई आहिनि मगर सामी साहिब सभिनी खे संत, भक्त वग़ेरह मञण वारा नाहिनि. वेदांत जा गहन अभ्यासी सामी साहिब सिर्फ़ु उन्हनि खे सचा संत, भक्त ग्यानी पुरुष या पंडत था चवनि, जेके पंहिंजी विर्ती ऐं आचरण / हलति सां सचा संत वग़ेरह साबित थियनि था. भग़वा/गेड़ू वस्त्र पाईंदड़ु सचो संतु नाहे ऐं न ई ग्रंथनि जो सिर्फ़ु अभ्यासु कंदड़ु या डिगिरियूं हासुल कंदड़ु विद्वान पंडतु या सचो ग्यानवानु आहे. हक़ीक़त में जंहिं मनुष हिन फ़ानी संसार खे कूड़ो समुझो आहे, मृगतृष्णा (रुञ) वांगुर आभासी या मिथ्या समुझो आहे, जंहिं पंहिंजे हिर्दे मां ममता ऐं मोह जहिड़ा विकार कढी पंहिंजो हिर्दो निर्मल बणायो आहे ऐं पोइ हिर्दे में उन आत्म-तत्व जो, परमात्मा जो अनुभवु करे अलोकिक आनंदु प्राप्त कयो आहे, उन खे ई सचो संतु, क्तु या पंडतु ऐं ग्यानवानु चवणु/समुझणु घुरिजे.

हक़ीक़त मभें जेके सन्त-स्वभाव वारा पुरुष या ग्यानी हूंदा आहिनि, उहे आम माण्हुनि खां निराला हूंदा आहिनि. उन्हनि खे सुञाणण जा उहिञाण (निशानियूं) अलग़ि आहिनि. कबीर साहिबु पिणु इहा ई ग़ाल्हि थो चवे-

आशा तजि माया तजै, मोह तजै अरु मान।
हरष शोक निंदा तजै, कहै कबीर संत जान।।

संतनि जो दरिसनु, ड॒िसी नेण ठरी विया,
बुंधी वाक विलास जा, लुअं लुअं थी परिसनु,
अविद्या कलिपत न रही, मिटियो सभु अननु,
पाए आतम धनु, सामी सुम्हियो सेज ते.

सामी साहिब चवनि था त 'संतनि जो दर्शनु करे मुंहिंजा त नेण ई ठरी पिया. संतनि जा वचन बु॒धी मुंहिजी लुअं लुअं, रग॒ रग॒ प्रसन्नु थी वेई. पोइ त मुंहिंजो अग्यानु (अविद्या) बि दूरि थी वियो. मन में कूड़ो ख्यालु या सन्सो कोन रहियो, मुंहिंजे मन जो फुर्णो मिटिजी वियो. संतनि जो दर्शनु करण सां मूंखे आत्मिक धनु, रूहानी ख़ज़ानो मिली वियो ऐं मां गहिरो आनंदु ड॒ियण वारी सेज ते सुम्ही पियुसि.'

'संतु' उन कामिल पुरुष से चयो वेंदो आहे, जंहिंजो परमेश्वर में पूरन ऐं अटल विश्वासु हूंदो आहे. जेको पंहिंजी विर्ती आत्म-स्वरूपु बणाए थो, उहो संतु आहे. संतनि में आत्मज्ञान ऐं परोपकार नाले ब॒ गुण हूंदा आहिनि. हू शांति स्वभाव वारा ऐं उदार हूंदा आहिनि. हू बसंत रुति जहिड़ा हूंदा आहिनि. संत सभ जे कल्याण जो विर्तु धारणु कयल हूंदा आहिनि - **'सर्वभूतहिते रतः।'** सचनि संतनि जे संग-सुहिबत में अचण ते साधारण इन्सानु बि महान बणिजी पवे थो. सचा संत प्रपंच ऐं परमारथ जो, विज्ञान ऐं आत्मज्ञान जो जोग॒ो मेलु कराइनि था. संत ज॒णु हलंदड़ चलंदड़, सगुण साकारु भग॒वान हूंदा आहिनि, जिनि जो दर्शनु करे साधारणु इन्सानु आत्मिक सुखु पाए थो.

अहिड़नि सचनि संतनि जो दर्शनु करे सामी साहिब पिणु धनभाग॒ बणिजी वञनि था. संदनि हिर्दे में आनंदु ई आनंदु भरिजी वञे थो. चवनि था त संतनि जो दीदारु करण सां मुंहिंजा नेण ई ठरी पिया. संतनि जी वाणी सुणी, वचन बु॒धी त मुंहिंजी लुअं लुअं बि परसनु थी वेई, आनंद में भरिजी वेई. संतनि जो दर्शनु थियण करे मुंहिंजे अंदर मां अग्यानु निकिरी वियो, कोई सन्सो या भरमु, ब॒ियाई वग़ेरह मन में कान रही. मुंहिंजो मनु साफ़ु, निर्मलु, विकार रहित बणिजी वियो. संतनि जो दर्शन करण करे मूं आत्मिक धनु हासिल कयो, रूहानी खज़ानो मिली वियो. हिकु अहिड़ो धनु, जंहिंजे मिलण करे मूंखे आत्मिक आनंदु प्रापति थियो ऐं मां उन आनंद, उन अलोकिक सुख जी सेज ते वञी सुम्हियुसि.

हक़ीक़त में संत पूरे विश्व जो उद्धारु कंदड़ हूंदा आहिनि. हू पाण बि शीतलु हूंदा

कबीर शीतल जल नहीं, हिम ना शीतल होय ।
कबीर शीतल संत जन, राम सनेही सोय ।।

हज़ारनि जी हिक, गा॒ल्हि बु॒धाई सतिगुरूअ,
ख़ालिकु वसे ख़लिक में, ख़लिक मंझि ख़ालिक,
पेही डि॒सु परितीति सां, सामी रखी सिक,
कोहु चटीं थो चिक, दरि दरि देवाननि जां.

सामी साहिब चविनि था त सत्गुरूअ हज़रनि जी हिक गा॒ल्हि बु॒धाई.चे ख़ालिकु (रिस्जनहारु, ईश्वर)ख़ल्क (लोक, आम माण्हुनि) में वसे थो ऐं ख़ालिक़ में ख़ल्क वसे थी. इहा गाल्हि तूं पाण में पेही, अंदर में झाती पाए महसूसु करि, अनुभवु करि, ऐं इहो कमु सिक, प्रेम सां करि. प्रेमु रखी तूं हिर्दे जे अंदरि डि॒सु. तोखे ईश्वर जो, अंतरात्मा जो दर्शनु थी वेंदो. तूं छा लाइ थो ईश्वर खे बा॒हिर गो॒ल्हीं ऐं पाग॒लनि जियां दरि दरि भटिकीं ऐं गप चटीं ?

मनुष खे पंहिंजे जीवन में घणे भाङे सभु गा॒लहियूं सिखिण्यूं पवंदियूं आहिनि. को न को गुरू करे हू सिखंदो रहे थो. आत्मज्ञानु या ईश्वर जो दर्शनु थियण लाइ बि गुरू करणु ज़रूरी आहे. अत्मज्ञानु मानाॅ पंहिंजे सचे रूप या आत्मा जो ज्ञानु. अंदर में वेठल ईश्वर खे, आत्मा खे सुञाणणु घुरिजे. इन लाइ ब्रह्मज्ञानी सत्गुरू असांजो सूंहों बणिजे थो. सत्गरूअ जे रहबरीअ में शिषु सार–असार जो वीचारु करे थो. सत्गुरुअ जी किर्पा सां हू पंहिंजे स्वरूप जो अनुभु करे थो. सत्गुरू शिष खे, गुरुमुख खे सारु, समुझाईंदा आहिनि. ईश्वरु, उपाइणहारु सर्वात्मा आहे. ईश्वर सर्व अंत्रयामी आहे. परमेश्वर सभिनी जीवनि खे पैदा कयो आहे एं हू सभिनी जे अंदरि रहे तो. विश्व में सारी सत्ता उन जी ई आहे. परब्रह्म, परमेश्वरु जीअं सारे विश्व में व्याप्त आहे, तीअं सारो विश्वु पिणु उन परमेश्वर में ई समायलु आहे. तंहिंकरे स्रिजणहारु परमात्मा जीअं लोकनि में, साहवारनि–माण्हुनि में निवासु करे थो आत्मा जे रूप में, तीअं लोक पिणु परमात्मा में वसे थो. को बि हिक बि॒ए खां जुदा नाहे. सच्चिदानंद परमेश्वरु असां में आहे ऐं असीं परमेश्वर में अहिंयूं.

इहो राज़ु सत्गुरु ई बु॒धाइनि था. लख–किरोड़नि जी हिक गा॒ल्हि. आत्मा–परमात्मा जे हिक रूप जी गा॒ल्हि. सामी साहिब पिणु सतिगुरूअ जी ई गा॒ल्हि समुझाइनि था. सत्गुरू ज॒णु मनुष–देहि धारणु कयल ब्रह्मु ई आहे. करुणा जा सागर सत्गुरू शिष्य खे, आम माण्हुनि खे अध्यात्म जो उपदेशु कनि था. चे अंदर में पेही डि॒सो, ईश्वर निस्बति प्रेमु, भगि॒ती–भावना रखी हिर्दे में झाती पाए डि॒सो. पंहिंजे मन में ई परमात्मा जो दर्शनु थींदुव. ईश्वर जे दर्शन लाइ बा॒हिर भटिकण जी ज़रूरत नाहे. मंदर, टिकाणा, तीर्थ–स्थान भेटण बदिरां, दरि दरि भटिकण, रुलण बदिरां पंहिंजे मन–मंदिर में वेठल परमात्मा जो दर्शनु कयो. मन में ई स्वस्वरूपु आत्मा अथव. आत्म–स्वरूपु सच्चिदानंद ई विश्व रूपु जो आधारु आहे. मनुषु विश्व जो हिकु अंशु हुअण करे उहो ई आत्म–स्वरूपु संदसि अंदर में रहे थो. तव्हां

कस्तुरी तन में बसै, मृग ढूँढै बन मांहिं ।
ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहिं ।।

हरिजन कढी हटु, वेठा सौदे सार जो,
सम रखियाऊं साहिमी, सम रखियाऊं वटु,
वठे को वेसाह सां, नेही निह कपटु,
परमेसरु परघटु, सुतह ड॒िसे सामी चए.

सामी साहिब चवनि था त हरीअ (परमेश्वर) जा भग॒त या संत दुकानु खोले वेठा आहिनि, जिते सार/सत/सत्य जो सौदो (वापारु) पिया था कनि. तोरे ड॒ियण लाइ संतनि वटि समानता(हिकजहिड़ाईअ/एकता) जी ताराज़ी ऐं वट आहिनि. संतनि वटां उहो ई माण्हू विश्वास सां सौदो थो वठे, जेको निष्कपटु आहे. जंहिंजे मन में को कपटु नाहे. अहिड़ो मनुष सौदो वठण खां पोइ जल्दु ई पंहिंजे सामुहूं परमेश्वर खे परघटु थियलु ड॒िसे थो.

सचा संत ऐं सत्पुरुष परमारथ जो आधारु हूंदा आहिनि. संतनि जे हुअण करे लोक में आत्मज्ञानु परघटु थिए थो. परब्रह्म/परमात्मा जहिड़ो दुर्लभु पदार्थु संतनि जी संगति करण सां सवलाईअ सां हासिल थिए थो. आत्म-वस्तू (परमात्मा) आम माण्हुनि खे ड॒िसण में कान ईंदी आहे. इहा परमात्मा-वस्तू साधू-संतनि जी किर्पा सां साधक खे प्रापति थिए थी. साधक खे संतनि जी संगति करण सां परमेश्वरु अनुभवु थी सघे थो. परमात्म वस्तू संतनि जो स्वरूपु हूंदो आहे. याने संत आत्म स्वरूप हूंदा आहिनि संत आनंद जो स्थानु इंदा आहिनि, उहे संपूरन सुख ऐं संतोष जो मूलु हूंदा आहिनि .संत वड॒ा दानवीर हूंदा आहिनि. अहिड़नि संतनि वटां आत्मज्ञानु छो न मिली सघंदो ? सचा संत आत्मस्वरूप जो अहिड़ो अलोकिक दानु ड॒ियनि था, जो त्रिलोक में किथे बि ग॒ोल्हण सां हथि कोन ईंदो. संतनि जे करे ई परमात्मा अंतःकरण में पर्घटु थिए थो.

सामी साहिब पिणु इहा ई ग॒ाल्हि चवनि था. चे हरिजन (संत) सच जो वखरु विकिणण लाइ हटु कढी वेठा आहिनि. हू आत्मज्ञानु ड॒ियण जो, नामु ड॒ियण जो सौदो था कनि. ऐं इन लाइ साहिमी (ताराज़ी) ऐं वट समता जा रखिया अथाऊं. बिना कंहिं भेट भाव जे हू कंहिं खे बि जीव ऐं परमेश्वर जी एकता जो वखरु ड॒ियण लाइ तयारु आहिनि. भगि॒तीअ में जीव ऐं ब्रह्म जी एकता (हिकरूपता) अहमु हूंदी आहे. कोई बि इहो सौदो वठी सघे थो. शर्तु हिकिड़ो आहे त वठण वारे जे मन में विश्वासु हुजे ऐं उन में को कपटु न हुजे, अहिड़ो सचो श्रध्दालू ई परमेश्वर खे पंहिंजे सामुहूं परघटु थियलु ड॒िसी सघंदो.

हीरो जनमु हारे, मूरख वेहु म मति रे,
मिली वठु महबूब सां, साझुरि संभारे,
कालु तुहिंजे कंध ते, थो पलि पलि पुकारे,
मिटी कया मारे, सामी चए जंहिं सूरिमा.

सामी साहिब चवनि था ते हे इन्सान, तूं पंहिंजो हीरे जहिड़ो क़ीमती जनमु अजायो न विञाइ. तूं सवेल ई पाण खे संभाले उन महबूब (ईश्वर) सां मिलण जी करि, तुंहिंजे कंध ते कालु (मौतु) वेठो आहे, जेको घड़ीअ घड़ीअ पियो थो पुकारे. काल (मृत्यूअ) वडा वडा वीर मारे मिटी कया आहिनि. तुंहिंजी कहिड़ी हस्ती आहे ?

भागनि सां हीअ नर देहि मिले थी. सभिनी जूणियुनि में मनुष-जनमु श्रेष्ठ आहे. मोखु, मुक्ती या भगवान/परलोक जी प्रापती नर-देहि सां ई थिए थी. वडा वडा संत-महंत, ऋषी, मुनी, साधू, भक्त, योगी, तत्वज्ञानी वग़ेरह इन नर-देहि में ई थी विया आहिनि. तंहिंकरे मनुष-जनमु हीरे जहिड़ो कीमती ऐं उत्तमु लेखियो वियो आहे. इन करे जनम-मृत्यूअ जो चकरु टरी वञे थो. साधू-संतनि ऐं शास्त्रनि जो बि चवणु आहे त भगिती करे, ईश्वर जो नामु जपे हीरे जहिड़ो जनमु सफलो करणु घुरिजे.

मगर देहि मिलण खां पोइ मनुषु परमारथु विसिरी थो वञे. माया जे जार में फासी भंभुलिजी थो वञे. मूरखु इन्सानु त मिटीअ मां घरु ठाहिण खां पोइ 'हीउ घरु मुंहिंजो आहे'. जो वीचारु मन में सोघो झले थो विहे. हरको चवे त 'हीउ घरु मुंहिं जो आहे' 'मुंहिंजो' , मुंहिंजो ' चई मूर्ख इन्सान खे त कडहिं न कडहिं घरु छडे वञिणो थो पवे. जनमु मानॉ बिनि डींहंनि जी बस्ती. देहि खे 'पंहिंजी' चवणु बि सचु नाहे. कालु/मौतु त असां ते नज़र रखी बीठो आहे. वक़्तु आयो नाहे ऐं काल जो चंबो लगो नाहे ! कालु क़हिरी आहे. कंहिंते दया कोन करे, कंहिंखे कोन छडे. अमीर-ग़रीब, बुढा-जवान, राजा-रंक सभिनी खे मारे मिटी करे छडींदडु कालु कंहिं ते कहिल कोन करे.

इन करे सामी साहिब मूरख मनुष खे सुजागु थियण लाइ चवनि था. अड़े, अञां वक़्तु अथई, तू जल्दु ई पाणु संभाले प्रीतम परमेश्वर सां मिलण जो जतनु करि. परमारथु मनुष जीवन जो सचो मक़्सदु आहे. सुञाणण जी कोशिश करि. परमारथु आहे हृदय वारे स्वरूप ताईं पहुचण जो गुझो रस्तो. परम अर्थु सभिनी ज्ञाननि जो ततु आहे, उत्तम में उत्तमु आहे. महिबूब सां मिलण जो मार्गु आहे. अनेक जनमनि जा पुञ गंढि में हूंदा त ई इहो परम अर्थु सिध्दि थी सघंदो. परमार्थु थियण सां ई परमात्मा जो साक्षात् अनुभवु थी सघंदो.

काल फिरै सिर ऊपरै, हाथों धरी कमान ।
कहै कबीर गहु ज्ञान को, छोड़ सकल अभिमान ।।

होरी खेलनि संत, सामी सारंगधर सां,
लाए रंगु रहति जो, गाइनि अनभइ छंत,
माधौ ऐं ऊधौ मिली, पसनि महबती महंत,
पुछनि अलेपु अचिंत, वाटां सुख सरूप जूं.

सामी साहिब हिक दृश्य (नज़ारे) जो चित्रु चिटींदे चवनि था त संत जन शारंगधर (विष्णू भगवान) सां होली पिया था खेडनि, रंग पिया था हणनि, मौजूं पिया था कनि. हू पंहिंजीअ सिधी (सुठी) हलति रूपी रंगु लाए ज्ञान जा छंद/गीत पिया था गाइनि. श्रीकृष्ण (माधव) ऐं उध्दव (ऊधौ) मिली करे उन्हनि प्रेमी संत महंत जननि खे पिया था डिसनि, जे बेफ़िकिरु बणिजी, निर्लिप्त बणिजी उन स्वरूप (परमात्मा) जे सुख जूं राहूं पिया था पुछनि.

रंगनि जो त्योहारु होली. खुशीअ-आनंद जो उत्सवु होली. मुक्त मन जो नाचु होली. रंगनि जी उडाम होली. आम ऐं ख़ास माण्हुनि जा उमंग होली. सचा संत पिणु होली खेडनि था-प्रियतम परमेश्वर सां, शारंगधर सां होली मल्हाईंदे रंग-बिरंगी थी वञनि था, प्रभू-प्रेम जे रंग में रङिजी वञनि था. होलीअ जे प्रतीक गाढ़हे रंग जे गुलाल में गाढ़हा थी वञनि था, पिचकारियुनि सां कयल रंगनि जी बरखा में संत सराबोरु ती वञनि था. परम आनंद जो अहिड़ो अवसरु (मोक़ओ) सचनि संतनि खे ई नसीबु थींदो आहे, जिनि अंदर में प्रभूअ जो दर्शनु कयो आहे.

सामी साहिब अहिड़े ई परम आनंदमय प्रसंग जो वर्णनु कनि था, जंहिं में सचा संत, साक्षात्कारी संत भगवान श्रीकृष्ण सां गडु मिली करे होलीअ जो आनंद-उत्सवु मनाए रहिया आहिनि. भगवान ऐं भक्तनि जी इहा होली डिसण जहिड़ी आहे. इन उत्सव में सचा संत पंहिंजीअ सुठीअ हलति रूपी रंगु हणंदे ज्ञान ज गीत पिया था गाइनि. भगतनि जे इन मेड़ में भगवानु पिणु भगतनि सां मिली होली पियो थो मल्हाए. जणु भक्त ऐं भगवान जो वेछो, फ़रकु ई मिटिजी वियो आहे, अद्वैत जी स्थिती पैदा थी वेई आहे .श्रीकृष्णु ऐं संदसि प्यारो भक्तु ऐं मित्रु उध्दवु बई मिली करे प्यारनि महंतनि, प्रेमी जननि खे पिया था प्रेम सां पसनि, डिसनि. उहे संत बेफ़िकिरु, निर्लेप बणिजी परमेश्वर जे सुख जी वाट पिया था पुछनि. अञां वधीक ब्रह्मानंदु कीअं प्रापति थींदो? कीअं वधीक अलोकिक आनंदु माणे सघिबो?

साधक सहज समाधीअ द्वारां सत्यलोक जो आनंदु बि अनुभवु करे सघे थो, जंहिं में परम पुरुषु सदाईं जीवरूपी प्रियतमा सां होली पियो थो मल्हाए. होली खेलणु जो अर्थु आहे जीव ऐं भगवान जो अनंत प्रेमु मिलण जो आनंदु.















प्रो. हर्दवाणीअ जो अध्यात्मिक – समाजिक साहित्य –संसारु
(देव नागरी सिंधीअ में)